

ॐ



शब्दार्थप्रकाश ॥  
संस्कृत डिक्सनेरी ॥

संस्कृतसे भाषा जिसमें

स्वर वर्णके क्रमसे संस्कृत शब्दों का अर्थ स्व-  
देशीय भाषामें उच्चारण प्रदेशांतर्गत बड़ोराग्राम  
निवासी श्रीदीक्षितकुलोत्पन्न परिदित वि-  
श्वनाथ प्रसाद शर्माने अति परिश्रमसे  
संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के  
लिये विरचित किया

जिसको

श्री कान्यकुब्ज कमलोज्ज्वल श्रीमान् वाजपेयिपरिदित दुर्गा-  
प्रसाद शर्मा ने अति शुद्धता पूर्वक निज आह्वानुसार स्थान

कानपूर

परिदित शिवशंकरलाल के कैलास-यन्त्रालय में छपवाया

प्रथमबार प्रति १००० ]

[ फरवरी सन १८६४ ईसवी

## सूचना ॥

~~संस्कृत~~ शब्दार्थप्रकाश ग्रन्थ संस्कृत से भाषा राजकीय विद्यार्थियोंके लिये बनाया है क्योंकि ऐसी पुस्तक संस्कृत भाषा की देखने में नहीं आई जो सहजही में शब्द का अर्थ जानाजाता जैसे कि अंगरेजी डिक्सनेरी होती है इस ग्रन्थसे संस्कृत शब्दों का अर्थ डिक्सनेरी व लुगात्के तरीके से प्रथम शब्द पीछे अनेकार्थ देशी भाषामें रखेगये हैं बहुतसे संस्कृत कोष व ग्रन्थ एकत्र कर निर्माण किया है उन ग्रन्थोंके नाम नीचे लिखे हैं ॥

१ मेदिनीकोष	६ विश्वकोष
२ त्रिकाण्ड	१० अनेकार्थ
३ रत्नमाला	११ अभिधानमाला
४ भागुरि	१२ अमर
५ शब्दार्णव	१३ शब्दार्थ
६ शाश्वत	१४ पुरुषोत्तम
७ एकाक्षर	१५ हलायुध
८ हैम	१६ रुद्र

यद्यपि बहुतसे कोष बने और बनायेगये परन्तु ऐसा देशीय अर्थ संस्कृत शब्दोंका किसी कोष में मिलना बहुत दुर्लभ है इसको सज्जन महाशय देखकर जरूर प्रसन्न होंगे यह संस्कृत राजकीय पढ़नेवाले व अन्य विद्यार्थियों को निहायत लाभ दायी है । भाद्र कृष्ण ४ भृगुवार सम्वत १९४६ .

दीक्षितोपनामक पण्डित विश्वनाथ कृत

श्री



शब्दार्थप्रकाश ॥

THE SAURUS OF SANSKRIT WORDS.

श्लोक श्रीमच्छिवांप्रणम्याद्यां सपुत्रांशिवसंयुताम् ॥

वालानासुखबोधाय शब्दभाषांचिनोम्यहम् ?

यदत्रममचापलं तत्तन्मध्वंमनीषिणः ॥

यथामतिममोदगता तथाभयतेभारती २

संस्कृतसे भाषा ॥

( अ )

अ संस्कृतका प्रथमस्वर थोडा अभाव  
श्रीवासुदेव.

अंश भाग वाटतौलके.

अशु किरणसूर्यादिको की.

अंशुक बन्ध स्वैतबन्ध रूपट्टा.

अशुमती शरिबन औषधि.

अंशुमत्फला कदली केला

अंशुमालिन सूर्य

अस कंधा भुजा शिर

असल , मोटा बली

अहति , दानदेना

अहम बाप बुराकर्म चोरीआदि.

अकरणि शाप गाली कोसना.

अकूपार समुद्र सागर.

अकूपणकर्मन - पुण्यकरनेवाला.

अक्ष बहेर मीठानमक सोरहमासा जुवे

के पांसे जुवा रुद्राक्ष इन्द्राक्ष

गाडीकापैहा

अक्षत जो टूटा नहो गादि लाई

अक्षदंशुक } जुवा बनाने वाला जैसे अक्षदंतुत } शकुनी हुआ	अगस्ति } एक ऋषि का नाम जो वटसे अगस्त्य } मित्रावरुणके यज्ञमें प्रगट हुये
अक्षपाद नैयायिक. [ तपस्या.	अगाध जिसकीथाहनहो.
अक्षर मोक्ष परब्रह्म वर्ण आकाश धर्म	अगार घर भवन
अक्षरचंचु } लेखक लिखनेवाला. अक्षरचण }	अगुरु शीसम सेरसई शिशुपा. अगुरु अगर.
अक्षवती जुवापाशेका. [ कील पैहाकी.	अगुरुशिशुपा शिशुपा सेरसई शीसम.
अक्षायकीलक गाड़ीकीधूरी लोह	अग्रायी स्वाहा अग्निकीभिया.
अक्षान्ति ईर्ष्यादूसरेकाविभवदेखजलना.	अग्नि आगि.
अक्षि नेत्र आंख.	अग्निकण चिनगी लुकुई.
अक्षिकूटक हांथीकीआंखकीगोलाई.	अग्निचित् अग्निहोत्र करनेवाला.
अक्षिगत वैरकेयोग्य शत्रु	अग्निज्वाला धव धौकेफूल.
अक्षिव समुद्र लोन.	अग्निदय तीन प्रकारकी अग्नि यज्ञकी.
अक्षीव समुद्र लोन सहिजनवृक्ष.	अग्निभू स्वामिकार्तिक जो शिवके वी र्यसे प्रकटहुये.
अक्षौट } अखरोट. अक्षौड }	अग्निमंथ अरणी इरनी जैति.
अक्षौहिणी सेना का प्रमाण जिस में हाथी २१८७० रथ २१८७० घो- ड़ोंके सवार ६५६१० पैदल १०६ ३५० हों.	अग्निमुखी भेलांचा.
अखंड संपूर्णसबजिसमेंकुछभीकमनहो.	अग्निशिव केशरि कुंकुम रोली.
अखात देवता के द्वारके कुंदादि जैसे चत्रतीर्थ मुष्करादि.	अग्निशिखा करिआरी शाग भेद.
अखिल संपूर्ण सब.	अग्न्युत्पात आगिलगना धूमकेतु दि-
अग वृक्ष पहाड़.	अग्र आगे अधिक श्रेष्ठ. [ खाई देना.
अगद औषध जिससे रोग नाशहो.	अग्रज बड़ा भाई.
अगदंकार वैद्य दवाकरनेवाला.	अग्रजन्मन् ब्राह्मण विभ
अग वृक्ष पहाड़.	अग्रतःसर आगे चलने वाला.
अग. श्रीदेवतालवृक्ष.	अग्रतस आगे पूर्वदिशा.
	अग्रमांस हृदयकामांस कलेजा.
	अग्रसर आगेचलनेवाला.
	अग्रिय } बड़ा भाई श्रेष्ठ. अग्रीय }
	अग्रोदिधिपु } जिसकन्याकी बही बहिन अग्रोदिधिपु } कुमारी हो और उस का

अग्रेसर आगे चलने वाला. [बिवाहहो.  
 अग्र्य श्रेष्ठ मुख्य.  
 अघ पाप दुष्टकर्म दुःख शिकार जुवा  
 आदिबिपत्ति राग बैर.  
 अघमर्षण सूक्त जो संध्योपासनमें  
 अग्न्या गौ गाय. [जपा जाताहै.  
 अंक चिन्ह गोद लक्षण.  
 अंकुर नवाकिल्ला अंगुशा.  
 अंकुश हांथीहांकनका.  
 अंकोट } अकोहर पिस्ता. [जाय.  
 अंकोल }  
 अंखोट }  
 अंक्य जोबाजागोदीमेंधरकेबजाया  
 अंग देहसंबोधनमें दूसरेअर्थमें.  
 अंगण घरकाआंगन सभाकाआंगन.  
 अंगद बिजायठ बजुल्ला एक वानर  
 का नाम. [बनेहों.  
 अंगना स्त्री नारी जिसके अंग उत्तम  
 अंगन आंगन.  
 अङ्गविक्षेप नाचना.  
 अङ्गसंस्कार देहमेंकेसरादिलगाना.  
 अङ्गहार अंगुलीधुमाकरनाचना.  
 अङ्गार अंगार जरताकाठ.  
 अङ्गारक मङ्गलग्रह  
 अङ्गारधानिका अंगीठी व्यरौसी.  
 अङ्गारवल्लरी कंजभेद.  
 अङ्गारवल्ली भारतीऔषधि.  
 अङ्गारशकटी अंगीठी व्यरौसी.  
 अङ्गीकार स्वीकार ग्रहण.  
 अङ्गीकृत अङ्गीकारकरना.  
 अंगुलिमान अंगुलीसेमपाण.

अंगुलिमुद्रा अंगुलीरामनामादिसहित  
 अंगुली अंगुरी.  
 अंगुलीयक अंगुठी मुंदरी.  
 अंगुष्ठ अंगूठा.  
 अंग्रि पैर चरण.  
 अंग्रिनामक वृत्तकीजड़ नीचेकीडार.  
 अंग्रिपर्णिका } पिटवानि औषधि.  
 अंग्रिवल्लिका }  
 अचडी सीधीगौ सीधीस्त्री.  
 अचल पर्वत जोचलनसके.  
 अचला पृथ्वी धरती [ नहों.  
 अचिकण रुखा स्नेहशून्य जो चिकना  
 अच्छ निर्मलजल रीछ मसन्न  
 अच्छभल्ल रीछ.  
 अच्युत श्रीभगवान.  
 अच्युताग्रज बलदेव कृष्णकेबड़ेभाई.  
 अज वोकरा विष्णु महादेव ब्रह्मा.  
 अजकव शिवकाधनुष.  
 अजमंधिका बबई.  
 अजगर मोटासांप.  
 अजगव शम्भु का धनुष.  
 अजन्य उत्पत्तविजुलीआदिगिरना.  
 अजमोदा अजमोद अजवाइन.  
 अजशृंगी मेड़ासिंही.  
 अजसन निरन्तर अतिशय.  
 अजहा केवांच.  
 अजा वोकरी माया.  
 अजाजी जीरा. [कारर  
 अजाजीव गडेरिया जोबोकरीसे जीवि  
 अजित विष्णु शंकर महत्त्वादि

अजिन . . . हिरणादिकोंकाचमडा . . .	अंडकोश } पाता . . .
अजिनपत्रा चिमगोदर . . .	अंडकोष } . . .
अजिनयोनि . . . हिरणाकीजाति . . .	अंडज . . . ब्रह्मा, मद्यरी पत्नी सर्पादि . . .
अजिर आंगन देश देह वायु . . .	अतट पहाड़सेजलगिरनेकास्थान . . .
अजिह्व सीधा सरल सूधा . . .	अतीकृत . . . अकस्मात् साहस . [नहो . . .
अजिह्वग वाण तीरजोसीधाजाय . . .	अतलस्पर्श . . . अगाधजिसजलकीथाह . . .
अज्जुका नाचनेवालीनदी . . .	अतसी अरसी . . . [लायना . . .
अज्भटा भूमिकाअंवर . . .	अति बहुत पूजा वडाई लायनाउलथा . . .
अज्ञ अतिपूर्वजोकुचकहमुननसके . . .	अतिक्रम चीरोंकीसंग्रामयात्रा . . .
अज्ञान अहंकार जिस्केज्ञाननहो . . .	अतिचरा स्थलकमलिनी . [नष्टहो . . .
अञ्चित पूजाकिया . . .	अतिच्छत्र . . . खर, अंकराजिससेखेत . . .
अंजन पश्चिमदिशाकेदायीकानाम . . .	अतिच्छत्रा सौंफ . . .
अंजनकेशी नली गंधद्रव्य पवारी . . .	अतिजव . . . बहुतजल्द वेगवान . . .
अंजना अंजनावती } दिशागजकी पत्नी . . .	अतिथि . . . अपनेपरमैजोकोईब्राह्मणादि . . .
अंजलि अंजुरी . . .	अतिनिर्हारिन . . . दूरकीसुगंध . [आवै . . .
अंजसा तत्त्व शीघ्रता . . .	अतिनु . . . विनानाव पारजाय . . .
अटनि } धनुमकीकोटि . . .	अतिपाथिन् सुन्दरराह . . .
अटनी } . . .	अतिपात उद्धंघन अतिक्रम . . .
अटरूप रुसाह रुसा . . .	अतिमसिद्ध प्रकाश बहुतनाम . . .
अटवी वन जंगल . . .	अतिवल वडावली वेगवान . . .
अटा अटना घुमना . . .	अतिमात्र . . . अतिशय शीघ्रता . . .
अट्ट महल अट्टरा . . .	अतिमुक्त सेवतीकाफूल . . .
अट्टया घुमना पृथ्वीपर्यटन . . .	अतिमुक्तक तिनिशृत्त . . .
अणक अथम नीच पापी . . .	अतिरिक्त अधिकहुवा बहुतखाली . . .
अणव्य जंगल वन . . .	अतिवक्र . . . बहुतवोलनेवाला . . .
अणि गाड़ीकीधूरी . . .	अतिवाद निठुरबोली कड़ीवान . . .
अणिमन् महादेवकीसिद्धि . . .	अतिविषा . . . अतीस . . .
अणीयम् बहुत छोटा . . .	अतिबेल . . . बहुतशीघ्रता . . .
अणु धानभेदवहुतछोटा . . .	अतिशक्तिता . . . बहुतपराक्रम . . .
अंड अंडापत्नीआदिका . . .	अतिशय . . . बहुतशीघ्र वडाई . . .
	अतिशस्त अनिसुन्दर . . .

अतिशोभन बहुतहीसुन्दर.  
 अतिसंस्कृत योग्य सहन शीलता.  
 अतिसर्जन बहुतदान.  
 अतिसारकिन अतीसारीरोगी. [हो  
 अतिसौरभ आमवृत्तजिसमेंबहुतसुगंध  
 अतीक्ष्ण कोमल.  
 अतीत व्यतीत बीतगया.  
 अतीतनीका विनानावपारजाय. [नहो.  
 अतीन्द्रिय इन्द्रियोंसेज्ञानजिसवस्तुका  
 अतीव अत्यंत बहुत.  
 अतिका बड़ीबहिन. [क्रियाकरै.  
 अत्यंतकोपन बड़ाक्रोधीदिनरातक्रोध  
 अत्यंतनीन बहुतचलनेवाला.  
 अत्यय नाश कष्ट.  
 अत्यर्थ अतिशय.  
 अत्यल्प बहुतछोटा बहुतथोड़ा.  
 अत्याहित बहुतभय बड़ीभय.  
 अत्रि एकऋषिकानाम.  
 अथ } मंगल अनंतर आरंभ मग्नसंपूर्ण.  
 अथो }  
 अद्भुत बहुत बहु.  
 अदर्शन विनाश न देखपड़ना. [हुये.  
 अदितिनंदन देवताजोअदितिसेकनट  
 अदृश अंधा विनाआंखका.  
 अदृष्ट आगि पानीसेभय.  
 अदृष्टि क्रोधकी आंख.  
 अद्वा साक्षात् तत्त्व.  
 अद्भुत रस आश्चर्य.  
 अबर बहुतभोजनकरनेवालापेटभर.  
 अथ आज अभी.  
 अद्रि पर्वत वृत्त सूर्य.

अद्वयवादिन् वीध जैनि.  
 अघम कम निंदित नीच.  
 अधमर्ण कर्जदार ऋणी.  
 अधर नीचेका ओठ हीन नीचा.  
 अधरेद्युस आगेकादिन.  
 अधस पाताल नीचेकालोक.  
 अधामार्गव लटजीरा.  
 अधिकाद्धि धनवान धनी.  
 अधिकांग कमरपट्टा पट्टका.  
 अधिकार व्यवस्थाकरना प्रजापालना.  
 अधिकृत अधिकारी जैसे राज्याधिका-  
 री ग्रामाधिकारी.  
 अधिस्तित्त किसीकेऐश्वर्यादिकीनिंदा  
 करना दुर्वचनकहना.  
 अधित्यका पहाड़केऊपरकीधरती.  
 अधिप प्रभु स्वामी मालिक.  
 अधिपांग पट्टका कमरपट्टा.  
 अधिभू प्रभु मालिक.  
 अधिरोहिणी सीढ़ी.  
 अधिवासन सुगंधमाला धूपादिसेवस्त्र  
 तांबुलादिकोसुगंधितकरना.  
 अधिविन्ना बहुतीसौतियोंमेंपहिली  
 स्त्रीकानाम. [दार्थ वनतेहैं.  
 अधिश्रयणी रूहजिसमें भोजनके प-  
 अधिष्ठान पहाड़ामेंनगर प्रभाव आसन  
 अधीन आधीन वश. [स्थान.  
 अधीर कायर भीर लेंडार भगोड़ा.  
 अधीश्वर चक्रवर्तीराजा सबपृथ्वीका  
 मालिक.  
 अधुना इदानीम् इससमय इस काल.

अधृष्ट लज्जावान शर्माँला जोबहुत  
शर्माय.

अधोगतं मूत्रं चूहा नीचेजानेवाला.

अधोशुक्र नीचेकाकपड़ा लहेगा धोती.

अधोक्षत्र विष्णुइन्द्रियज्ञानजिनसेनीचेहै.

अधोभुवन पाताल नाम लोक.

अधोमुख नीचेकामुख.

अधोरण महाउतहाँथीहाँकनेवाला.

अध्यक्ष अधिकारी कामकाजकरने

वाला प्रत्यक्ष आँखकेसामने.

अध्यवस्य उत्साह उद्धाह.

अध्यात्म जीवात्मा उगता थोड़ा.

अध्यापक पंडित पढ़ानेवाला.

अध्याहार तर्क चतुराई बुद्धिमान्नी.

अध्युदा गिसखीकेबहुतीसौतीहाँ.

अध्योपणा गुरुआदिकेलियेद्रव्यादि

मागना.

अध्वग राहचलनेवालापरदेसी.

अध्वन् मार्ग राह.

अध्वनीन } विदेसी राही.

अध्वन्य }

अध्वर यज्ञ राजसूयदि.

अध्वर्यु यजुर्वेदी यज्ञमें.

अनक्षर न कहिने योग्य बात गाली.

अनंग कामदेव जोभिनांअंगसबको

वशकरताहै.

अनच्छ मैलापानी मैला.

अनहुह गाड़ीलैजानेवालाबैल.

अनध्यक्ष जोइन्द्रियोंसेग्रहणनहो

अनंत आकाश शेषनाग जिसकाअंत

न हो. [ या साग भेद.

अनंता पृथ्वी जवासा सरिवन दूर्व मा-

अनन्यत्र काम जोआपहीआपहो.

अनन्यवृत्ति एकाग्रचित्त एकांतमन.

अनय जुवाआदि विपत्ति अनरीति.

अनर्थक विनाप्रयोजनकीबात.

अनल अग्नि आगि.

अनवधानता चित्तकीधवरांहट किंसी

अनवरत्ते नित्य [ कामभेचित्तनहो

अनवस्कर सोर्षा निरुण्य किया

अनवरार्थ्य मुख्य श्रेष्ठ प्रधान

अनम् गाड़ी शकट [ नहुआहो

अनागतार्थवा जिसस्त्रीकेरजस्वला

अनातप छाया सूर्यकीमभा परछाँ-

ही कांति [ अपमान.

अनादर तिरस्कार आदरनकरना

अनामय आरोग्यता रोगनाश.

अनामिका छगुनियाकेपासकीअँगुरी.

अनायासकृत भिगोयकारकाडावनाना.

अनारत नित्य अतिशय शीघ्रता.

अनार्थतिष्ठ चिरायता चिरैता.

अनाहत कोराकपड़ा नवावस्त्र. [ मारते.

अनिमिष देवता मद्धरी जो पलकनहीं

अनिरुद्ध कृष्णकापाँत्र.

अनिल वायु देवगण स्वातीनक्षत्र.

अनिश नित्य दिनरात.

अनीक सेना संग्राम लराई. [ पती.

अनीकस्थ राजाकेरचाकरनेवालेसेना-

अनीकिनी सेना सेनाकीसंख्या.

अनु पाड़े बराबर लक्षण समीप.



## शब्दार्थप्रकाश ।

अनुक कायो कामवश.  
 अनुकंपा करुणा दया.  
 अनुकर्ष रथकेनीचेकाकाठ  
 अनुकल्प मुख्यसेअधम जैसेसकरके  
 स्थानगुद.  
 अनुकामीन जैसीइच्छाहो तैसाचलै.  
 अनुकार विडम्बना जैसेघोडेकीचाल  
 गदहाचले.  
 अनुकष परिपाटी सीधीचाल.  
 अनुक्रोश कृपा दया.  
 अनुग पीछेचलनेवाला पीछे  
 अनुग्रह अंगीकार कृपा  
 अनुचर नौकर टहलुवा  
 अनुज छोटाभाई  
 अनजीविन् सेवक दास  
 अनुतर्षण मदिरादिपीना  
 अनुताप पढिताना शोचकरना  
 अनुत्तम मुख्य श्रेष्ठ  
 अनुत्तर सबसेश्रेष्ठ जिसकाजबाबनहो  
 अनुनय समुझाना सूधा करना  
 अनुपद पीछेकेपैर एडी पद पश्चात  
 अनुपद्मीना पौला जोपनहीपैरमें  
 बांधीजाय [ पमानहो  
 अनुपमा दिशागजकीपत्नीजिसकीउ  
 अनुपुव अनुचर नौकर  
 अनुबंध दोषपैदाकरना [ बाझान  
 अनुबोध गई सुगंधमें सुगंधकरना थो  
 अनुभव साक्षात प्रत्यक्ष [ नोकीसलाह  
 अनुभाव कटाक्षकरना प्रभाव सज्ज  
 अनुमति पूर्णमासी जिसमें चंद्रमाकी  
 कालकुबकमनहो

अनुयोग प्रपण पूछना  
 अनुरोध अनुकूलता मनकेतुल्ये  
 अनुलाप बार बारबोलना  
 अनुलेपन कुंकुमादिकालेपकरना  
 अनुवर्तन मनके अनुसार कामकरना  
 अनुकूलता  
 अनुवाक वेदकाअंग [ आलसी  
 अनुशय बहुतदिनकावैरपढिताना  
 अनुप्य ठढा जोगरमनहो  
 अनुहार विडम्बना जैसे खन २ शद नू  
 पुरोंकीध्वनिहै  
 अनूक शील स्वभाव वंश  
 अनुचान जो शिष्यसांग शिचापढचुकै  
 अनूनक संपूर्ण सब जोकमनहो  
 अनूप जिसदेशमेंपानीबहुतहो  
 अनूरु गरुडकेवडेभाई अरण सूर्य  
 कं सारथी  
 अनृत कुटिल टेढा  
 अनृत भूँटीवात भूठबोलना सेवा  
 वृत्ति कुत्तेकीसीजीविका  
 अनेकप हांथी  
 अनेकमूक जोकुलकहनसकैमूर्ख, अंधा  
 अनेहस काल समय  
 अनोकरूह वृत्त जिसकीगाडीवनसकै  
 अंत प्रलय नाश मरनाअंत्य  
 अंतःपुर राजावों की स्त्रियोंका घर  
 अंतक यमराज [ रानी का महल  
 अंतर अवकाश अवधि परिधान जैसे  
 गाडी अंतरमें धरदो अंतर्धिपर्वतके  
 अंतर सूर्य हैं भेद जो अंतरसेरसौ

(अ)  
(अ)

## शब्दार्थप्रकाश ।

पहाड़ से है तादर्थ्ये तुम्हारे से ये  
कर्ज है छिद्र आत्मीय विना बाहर  
अवसर मध्य अंतरात्मा सादृश्य  
अंतरा मध्य  
अंतराभवसत्त्व मरण जन्मके बीचका  
अंतराय विघ्न उपद्रव [प्राणी गंधर्व  
अंतराल भेद्य प्राकाशकामय  
अंतरिक्ष आकाश [टापू  
अनरीष द्वीप जोस्थलजलसेधिराहो  
अंतर्रीय लहंगा नीचेकाधस्त्र  
अंतरे मध्य बीच  
अंतरेण मध्य विना वर्जना  
अंतर्गत भूलजाना बीचमेंपड़जाना  
अंतर्गल भिटी कालीभिटी  
अंतर्वा } आच्छादन द्वायजाना  
अंतर्धि }  
अंतर्द्वार द्विपाहुवाटरवाजा खिड़की  
अंतर्मनस व्याकुलचित्त  
अंतर्बर्त्री गर्भिणीस्त्री  
अंतर्वाणि शास्त्री शास्त्रपढ़नेवाला  
अंतर्वासिन् शिष्य चेला  
अंतर्बेशिक अंतःपुरकेचलनेवालेखोज  
अंतर्वासिपिन् नाऊ नार्द  
अंतिक समीप निकट  
अंतिकतम बहुतसमीप  
अतिका बड़ीबहिन चूल्ह  
अतैवासिन् शिष्य चेला चांडाल  
अत्य अत नाश मरना  
अंत अंत  
अटिका चूल्ह भोजनवनानेका

अंदुक } हांथीकेआंदुंगेहना  
अंदू }  
अंध अंधा विनप्रांखवा अंधकार तम  
अंधकरिपु महादेव जिन्होंने अंधका  
सुरकोमारा  
अंधकार } अंधकार अंधरा  
अंधतमस }  
अंधस अन्न भात  
अंध अंधाकुवां  
अन्न यवादि भात अन्न भोजन  
अन्य } भिन्न अलग और  
अन्यतर }  
अन्यतरेद्युस } औरे दिन  
अन्येद्युस }  
अनक् } अनुपट पिडाडी  
अन्वत्त }  
अन्वय } वंश कुल गोत्र  
अन्ववाय }  
अन्वहार्य महीनामें अमावसकोशब्द  
अन्विष्ट }  
अन्वीक्षण } इंदना खोजलगाना  
अन्वेपण } धर्मादिकाखोजकरना  
अन्वेपित इंदना खोजलगाया  
अप् } जल पानी  
आप }  
अपकारगी निंदा कलंकलगाना  
अपक्रम पलायना संग्रामसेभागना  
अपघन देहके अंग शिर आदि  
अपचय नाश होजाना हरणहोना  
अपचायिन } पूजाकिया पूजित  
अपचित }  
अपचिति पूजा नाश वृद्धि

अपदांतर मिलाहुवा एकमेंमिला  
 अपटु रोगी अगवीण  
 अपत्य लडका लडकी पुत्र पुत्री  
 अपत्रया औरसेलाजकरना  
 अपत्रपिष्णु लोकलाजकरनेवाला  
 प्रपथ }  
 अपथिन् } कुमार्ग कुराह  
 अपदान कर्मपूर्वचरित्र दानदेलैलेना  
 अपदांतर मिलाहुवा मिलना  
 अपदिश विदिशा दिशोंकेकोना [कारण  
 अपदेश स्वरूपद्विषाना वहानाकरना  
 अपध्वस्त धिक्कारकिया चूर्णकिया  
 अपध्रंश अशुद्धपद अशुद्ध  
 अपयान संग्रामसेभागना  
 अपर उत्तरभाग हांथीकेपीछेकाभाग  
 अपरस्पर नहीपरस्पर  
 अपराजिना विष्णुक्रांताफूल शनपर्णी  
 अपराद्धपृत्क जोनिशानेसेचककर  
 वाणकेंकैनिशानानमारसकै  
 अपराध वैर विननाहकको दुखदेना  
 अपरान्तर दिनकृतीसरापहर  
 अपरेद्युस और दिन  
 अपर्णा श्रीपार्वती  
 अपलाप द्विषानेकीवात  
 अपवर्ग मोक्ष ज्ञान  
 अपवर्जन दानदेना  
 अपवाद निंदा आज्ञादेना  
 अपवारण आच्छादनमेप्रादिकीछाया.  
 अपशब्द अशुद्धपद अशुद्ध.  
 अपष्टु उलटा विपरीत.  
 अपसद नीच शूद्रादि. [ जानजाय.

अपसर्प दूत भेदलानेवाला द्विपीयात  
 अपसव्य दहिनाअग देहकादहिनाभाग.  
 अपस्कर रथकीसबलरुड़ीआदि.  
 अपहार हरजाना हिरायजाना.  
 अपांपति पानीकेमालिकवरुणदेवता.  
 अपांग नेत्रोंकेकोर कटात्त अगहीन  
 तिलक.  
 अपाची पश्चिमदिशा. [ कीजगह.  
 अपान वायु गुदाकीवायु गुदा भाड़े  
 अपामार्ग लडजीरा. [ नमानै.  
 अपावृत्त स्पेच्छाचारी किसीकाकहा  
 अपासन मारण मारडालना. [ लपना.  
 अपि निदा दोकाममें प्रणय शंका क  
 आपिधान छायामेघादिकी छाही.  
 आपिनद्ध संग्रामकेलियेकंचुक्रादिधारण.  
 अपून पुवा चावलकेपिसानकेभोजन  
 बडाउर्दके.  
 अपोगड जिसकेअगप्रच्छेनहं नाकटे-  
 दीवचिपटी कनुचा टेडमुहा ल-  
 कनाकीवीमारीदिह इत्यादि  
 अपपति वरुण जलकेस्वामी.  
 अप्पित्त अग्नि.  
 अप्रकांड गुच्छा भुट्टा वृत्तांग.  
 अप्रगुण आरुल व्याकुल  
 अप्रत्यक्त इद्रियोंसेभिन्नकाम.  
 अप्रधान जोश्रेष्ठनहो सामान्य.  
 अप्रमहत् विनाजोताखेत वनकट.  
 अप्रामन्य श्रेष्ठनही सम.  
 अप्रसरस् देवताजाति स्वर्गलोककीवे  
 श्याउर्वशी आदि. [ बंध्यवृत्त.  
 अपफल जो वृत्तअपनेसमयमेंफलनदेय

अवद्ध जिसवातकाकुद्धअर्थनही.	अभिधान नामकानामहै सीता राम.
अवद्धमुख जिसकामुखवंदनहोरातिदि- नवकारै.	अभिध्या परायाधनस्त्रीआदिकीइच्छा करना. [ प्रकाशकरना.
अवंध्य फलनेवालावृक्ष.	अभिनय हांथ आंखयादिमनकीवात
अवला स्त्री जोबलहीनहोतीहै.	अभिनव नूतन नवीन नवानस्त्रादि.
अवाध जिसेकुछबाधानहोनिस्तंदेह.	अभिनवोद्भिद् नवीनअंगुशा नवाकिल्ला.
अवज्ञान समझाना.	अभिनिर्मुक्त जिसमनुष्यादिकोसोतेहुये सूर्यअस्तहो.
अवज्ज चंद्रमा कमल शंख.	अभिनिर्पाण गमनकरना यात्राकरना.
अवज्जयोनि ब्रह्मा जोकमलसेहुये.	अभिनीत न्यायसेपैदाकियाद्रव्यादि अपनेपरिश्रमयायोग्यतासेमिलाद्र- व्यादि. [ पत्तिमैफंसना.
अव्जिनीपति सूर्य.	अभिपन्न अपराधी शत्रुकेवशहोना वि-
अद्द वर्ष मेघ पहाड मोथा.	अभिप्राय आशय मनकीवात.
अच्छि समुद्रनदीदेशनदहाथीकामद्.	अभिभूत अहंकारनष्टहोना माननाश.
अच्छिरूफ समुद्रफेन. [ मानवान्य.	अभिमर् } संग्राम लड़ाई.
अनक्षय्य ब्राह्मणकोदंडमेकहैवधस-	अभिमर्द }
अभय वृणजाति सर.	अभिमान गर् अहंकारद्वयमुत्तपशु- गुणादिका ज्ञान नम्रता टिंगा.
अभया हरै.	अभिप्राति } शत्रु बैरी.
अभाषण नयोलना चुपरहना.	अभिपानि }
अभिक कामीमनुष्य.	अभियोग लड़ाईहोनुलाना आशंकेना
अभिक्रम धीरोंकीसंग्रामयाना.	अभिप्रेत स्वरूप सुंदरता.
अभिरया शोभा वांति नाम यश.	अभिलाष धान्यादिवाटना लौनी.
अभिरग्र लड़ाईकोउलाना.	अभिलाष वांछा मनोरथ.
अभिरग्रहण चोरीकरना डांढाडालना.	अभिलानुक अभिलाषकरनेवाला.[ना.
अभिघातिन् शत्रु बैरी.	अभिराटक नमस्कारप्रणामादिकरनेवा-
अभिचर अनुचर नौचर.	अभिवादन प्रणामादिकरना.
अभिचार हिसाकार्थ उल्टायादिक- रना जादूमूठचनाना. [ न्याय.	अभिध्यासि मखनेन्याशहोना.
अभिजन वंश कुल जन्मभूमि जन्मता	अभिशास्त्र नियमकीनोबनिडावरै.
अभिजात कुलीन परिउत सुकर्मा.	अभिगन्ति यांजना मांगना.
अभिज्ञ प्रवीण चतुर.	
अभितन् समीप निरुद्ध दुहंआन स्त्री- प्रता सद सन्तुग	

अभिशाप मिथ्यापाप भूटपापलगाना.

इसनेमदिरापियाचोरीकियाइत्यादि.

अभिसुंग गालीदेना कोशना.

अभिपंग निरादर तिरस्कार हारजाना.

अभिपव सोमाभिपवयहाद्र मदिराव-  
नाना.

अभिपस्ति यांचना मांगना.

अभिपुत कांजी सिरका. [ जाना.

अभिपेणन शत्रुकेसमीपसेनालेकर-

अभिप्युत स्तुतिकरना प्रणामादि.

अभिसंघात संग्राम लडाई.

अभिसारिका जोस्त्रीपतिकेपासजायबु-  
लावैपतिको. [ वचादि पहिरना.

अभिहार चोरीकरना डांकाडालना क-

अभिहित कहाहुआ कहीवात.

अभीक कामीमनुष्य.

अभीक्षण वारवार सर्वदा निरंतर.

अभीक्षित प्रिय प्यारा अतिशयवांचित.

अभीर गोपाल अहीर.

अभीरु } शतावरि छतावरि.  
अभीरुपत्री }

अभीपंग गालीदेना कोशना.

अभीण घोडोंकीवागडोर किरण.

अभीष्ट प्रिय प्यारा वांचित.

अभ्यग्र समीप निकट.

अभ्यंजन तेलवडवडन.

अभ्यंतर आकाशमेयकामध्य मध्य.

अभ्यमिन रोगी ज्वरादिसेव्याकुल.

अभ्यमित्रीण } जोवरकरतेशत्रुकेसा-  
अभ्यमित्रीय } मनेसामर्थसेलइनेको  
अभ्यामित्र्य } जाय.

अभ्यर्ण समीप पासः

अभ्यर्हित शुभ साधुकापूजन.

अभ्यवकर्षण घावसेवाणादिनिकारना

अभ्यवस्कंदन छलसेलइना.

अभ्यवहृत भोजनकिया.

अभ्याख्यान मिथ्याकहना.

अभ्यागम संग्राम [ लगारहै-

अभ्यागारिक जोअपनेकुटुंबपालनमे-

अभ्यादान आरंभ प्रारंभ.

अभ्यांत रोगी वीमार.

अभ्यामर्द संग्राम लडाई.

अभ्याश } समीप पास अभ्यास  
अभ्यास } करना.

अभ्यासादन, छलसेमारनाघापामारना-

अभ्युत्थान उठिकेसत्कारकरना आ-  
सनसेउठकरआदरकरना.

अभ्युदित जिसकोसोतेहुगे सूर्य उद-  
यहोअर्थतिभातःसंध्यादिकर्मनकर-  
उत्समहापापीकानाम.

अभ्युपगम } अंगीकार ग्रहण.  
अभ्युपपात्ति }

अभ्युप कमपका यवादि कचापकाज-

अभ्र मेघ वादर आकाश.

अभ्रक अवरत्न अभ्रक.

अभ्रपुष्प वेंत.

अभ्रमतेग इंद्रकाहांथीपेरावत.

अभ्रमु दिशागजकीपत्नी.

अभ्रमुवल्लभ ऐरावतइंद्रकाहांथी.

अभ्रि, काठकाकुदार नावसाफकरनेका.

अभ्रिय वादरआना मेघआना.

अभ्री काठकाकुदार.

अश्रेय न्याय नीति सुमार्गचलना  
 अमत्र पात्र लोटावटुईथालीआदि  
 अमर देवता जोरुभीनीहीमरत  
 अमरावती देवपुरा स्वर्गलोक जिस  
 काराजाइद्रहै  
 अमर्त्य देवता  
 अमर्ष क्रोध कोष  
 अमर्षण क्रोधी कोपकरनेवाला  
 अमला भूमिकाअमरा  
 अमा साथ समीप अमावास्या  
 अमास दुर्बल पतरा निर्बल  
 अमाल्य मन्त्री सलाह देनेवाला  
 अमानस्य लडकालडकीहोनेकाकष्ट  
 गर्भनिकलनेकादुख  
 अमामासी }  
 अमावसी } अमावसतिथि  
 अमावस्या }  
 अमावसी }  
 अमावास्या }  
 अमित्र शत्रु बरी  
 अमृत्र दूसरेजन्ममें  
 अमृत्पाल तृणजाति  
 अमृत अमृत मोक्ष पानी होमसे वाकी  
 अन्नकाभोजन विनामागेजोमिल  
 जाय घृत घी जल  
 अमृता हरिं गुर्चे अवरा [ न्नेह  
 अमृताधस देवता जिनकाअमृतहीअ  
 अमोघा पाइरि विडग  
 अवर आकाश बख  
 अवरीष चनाआदिभुजनेकाखपराभु  
 जवाकीखपरी [ शकरजाति

अमृष्ट वेण्यकीस्त्रीमेत्राएणसेहो वर्ण  
 अमृष्टा जूही पाठा अम्लोनिया  
 अमा माता महतारी  
 अत्रिका श्री पार्वती त्रिभुवनजननी  
 अत्रु जल पानी  
 अत्रुकण द्विनकी त्रिही शीकर  
 अत्रुज कमल स्थल वेंत  
 अत्रुभृत मेत्र वादर  
 अत्रुवेतस पानीकावेंत [ यह  
 अत्रुशरण सोता जहाआपनेआपपानी  
 अत्रुकृत बोलतेमेंलारवहना वातकरने  
 मेंशुकआना  
 अभस् जल पानी  
 अभारुह कमल जोपानीमेंहाताहै  
 अभमय पानीकाविकार फेनाआदि  
 अभ्रातक अमाडाबृत्त  
 अम्ल रस आणइत्यादि  
 अम्ललोणिका } अम्लोनिया  
 अम्लोनिका }  
 अम्लवेतस अमिलवेंत  
 अम्लान अमिलोना  
 अम्लिका अमिलीकाबृत्त  
 अय शुभविधि मगल  
 अयन तीनऋतुकाएकअयन उत्तरायन  
 दक्षिणायन रास्ता मार्ग  
 अयस् लोह  
 अय.प्रतिमा लोहकीमूर्ति  
 अयाचित विनामागेमिलजाय  
 अयि समभानेमें क्रोमलवान्य [ हताह  
 अयोग्य मृसर जिसमेंआगेलोहालगा  
 अयोग्य दियार हलकाआगेकाभाग

अर तुरत अनिशीघ्र	अर्कपर्ण मदार.
अरग्वय किरवारवृत्त.	अर्कपंजु जैनिभेठ शाकमुनि
अरघट्ट रहटदारकुवां पंपदारकुवां.	अर्काढ मदार
अरणि जिनकाठोंसेमथकरआगिनि	अर्गल केवारोंकेपीछेकालंगर.
कालीजाय.	अर्गला लगर जंजीरवांधनेकी
अरट्ट श्योनापाढा.	अर्घ मोल पूजाकार्य.
अरण्य वन जगल. [ प्रादिरट्ट.	अर्ण्य अर्चदेनेयोग्य
अरण्यानी भयकरजगलजहाँसिंहव्या	अर्चा पूजा प्रतिमा.
अरबि द्विगुनियाफैलाकरमडीवांधना.	अर्चित पूजाकिया पूजित.
अरर केवांडा केवारा.	अर्चिम, आगिकीलपटज्वालाप्रकाशतेज
अरलु श्योनापाढा.	अर्जक सपेदपर्णास कालवर्षी.
अरविद कमलकाफल.	अर्जुन सपेद अर्जुनवृत्त तृण कृष्णके
अराति शत्रु वैरी.	मित्यधिष्ठिरकेभार्द
अराल कुटिल डेढा. [करियानावका	अर्जुनी सपेदगौ.
अरित्र जोनावकाकाठपानीभैरहताहै	अर्णव समुद्र नद.
अरिमेद दुर्गधसैर.	अर्णस् पानी.
अरिष्ट सूतिकाघर जिसमेस्त्रीकेलडका	अर्तन निदा पीडा.
लडकीआदिहो रीठी नीववृत्त	अर्ति पीडा धनुषकीकोटि
लहशुन खरायमठा कौवा शुभके	अर्थ द्रव्य कारण प्रयोजन.
अशुभमें मदारदि.	अर्थना मांगना भिक्षा.
अरिष्टदृष्टी मरनेकेकारणसेजिमकी	अर्थप्रयोग द्रव्यदेकरव्याजलेना सूत.
बुद्धिबुष्टहोजाय.	अर्थशास्त्र बृहस्पत्यादिप्रणीत
अरुण सूर्य सूर्यकासारथी कालाला	अर्थिन्, सेवक नौरु याचक मांगनेवाले.
ल सायंकालआकाशकारग	अर्थ्य, शिलाजीतजोप्रयोजनसेअलगनहो
अरुणा अतीस.	अर्थना भिक्षा यांचा.
अरुंतुड सधिभेदनेवाला मर्मभेदी.	अर्थनि अग्नि आगि.
अरुष्कर भेलांवा.	अर्थित पीडाकोमास
अरस घाव	अर्थ आधा खंड टुकड़ा.
अरोक्त तेजहीन तेजनाश	अर्थचंद्रा कालानिशोथ
अर्क सूर्य स्फटिकमणि मदार तांवा	अर्थनाव आधीनाव डोंगी.

अर्धरात्र आधीरात.  
 अर्धर्च आधीशुचा  
 अर्धहार वारालरकाहार  
 अर्धोरु लहगा विवाहमेंस्त्रीकेकपडा.  
 अर्धुद दशकिरोडरूपया मासकीक्रील  
 कडोर  
 अर्भक बालक लडका  
 अर्भ आंखका रोग  
 अर्भ वैश्य अनियां प्रभु मालिक  
 अर्भमन सूर्य पितरोंकागण  
 अर्था } अनियाकीलडकी वै  
 अर्थाणी } अयकुलमेंपदाहुई  
 अर्था अनियाकीस्त्री  
 अर्धन् घोडा अरम नीच  
 अर्था नदीकापारतीरदसपार  
 अर्शम् वशाशीर  
 अर्शस वशाशीररोगवाला  
 अर्शा न मूरन जिपीवन्द  
 अर्शरोगयुत वशाशीरी  
 अर्हण पूजा पूजन  
 अर्हित पूजित पूजाक्रिया  
 अल हरिताल हरताल  
 अलक मुहुट छेदेवाल  
 अलका कुबेरकीपुरी  
 अलक्त लाग महाडरकीगोली  
 अलक्ष्मी नरककीशांभा दग्दि  
 अलगर्द } जलतापे पनिहामाप  
 अलगर्द }  
 अलकारिष्णु } मईनाचपदापडिगनेवा  
 अलकर्त } ना अलकारो आमप  
 } रावकरदिगनेवाना

अलकर्मीण सत्रकामकासमर्थ  
 अलकार आभूषण गहना  
 अलकृत आभूषणकियागहनापहिराया  
 अलक्रिया आभूषणपहिरानेकायत्र.  
 अलजर कराही माठ डेरा  
 अल आभूषणसमाप्ति सामर्थ्यता वा  
 रणररना  
 अलर्क, सपेदमदार बैलानकुचा [दिनेवो  
 अलवाल धहला वृत्तकेआसपासजल  
 अलस अलस्य अरसई  
 अलात जलताकाठ लुडुवाई  
 अलानू } तुरी तौरी  
 अलाटू }  
 अलि चिन्तू बीछ भवरा सग्यापाणि  
 अलर माय मस्तक मथ्या  
 अलिजर कराही माठ डेरा  
 अलिद दरानेकेवाहर मिडिया  
 अलीक माय भूट दूमेकीपरायान  
 अलिन भररा  
 अलु भारी गलनीचाअलमानेरीदेद  
 क्रियापदामहादेवकेलिये  
 अन्न छोटा थोडा  
 अन्नपतनु छोटीदेवामनुष्य वजना  
 अन्नपान्नि चांगईकाशाग  
 अन्नपमम द्रोणताल उर्नया  
 अन्निसृष्ट } बहुतछोटा बहुतथोडा  
 अन्नीयम् ।  
 अवकर बदनीरायरागमर्त कडा.  
 अवकीर्णन निमवाप्रनछांजाय  
 अवकट निवानदियायग्नादिमे  
 अवकिगत वंरवृत्त निरमेरननरी



अवक्रय मोल दाम.  
 अवगणित अपमानकिवा. [जानजाते.  
 अवगत जाननाजानलिया जानगथे  
 अवगीत निंदित निंदाकिया मनुष्यों  
 की बातें. [ कजाना.  
 अवग्रह हांथीकामाथा वर्षानहोना रु-  
 अवग्राह हांथीकामाथा.  
 अवचूर्णित चूर्णकिया पीसाहुवा.  
 अवज्ञा अपमान अनादर.  
 अवज्ञात अपमानकरना.  
 अवट } गडहा गड्ढा गहिरा.  
 अवट्टि }  
 अवटीट चिपटीनाककामनुष्य.  
 अवट्टु यांटी गलेकीउंचाई घेंट.  
 अवतंस कानकागहेना कर्नफूलादि  
 शिरकागहेना मुकुटआदि.  
 अवतमस थोडाअंधकार कुछअंधेरा.  
 अवतोका जिसगौकाअकस्माद्गर्भगिर  
 परै गर्भगिरनेवाली. [ काभक्षण.  
 अवदंश मदिरापिनेकोभूजेचनाआदि  
 अवदात सपेद गोरा पीला शुद्ध  
 अवदान कमपूर्व चरित्र शुभकर्म  
 अवदाह वृणजाति  
 अवदारुण खाता कुदारा फरुहा  
 अवदीर्ण पतलाहोना पतलाहोगया  
 अवध अधम नीच पापी  
 अवधारण एक जैसेदूधकाअवधा-  
 रणा रणएकवाचाजीकरतेहैं. [समय.  
 अवधि सीमामर्यादा विल गडहा काल  
 अवध्य मारनेकोअयोग्य विनामतल-  
 वकीवात.

अवध्वस्त चूरण चूरणकिया.  
 अवधन तृप्तहोनाभोजनादिसे.  
 अवधनत नीचेकामुत्त.  
 अवघनाट चिपटीनाकवाला.  
 अवघनाय नीचलंजाना.  
 अवघनि } पृथ्वी धरती.  
 अवघनी }  
 अवतिसोम कांजी सिरका.  
 अवध्य जोबृक्षफलदेइ  
 अवभृथ यज्ञसमाप्तिकेस्नान  
 अवघ्रट चिपटीनाकवाला  
 अवघ नीच अधम  
 अवघत अपमानकिया  
 अवघर्द उत्तमदेशकोदूसरेराजासेपीडा  
 अवमानना अपमान अनादर  
 अवमानित अपमानहोजाना  
 अवयव अंग देह  
 अवर हाथीकीपिछलीजांघे पिछलाधड़  
 हाथीका उसपार पिछाड़ी  
 अवरज छोटाभाई  
 अवराति विश्रांति शांत  
 अवरवर्ण शूद्र शूद्र  
 अवरीण धिकारकिया निंदित  
 अवरोध } राजाचौकीस्त्रियोंकाघररानि  
 अवरोधन } नकेमहल  
 अवरोह बृक्षकीजड़सेजोलताऊपर-  
 जायगुर्चेआदि वरोह  
 अवर्ण निंदा गाली आदि  
 अवलक्ष सपेद गोरा  
 अवलग्न देहकामध्य कमर मांस  
 अवलोप गर्व अहंकार

अवलंबित आसराक्रिया माश्रित  
 अवलुग्न वचुकी  
 अववाद आज्ञादेना  
 अववाद निदा गालीआदि  
 अवश्यम निश्चय जरूर  
 अवश्याय पाला जाडा  
 अवष्टम्ब समीप आश्रित  
 अवष्टम्ब गर्व अहंकार  
 अवसर प्रसंग समय  
 अवसान अन्त नाश मरण  
 अवसित घर समाप्त प्राप्तहोना  
 अवस्कर गू विष्टा भाडा गुदा  
 अवस्था वालादि बाल कुमार युवा  
 सुद्धा मृता  
 अवहार पानीकीगोह मगरा  
 अवहित्या आकारद्विपाना शोकादि  
 मुखद्विपाना  
 अवहेलन अनादर अपमान  
 अवाक् नीच गुगा  
 अवारुपुष्पी सौंफ  
 अवाग्भव } दक्षिण का हुना  
 अवाचीन }  
 अवाग्र नीचेकामुख  
 अवाची दक्षिणदिशा  
 अवान्य विनाकहनेकेयोग्यरात  
 अवार नदीकातीर  
 अवासम् नगा दिगवर  
 अवि रजस्वलास्त्री पर्यंत मेढा सूर्यस्था  
 भी मृसा कवल  
 अविम करवद करौंटा  
 अथ आसकापानी आसू

अथप राक्षस निश्वर  
 अश्रात नित्य  
 अश्रि } कोटि खड्गकाअधतभाग कब्ज  
 अश्री }  
 अशु आसू नेत्रकाजल  
 अश्लील शिथिलराणी पुरीबात  
 अश्व घोडा  
 अश्वकर्णक शाखोकावृत्त  
 अश्वत्थ पीपर  
 अश्वयुग् अश्विनीनक्षत्र  
 अश्वपइव प्राडा घाड़ी  
 अश्वघा घाड़ी  
 अश्वभरण घोड़ोंके गहना  
 अश्वाराह घुडसवार असवार  
 अश्विन् घोड़ी  
 अश्विनी नक्षत्र [ केय  
 अश्वनीसुत अश्विनीरुमारस्वर्गलोक  
 अश्वीय घोड़ोंकासमूह  
 अश्वदक्षिण जिसवातकोतीमराजाने  
 अश्वमूर्ति महादेव [ दाग्सारी  
 अश्वपद सारी सुवर्ण सोना कोटा  
 अश्विबत ढोंपर मोरवा पैरगाएकभाग  
 असकन् चारम्भार  
 असती व्यभिचारिणी द्विनार  
 असतीमुन द्विनाम्कालद्रवा  
 असन वृत्त  
 असनपर्णा अथराजिता औपधि  
 असमीक्ष्यकाग्नि विनागुणदापवित्राने  
 जोकाईकापर्व  
 असाग निर्वल जिमप्रेयन्तनहो  
 अमि तलवार पदरा

( आ )

आ स्मरण सुधिकरना ब्रह्मा वाणी.

आः कोप पीडा पाप निदा.

आं अंगीकार.

आकंपित कुञ्जकंपना. [ निकलती है.

आकर खानि जहांसेसोनाचांदीआदि

आकर्ष पांशा जुवां. [ सिंगार.

आकल्प धेपवनाना देहमेवस्वादिसे

आकार, अभिप्राय मनकीवात. [ शहोना.

आकारगुप्ति शोकादिसेमुखकीशोभाना-

आकारणा, वहुतशब्दसेजुलानागोहराना

आकाश जहांतारागणदिखाईदेते हैं

आकीर्ण जहांवहुतमनुष्यादिएकट्टाहों

आकुल व्याकुल बेहोश

आकृति अभिप्राय स्वभाव

आक्रंद बडाभयंकरसंग्रामरक्षाकेलिये

दुःखसेशब्दकरै. [ चाराग.

आक्रीड राजाओंकेस्थानकेनिकटगामी

आक्रोश बुलाना रोना गालीदेना.

आक्रोशन गालीदेना कोशना

आशपाद नैयायिक [स्त्रीपापकोबुलावे

आचारण व्यभिचारीमनुष्यकोपराई

आचारित, जिसकीलोकमेंनिदाहोयजिस

कोपराईस्त्रीकेसंगकोभूटाकलंकलगी

आक्षीप मोच शेगल

आक्षेप, निंदा चमार आझादेना चुगुली.

आक्षोट } पर्वतपीलु डोंगरिआक्रोड

आक्षोड }

आखंडल इंद्र जोनिभुवनकास्वामीअ

परावतीमेंराज्यकरताहै

आखु मूसा

आखुभुज् विलार

आखेट शिकार जीवमारना

आखोड पर्वतपीलु.

आख्या कथा वात.

आख्यात नाम.

[ हानी

आख्यायिका पिढलीवातैकहनाकि-

आगंतु अतिथिजोअपनेघरमेंकोईआवै.

आगम वृत्त शास्त्र.

आगम् अपराध पाप.

आगार घर गेह.

आग् अंगीकार.

[ रानेवाले.

आग्नीध ऋत्विज याजकहोमकेहीमक-

आग्रहायणिक मामशीर्ष अग्रहन

आग्रहायणी मृगशिरानक्षत्रपांचवां

आइ० किंचित् सीमा द्वितीयक्रियामें

आंगिक जोदेहसेवामहो

आंगिरस बृहस्पति इंद्रकेगुरु

आचमन जलसेजोसंख्यादिकर्ममेंहोताहै.

आचाम माइ जोचाउरपकानमेंनिका-

लतेंहैं.

आचार्य पुरहित गुरु.

आचार्या

आचार्यानी

} गुराइनि पुरहितनी.

आचित दशभाग भारद्वाजकार्टवाम-

रकाहोताहै गाडीभर.

आच्छादन धिरजाना छाया [कटना.

आच्छुरितक दमरेवेकोपकेलियेहंती

आच्छादन शिकार हत्या.

आजय धोकरीशोररीकाभुंड.

आजानेयः उत्तमजातिक्रायोडा.  
 आजि संग्राम वरावरपृथ्वी.  
 आजिव जीविका नौकरी.  
 आजू जोरानरी नरकमंडालना.  
 आज्ञा आज्ञादेना.  
 आज्य घी.  
 आटि } आडि एकपत्नी.  
 आटी }  
 आडंबर तुराकी आवाज हाथीकी गर्जनाचिग्वार संग्रामकाशब्द.  
 आडि } पत्नी.  
 आडी }  
 आडकः अडैयातौलका.  
 आडकिक अडैयाभरवोनेकाखेत.  
 आडकी तुवरिका तुर औपधि.  
 आडय धनी धनवान्.  
 आणकः अधम पापी नीच.  
 आणवीन धान्यादिबोनेकाखेत.  
 आतंक रोग संताप भय शंका.  
 आतंचन दूधमोटाडारना जावन.  
 आततायिन् चीन्ह मारडालनेलापक.  
 आतप घाम सूर्यकाप्रकाश.  
 आतपत्र दाता बतुरी.  
 आतर नावादिकीउतराई.  
 आतापिन् चीन्ह.  
 आतियेय } निमंत्रणकरना नेंउता.  
 आतिथ्य }  
 आतुर रोगी बीमार.  
 आतोष एकवाजा.  
 आत्तगंध } जिसकाअभिमानदृष्टजाय.  
 आत्तगर्ब }

आत्मगुप्ता केवांच कुहिरी.  
 आत्मघोष काग कौवा.  
 आत्मज पुत्र लडका.  
 आत्मन् देहकेभीतरकाभीवात्मा प्रयत्नवीर्य बुद्धि स्वभाव ब्रह्म देह.  
 आत्मभू ब्रह्मा कामदेव.  
 आत्मभरि पेटभरू अपनापेटभरलेइ.  
 आत्रेयी रजस्वलास्त्री.  
 आथर्वख वेद.  
 आदर्श ऐना सीसा.  
 आदि पहिले पूर्व. [ णवनाई.  
 आदिकवि वाग्मीक जिन्होंनेरामाय-  
 आदिकारण पहिलेकीज्ञात.  
 आदितेय देवता जोअदितिकेपुत्रहुये.  
 आदित्य देवता देवताबोकाभुंड सूर्य  
 आदीनम केश कष्ट दुःख  
 आइत पूजा आदर.  
 आद्य प्रथम पहिला.  
 आद्यमापक पांचरत्नीकापासा.  
 आशून जिसवहुतजुधाव्याकुलकरे.  
 आद्योत प्रकाश दर्शन देखपइना.  
 आचार खात खाई.  
 आधि मनकीव्यथा आपत्ति.  
 आश्रूत कांपना थोडा.  
 आशोरण, महाउत हाथीकाडांकेनेवाला.  
 आध्यान चिन्ता स्मरण शुधिकरना.  
 आनक पंढर भेरी नगाडा.  
 आनकदुडुंभि वंसुदेव कृष्णकेपिता.  
 आनत नीचेकामुल.  
 आनद सुरचंग शंख घंटा वंशी मृदंग

आनन मुख.	आप्त विश्वासिक जोलोकमेप्रसिद्धहो
आनन्द } कल्याण शुभ मंगल.	आप्य जलकाधिकारकूट
आनन्दधु }	आप्यायन चिन्ह व्यंजन. [नेवालेकी.
आनन्दन अपनेस्थानपरआवनेवालेकी सेवाकरना.	आप्रदन्न खातिरकरनाअपनेघरआ
आनर्त नाचनेकास्थान द्वारिकापुरी.	आप्रपद } जोबस्रपैरतककाहो.
आनाय जाल मछरीफासनेका.	आप्रपदीन }
आनाय्य गार्हपत्यसेलेकरदक्षिणाग्नि मेमाप्तहो.	आप्लव स्नान नहाना. [करस्नानकरे.
आनाह मलमूत्रबंदहोनेवालारोग ।	आप्लवन्नतिन् जोब्रह्मचारीन्नतसमाप्त
आनाह लंनार्ह	आप्लव स्नान नहाना
आनुपूर्व	आंध जुवांमेमांधनेकीरस्ती
आनुपूर्वी } परिपाटी सीधाक्रम	आयुक्त भगिनीपति वहनोई
आनुपूर्व्य }	आभरण गहनाजेवर
आंत्र आंत पेटकेभीतर.	आभाषण परस्परवातकरना
आंधसिक रसोईदार अन्नपकानेवाला.	आभीर गोप अहीर
आन्वीक्षिकी विद्याराजावोंकी.	आभीरपल्ली } गोपोंकेग्राम अहीरकापर.
आपक पौली, पकान्न, यकभूंजेघीकेपके.	आभीरपल्लि }
आपगा नदी	आभीरी गोपी अहीरिन ग्वालिनी.
आपण बाजार.	आभील । वष्ट दुःख
आपणिक ] [वनिषा खरीदनेवेंचने	आभोग सवतनासेपरिपूर्ण
[ बाला	आमगंधिन् चिनापकेमांसकीदुर्गंध
आपत्माप्त जोआफतमेहो	आमनस्य पीडा ममृतकावष्ट
आपद् आपत्ति, आफत	आमंत्रण अतिथिकीसधप्रकारसेवा
आपन्न आपत्तिमेमाप्त	आमय रोग
आपन्नसत्त्वा गर्भणी	आमययन्दिन् रोगी
आपमित्यक सवतरफसेमाप्त	आमलक } अंबरा.
आपान मदिरापीनेकीसभा	आमलकी }
आपीह जोशिखामेमात्तापहिरे	आमिता पकेगरमद्यमेंदहीदालना
आपीन गौकंधन पेन. [त्यादि.	आमिष मांस उच्चमभोगकेपदार्थ
आपूपिक भक्षणकरनेवाला पुवाड-	आमिपाशिन् मछरीपांसभोजनकरने
	बाला
	आमुक्त कवचगरी

आमोद, आनंद अतिसुगंधकस्तूरीआदि  
 आमोदिन् जोअपनेमुखकोतांबूलादिसे  
 सुगंधयुतकरै  
 आम्राय, वेद संपदाय बापदादेकीरीत  
 आम्र आंब.  
 आम्रातक अंबाडा  
 आम्रेडित जोबातद्वितीनवारकहै  
 आम्लिका } अंबिली.  
 आम्लीक }  
 आयत लंबा.  
 आयतन यज्ञशाला  
 आयति आगेकाकाल प्रभाव लंबाई  
 आयत्त आधीन दास  
 आयाम लंबाई दीर्घता  
 आयुष हयियार  
 आयुधिक } अस्त्रादिकोंसेजीविकाकरने  
 आयुधीय } वाला सिपाही  
 आयुष्मत् आयुर्दाययुत बहुतदिनजियै  
 आयुस जीनिकासमय उमर.  
 आयोधन् संग्राम लडाई.  
 आरकूट पीतर.  
 आरग्वध किरवार.  
 आरनालक कौजी सिरका.  
 आरति विश्रान्ति शान्ति शान्त.  
 आरंभ आरंभमात्रे आरंभ.  
 आरव शब्द आवाज.  
 आरा आराआरीचमडाकाठकाटनेका.  
 आरात् दूर समीप.  
 आराधन, साधन सिद्धि लाभ. [बागहो.  
 आराम घरकेसमीपशोभाकेलियेजो  
 आरालिक रोटिकरा.

आराव शब्द आवाज.  
 आरेवत किरवार.  
 आरोग्य रोगनाश. [चढ़ना.  
 आरोह लंबाई स्त्रीकीकर हांथीका  
 आरोहण सोपानमिहेलकीसिद्धी.  
 आर्तगल भिंटी.  
 आर्तव स्त्रीकामासधर्म.  
 आर्ति पीडा.  
 आर्द्र बोदा भीजा  
 आर्द्रक अदरक.  
 आर्य सज्जन श्रेष्ठ अपनेधर्ममेंस्थिर.  
 आर्या श्रीदुर्गाजी  
 आर्योवर्त देश जोबिभ्याचलहिमाच  
 लके मध्यमे.  
 आर्षभ्य अंडवैल.  
 आल हरिताल.  
 आलंभ मारडोलना बध.  
 आलय घर. [पानीदेनेका.  
 आलवाल थान्हा बुलकेचारातरफे  
 आलस सुस्ती.  
 आलस्य सुस्ती.  
 आलान बांधनेकुसंभाहारीआदिका.  
 आलाप बातकरना.  
 आलावु } तुंबी तौबी.  
 आलावू }  
 आलि सखी साथिनि पांति सेतु पुल  
 बीबी. [सारंगीइत्यादि.  
 आलिंग्य देहमेलागाकरबजायाजाय  
 आलिद दरवाजेकेबाहरचोक.  
 आली सखी पांति.  
 आलठि दहिनीजांघपसारवांइकोरोंक

खड़ाहोना धनुर्धारीका ।

आळु } भारी भूमीधोईआदिधोनेकी ।  
 आळु } भारी भूमीधोईआदिधोनेकी ।  
 आलोक - देखना, बंदीजनोंकाभाषण ।  
 आलोकन - देखना-दर्शनकरना ।  
 आवपन पात्र भांडा, वस्तुन ।  
 आवलि पांति ।  
 आवसित तृणकीराशि, खरही ।  
 आवाप यहला ।  
 आवापक हाथकागहेना, पहुंची ।  
 आवाल यहला ।  
 आविप्र करवंद करीदा ।  
 आविद कुटिल टेड़ा, प्रेरणा, भेजना ।  
 आविध जिसराखसेछेदेहो वर्मा ।  
 आविल कीच कँदवा चहला ।  
 आविष्ट आसक्त लगजाना ।  
 आविस प्रकाश-स्पष्ट ।  
 आवुक पिता जन्मदेनेवाला ।  
 आवृत्त यहिनीकापति वहनोई ।  
 आवृत् परिपाटी पुरानीचाल ।  
 आवृत धिरना लपेटना ।  
 आवेगी चरधारा विधारा ।  
 आवेशन कारीगरोंकास्थान ।  
 आवेशिक अतिथि जोअपनेयहाँआवे ।  
 आशंसित } जांडाकरनेवाला । [मनोरथ ।  
 आशंसु } जांडाकरनेवाला । [मनोरथ ।  
 आशय आश्रय आशरा अभिमाय ।  
 आशरा राक्षस ।  
 आशा दिशा, बहुतदिनकीइच्छा ।  
 आशितंगवीन जहांगीचरचुकै ।  
 आशिर राक्षस ।

आशिस सांपकादाइ ।  
 आशीविप आशीविप ।  
 आशीविप सप ।  
 आशीस् शुभकहेना कल्याणकीइच्छा ।  
 आशु शीघ्र धानी यव ।  
 आशुग वायु वाण । [ लालहो ।  
 आशुव्रीहि मधीनी जिसकाचाउरसफेद ।  
 आशुशुक्ति अग्नि ।  
 आश्रय विस्मय तत्रज्जुव ।  
 आश्रम ब्रह्मचारी ? गृहस्थ ? वाणम-  
 स्थ ? संन्यास । [ आशय ।  
 आश्रय छोटेसेचरचुकैकीशरण आशरा ।  
 आश्रयार्थ अग्नि ।  
 आश्रव केश दुःख ।  
 आश्रुत अंगीकार प्रतिज्ञा ।  
 आश्र पांडाकाकुंड ।  
 आश्रय पीपरकाफल, पिपरियां ।  
 आश्रयज कुवारकामहीना ।  
 आश्विन कुवारकामहीना ।  
 आश्विनेय अश्विनीकुमार देवतावोंके  
 वैद्य । [ प्रजाप-  
 आश्विन जिसस्थानकोएकदिनमेंधोई-  
 आपाद दंडब्रह्मचारीका महीना ।  
 आसक्त तत्पर लगजाना ।  
 आसन बैठका, पीड़ा, बलीसेमित्रता ।  
 आसननोरमेवर हांभीकाकंधा ।  
 आसनपर्णी शनपर्णी गोकर्णी ।  
 आसना बैठना, आसनी ।  
 आसंदी आसने बैठकीचटाईआदि ।  
 आसन्न समीप निकट ।

आसव गाढीमदिरा, ---  
 आसादित, प्राप्त । [ धा० सेनाकापेरना  
 आसार मेघोकीभरब्रदेजोरसेमुसरा  
 आसुरी। राईकाली।  
 आसेचनरु जिसकेदेखनेमेमन न भरै  
 आस्कंदन सग्राम [ नदेरेनसुने  
 आस्कदित जिसचालकीदौरमेंघोडा  
 आस्तरण हाथीकेपीठकागद्दा बिन्दौना  
 आस्था सभा प्रयत्न ।  
 आस्थान } सभा बैठक  
 आस्थानी }  
 आस्पद प्रतिष्ठाकास्थान  
 आस्फोट मटारबृत्त [ सूभी छेनी  
 आस्फोटनी जिससेद्वैटहोमोतीयादिमें  
 आस्फोटा वनचमेली रानमोगरी  
 आस्फोत मटार  
 आस्फोता बिप्लुआताफूलबलि वनच  
 मेली रानमोगरी  
 आस्य मुख  
 आस्या आसन बिन्दौना  
 आस्रव छेश दुःख  
 आहत अर्थभूठऐसीबाणी गुणाकरना  
 जैसेचारदूनेयाठ [ द्वहो  
 आहतलक्षण जिसकीशूरतथादिप्रसि  
 आहव सग्राम  
 आहवनीय अग्नि यज्ञकर्मकी  
 आहार भोजन [ सेवनांगईडा  
 आहाव पौसरा कुवाकेसमीपपत्थरादि  
 आहिनलक्षण प्रसिद्ध जैसेविद्वान् ध-  
 नवान् बलवान्  
 आहेय सापकाफन विषकास्थान

आहो विकल्प मनुष्यवादेवता गदहा  
 व घोडा  
 आहोपुरुषिका अहंकारसेअपनाकोमा  
 नना ह्यधनीपरिणितचतुरज्ञानी  
 इत्यादि  
 आर्हक, वादिक बहुतसंस्कृतशोलनेवाला  
 आह्वय नाम जैसे आपकाकथानामहे  
 ग्राह्य नाम  
 आह्वान }  
 आहूत } बुलाना गोहराना  
 ( ३ )  
 इ काम महादेव चन्द्रमाकीकिरण  
 इक्षु ऊख गन्ना पोडा [ कंद काश  
 इक्षुगधा गुरुबुद्ध तालमखाना विलारी  
 इक्षुर तालमखाना  
 इक्ष्वाकु कहुईतोवी एकराजाकानाम  
 इग जगम चर चलनेवालेमनुष्यादि म  
 नकेयोग्यकर्म दूसरेकेआशयकोजा  
 नकामकरना  
 इगित अकार दूसरेकेमनकीवात  
 इगुदी इगुआवृत्त  
 इच्छा मनकीबाधा, मनोरथ  
 इच्छावती जिसस्त्रीकीइच्छाभोगकीहो  
 इज्जल स्थलवैत समुद्रफल -  
 इज्याशील वारवारयज्ञकरनेवाला।  
 इदचर स्वेच्छाचारीबैल अह्निससे  
 कामनलियाजाय  
 इतर नीचजाति भिन्न अलग  
 इतरेधुम् दूसरेदिन  
 इति कारण प्रकरण प्रकाश समाप्ति



इतिह लोमपरपदाकेउपदेशमे अब्यय  
 इतिहास, पुराण पुरानीपार्त्ता महाभारथ  
 इत्वर शीघ्रता [ णकरै  
 इत्वीरी स्वैरिणी जोइसरेपुरुषोत्तेरम  
 इदानीम् इससमय  
 इभ इधन शूखातृणकाठ  
 इन सूर्य  
 इदिरा लक्ष्मी विष्णुपत्नी  
 इदीवर कमल  
 इदीवरी गतावरि  
 इडु चद्रमा [दिशाकामालिक दिग्पाल  
 इद्र अमरावतीकामहाराजाधिराजपूर्व  
 इंद्रदु अर्जुनवृक्ष [दारहोतीहै  
 इद्रयव इंद्रजव जिसकीमालीलच्छा  
 इंद्रलुप्तक गजा खल्वाट  
 इद्रवारुणी इद्रोरनिलता  
 इद्रसुरस } निर्गुंडी ।  
 इद्रसुरिस }  
 इद्राणिका }  
 इद्राणी इद्रकीरानी  
 इद्रामुष इद्रधनुष जोसूर्यकीकिरणोंसे  
 मेघमेंदिखाईदेताहै [ धैरी  
 इद्रारि दैत्यहिरण्यकशिपुआदिइन्द्रके  
 इद्रावरज विष्णु वामनजीमोठेवमाताके  
 प्रगन्हुये  
 इद्रिय आस, नाक, कान, जिहा, त्वचा,  
 ज्ञानेन्द्रिय पाणि, पाद, गुदा, लिंग,  
 त्वचा, कर्मेन्द्रिय धीर्य जिमसेसब  
 की उत्पत्ति  
 इद्रियार्थ देखना, सुनना, सुगपलेना,  
 स्वादजानना, गर्मशीतवाज्ञान, च

जना, कामकरना, मलमूत्रनिकारना  
 भोग, सुखस्पर्शादि  
 इंधन शूखातृणकाठ  
 इन्वक मृगशिरानक्षत्रकेपंचतारा  
 इभ हाथी  
 इभ्य धनी  
 इरण ऊसर जहाजसतकनहो  
 इरंमद मेघज्योति वज्रकीअग्नि  
 इरा मदिरा पृथ्वी घाणी जल  
 इर्वारु कर्कटी काकडी  
 इला बुधकीस्त्रीजिससेराजापुष्करवाचंद्र  
 वशकाकारणहुवा पृथ्वी धरती  
 इली छोटीतरवार सांडा गुप्ती  
 इल्वला मृगशिराकेपंचतारा  
 इय समता जैसेचद्रमुखीस्त्री  
 इय कुंवार  
 इपिका } हांथीकीआंगुलीगोलार्द  
 इपीका } सलाईदेवनेकी  
 इपु बाण तीर  
 इपुधि धनुष बमान  
 इष्ट यद्य दान जोइच्छा  
 इष्टवापय स्वम वृणकीजर गांढरमूल  
 इष्टगंध सुगंधि  
 इष्टार्थोपुक्त यांडाकेउपायमेंनगना  
 इष्टि यद्य प्रांडा  
 इप्वास धनुष बमान  
 ( ई )  
 ई लक्ष्मी बाण सपे इद्रधनुष रचना  
 ईक्षण नेत्र आंगु देवना  
 ईक्षणिका शुभांगुभजाननेपत्नीस्त्री

ईडित स्तुतिकरना नमस्कार  
 ईति लोकाचार ब्रह्मेना लोहकीटः  
 ईरख १ ऊसर  
 ईरित भेरनाभेजना  
 ईर्म यात्र फुरियाआदिका  
 ईर्वाह } कर्कटी काकड़ी  
 ईर्वाल }  
 ईर्प्या परायात्रिभवदेखजले  
 ईलि एकधारा खांडा  
 ईलित नमस्कार  
 ईली खांडा छोटीतरवार  
 ईश महादेवजी ईशान्यदिशाकेपालक  
 ईशा हलकादडा  
 ईशान श्रीमहादेव  
 ईशित् स्वामी  
 ईश्वर श्रीमहादेव स्वामी  
 ईश्वरी श्रीपार्वती  
 ईपत् थोड़ा  
 ईपत्पाडु कुब्जपीलासपेद्रम  
 ईपा हलकादडा  
 ईपिका हाथीकेआखकीगोलाई सलाई  
 वेदकरनेकी

ईपीका हाथीकाआखगोलक  
 ईहा बाबा मनोरथ  
 ईहामृग वृक भेड़हा भेंडिया

( ३ )

उ कोपकीराणी शकर क्षत्री विष्णु  
 गौरी मुन्दरनेत्र  
 उक्त कहाहुवा  
 उक्ति धचनःबोलना

उग्र एकसामकानामवेदमहै  
 उन्न वेल  
 उखा स्थाली थाली  
 उरय, पकरहाअन्न परोसाअन्न [पेदाहो.  
 उग्र, श्रीमहादेव उग्ररत्त शद्राणीपेक्षत्रीसे  
 उग्रगथा अजमोठ अजनादनि  
 उच्च ऊचा  
 उच्य नागरमोथा मुस्ताधिणेष  
 उच्चड शीघ्रता  
 उच्चार निष्ठा भांडा  
 उच्चावच बहुतरह  
 उच्चैःश्रवस घोड़ाइत्रका  
 उच्चैर्गुष्ट बहुतजोरशब्द  
 उच्चैस् वडा भारी  
 उच्छ्रय वृत्तादकोंकीउचाई पहाड़ों  
 उच्छ्राय कीउचाई  
 उच्छ्रित ऊचा बढ़नेवाला  
 उज्जासन मारडालना  
 उज्वल शृंगार गोभाकरना स्वेत  
 उद्ध शीलाविनना येप्राधरणोंकी  
 उद्धशील सत्यजीविकाहै  
 उटज पर्याशाला ऋषियोंके पर  
 उट्टु नक्षत्र नखत  
 उट्टुप छोटीनाव डोंगी चद्रमा  
 उट्टुवर } शूलर  
 उट्टुवर }  
 उट्टुनि उड़नापक्षियोंका [कल्पमा  
 उत तानाताननाक्रोरियोंका प्रप्लकेवि  
 उताहो विकल्प जैसेदेवतागधर्न  
 उत्क उत्कठा मनलगरहा  
 उत्कट दालचीनी तज मतवाला  
 उत्कठा मनमेलगारहना

उत्कर	राशिधान्यकी ढेरयवादिकोंका	उत्स	जहाँसेजलवहै
उत्कलिका	पानीकाकल्लोल लहरीउठना	उत्सर्जन	दान. [ ग्रामको जल्दीमे.
उत्कर्ष	बढाई अधिकता	उत्सव	खुशीनाचरागरंगादि कोपसे सं-
उत्कलिका	मनमेलगजाना	उत्सादन	उबटनलगाना
उत्कार	धान्यकाउत्क्षेपण बसावना	उत्साह	उद्धाह शक्तिभेद
उत्क्रोश	कुररीपत्नी	उत्साहन	किसीकामकीउद्धाह
उत्त	बोदा भीजा	उत्साहवर्धन	वीररस
उत्तंस	कानबशिरकागठेना	उत्सुक	उद्योग उपाय उत्कंठा
उत्तम	शूक्ष्मांस	उत्सेध	उंचाईदृत्तपर्वतादिकोंकी, देह
उत्तम	प्रधान श्रेष्ठ		की उंचाई
उत्तमर्ण	रिणदेनेवाला ब्यौहर	उत्सृष्ट	त्यागकरना छोड़ना
उत्तमा	जिसस्त्रीमेंगुणशीलादिहों	उदक्	उत्तरदिशा
उत्तमांग	शिर	उदक	जल पानी
उत्तर	जबाव दिशा राजाविराटकापुत्र	उदकभव	उत्तरदिशाकाहुवा
उत्तरा	दिशा	उदक्या	रजस्वलास्त्री
उत्तरासंग	} रूपट्टा स्त्रियोंकालुगरायादि	उदग्र	ऊंचा
उत्तरीय		उदग्र	पशुनकोलेचलना व गुलाना
उत्तरेद्युत	उसदिन	उदधि	समुद्र सागर
उत्तान	उथल जलकम	उदत	घातकहना
उत्तानशय	दूधपीनेवालाबालक	उदन्या	पियास तृषा
उत्थान	पुरुपार्थ तंत्र पुस्तक संग्राम	उदन्नात्	समुद्र
	आंगनमें आबना आनन्द मलरोग	उदपान	कुर्वा विहीर घायली
उत्थित	बढ़ना उंचाई	उद्य	पूरपर्वन जहाँमृत्युउदयदोनोंहैं
उत्पत्ति	उलरनेवाला	उदर	पेट
उत्पत्ति	पैदाहोना प्रगट	उदकं	आगेकाकाल
उत्पत्तिप्लु	उलरनेवाला	उदवसित	घर
उत्पन्न	पैदाहोना बढ़ना	उदशिव्	आधाजलकामटा
उत्पल	कोंकामेलि वर्षांना छूट	उदान	स्वरकीमंझा
उत्पलशारिवा	उपलमरी	उदान	कंडकीवायु
उत्पात	शुभाशुभमूचक विहुलीआदि	उदार	मृधापुष्प दानी पदा
उत्फुल	फूलनाफूलोंका		

उदासीन	जोनशत्रुहोनमित्रहो	उद्धार	द्रव्यउधारदेना चूल्ह
उदाहार	कहनेलायक वर्णनकरना	उद्धृत	कुर्वासेजलनिकारना जोकुछ निकालाजाय.
उदित	कहाहुवा बंधा	उद्धमान	चूल्ह
उदीची	उत्तर	उद्भव	जन्म पैदा
उदीचीन	उत्तरदिशाकाहुना	उद्भिज्ज	उद्भिद् } वृत्तलता जोपृथ्वीकोभेदकरहो
उदीच्य	उत्तरकादेश नेत्रवाला.	उद्भिद्	
उदुवर	तांबा गुलर	उद्भिद्	
उदुवरपर्णी	दांती औषधि	उदभ्रम	कांपना व्याकुलहोना
उदुखल	उलूखल वोखरी	उद्यत	शस्त्रादिकोंकाउठाना
उद्गत	वान्तसेअन्नगिरना कैकरना	उद्यम	उद्योग वोभाआदिउठाना
उद्गमनीय	धोयेवस्त्रकाजोडा	उद्यान	राजावोंके आनंदकेवाग घरसे निकलना.
उद्गाढ	शीघ्रता	उद्युक्त	अपनेकामकायत्न [ यत्न
उद्गाढ	सामवेदीयज्ञमें	उद्योग	उत्साह किसीकामकाउद्दाह-
उद्गार	वमन	उद्ग	जलजीव मगराआदि
उद्गीथ	सामवेदकाशब्द.	उद्गर्तन	उवटनदेहमेंकरना
उद्दूर्ण	उठानाशस्त्रोंका	उद्गात	वमन
उद्ग्राह	ऊपरउठाकेपकडना	उद्गांत	वमन जिसकामदउतरजाय
उद्ग	शुभशब्द	उद्गासन	बध मारना
उद्गन	काठकाठनेकाधन ठीहा	उद्गाह	विवाह
उद्गाटन	घटीकायंत्र	उद्गै	सुपारीकाफल व्याकुलता
उद्गात	आरंभमान	उंझुर	} मूसा चूहा
उद्गान	बधन	उंझुक	
उद्गाल	लसोहरबृत्तवभोंकरी	उच्चत	ऊंचा
उद्दित	बंधा	उन्नतानत	ऊंचानीचा
उद्द्राव	भागना	उन्नद्	वढ़ा गर्वित
उद्दर्ष	उद्दाह खुशी	उन्नय	} ऊपरलेजाना इच्छाकरना.
उद्भव	कृष्णकामित्र उद्दाह खुशी	उन्नाय	
उद्गात	आरंभ	उन्मत	घतूर मतवाला
उद्गान	चूल्ह	उन्मथ	बध मारना
उद्गांत	वमन		

उन्मदिप्नु मतवालेस्वभाववाला  
 उन्मनस् उक्तंटा चित्तमेलगना  
 उन्माथ जालपक्षीमृगोंकेफांसनेका व  
 धकरना  
 उन्माद, चित्तकाध्रम शिङ्गीकासास्वभाव  
 उन्मादवत् चैलान शिङ्गी  
 उपकण्ठ समीप  
 उपकारिका } राजावोंकेघर  
 उपकार्या }  
 उपकुंचिका छोटीइलाची कालाजीरा  
 उपकुल्या पीपरि  
 उपक्रम आरंभ प्रथमारंभ देवाकरना  
 उपक्रोश निंदा गाली  
 उपगत अंगीकार  
 उपगूहन लपटानास्नेहसे  
 उपग्रह कंठकरना पकड़ना  
 उपग्राह भेददेनागुरुआदिको नजर  
 उपघ्न समीपकाआसरा  
 उपचारित सेवाकरना  
 उपचाय्य अग्रिमयोग  
 उपचित समृद्ध सबसुखसेपूरण  
 उपचित्रा मूमाकरीं  
 उपजाप भेद फोरफार  
 उपज्ञा प्रथमज्ञान  
 उपतप्त रोगविशेष  
 उपताप रोगमात्र  
 उपत्यका पहाड़केसमीपकीपृथ्वी  
 उपदा वेवहार भेट नजर  
 उपधा भेद फिनर आरंभ पराध्रम  
 उपधान तक्तिया उमीम गिगटा  
 उपधि शटना टगना

उपनाह १. वीणाकेतारवसुंदरी  
 उपनिधि धरोहर  
 उपनिपद् एकांत वेदांत वेदकाअंग  
 उपनिष्कर बड़ीसडक जिससेहॉपी  
 आदिसुखसेनिकलें  
 उपन्यास वचनकाआरंभ  
 उपपति जार यार  
 उपभृत् ध्रुवाभेदयज्ञादिकोंमें  
 उपभोग समीप भोगादि  
 उपमा उपमादेना नजीर मिसाल  
 उपमातृ, दुधपियानेवालीवालकोंकीदाती  
 उपमान उपमादेना  
 उपयम } विवाह  
 उपयाम }  
 उपरक्त किसीव्यसनसेअपामुल जैते  
 नमेवाजनुवारी मूर्यचंद्रमाकेग्रहण  
 उपरक्षण सेनकीरक्षा पहरा गुस्त  
 उपरम } शांति विधाप  
 उपराम }  
 उपराग ग्रहणपड़ना  
 उपरि आगे  
 उपल पत्थर  
 उपलश्चार्था, उपनेअभीष्टकासिद्धकरना  
 उपलक्ष्य बुद्धि थाकिल  
 उपलंभ अनुभव मात्तत्कार  
 उपला शकैरा कंकड़ी  
 उपरन याग फूलकलनामानन्ददायक  
 उपरनेन देग जमेअवध  
 उपरते तक्तिया जांमिगकेनीचेधरानाव  
 उपरम्भ }  
 उपराम } घन एनादशीआदिका

उपनिषा	अतीस	उपायन	वेवहार
उपवीत	जनेऊ यज्ञोपवीत	उपालंभ	निद्राऔरबड़ाकरबातकहना
उपशल्प	गांवकाकिनारा	उपाव्रज	घोड़ेकालोटना
उपशाय	शयन सोना	उपासग	तूणीर तरकस भाथा
उपश्रुत	अंगीकार	उपामन	सेवागुरुआदिकनकी बाणके फेंकनेकाअभ्यास
उपसंव्यान	नीचेकावस्त्र लहगाधोती	उपासित	सेवाक्रियादेवताआदि
	व्यजन भीटेखट्टे आदि	उपाहित	संयोगकोमास आगलगना
उपसंपन्न	यज्ञकावलिदान	उपेंद्र	वामनजी विष्णु
उपसर	गर्भधारण	उपोदिका	} शागभेद
उपसर्ग	उत्पात्	उपोदीका	
उपसर्जन	दान	उपोद्घात	किसीकामकाविचार
उपसर्ग्या	गौ गर्भधारणकरनेवाली	उसकृष्ट	बोयेकेबाद जोतना
उपसूर्यक	सूर्यकेचौगिर्दकभीजोमंडलहो	उभयद्युम्	} दोदिन
उपस्कार	शागादिकेलिये हरदीआदि का चूर्ण	उभयेद्युस	
उपस्थ	योनि लिग	उम्	कोपकीनाणीमें प्रश्न
उपस्पर्श	छना दानदेना	उमा	श्रीपार्वती अरसी
उपहार	भेंटदेना राजाकोकरदेना	उमापति	श्रीमहादेवजी
उपहूर	एकांत समीप	उम्य	अरसीकाखेत
उपांशु	जपभेद एकांत लिपटना	उरःमृत्त्रिका	मोतीकामाला
उपाकरण	जनेउहोकरयेदपदना कर्म	उरग	सांप
उपाकृत	वलिदानयज्ञका	उरञ्जद	क्वच वरतर
उपात्यय	उल्लसन अतिव्रम. [ वस्तु	उरण	मेढा
उपादान	व्यवहार भेंट मांस भोगकी	उरणाक्ष	} चकौंड़ी.
उपाधि	कुटुम्बपालनेवाला धर्मकीचिन्ता	उरणाय	
उपाध्याय	पदानेशालागुरु	उरभ्र	मेढा
उपाध्याया	} पदानेवालीगुरादनि	उरगी	अंगीकारकरनेमें
उपाध्यायानी		उररीजन	अंगीकारक्रिया
उपाध्यायी		उरम्	दायी हृदय
उपानट	ज्ञता सराउं	उरगिन	}
उपायचतुष्टय	साम दान दद भेद	उरम्नान्	

उरस्य पुत्रअपनीविवाहितास्त्रीका  
 उरीकृत अंगीकार  
 उरु चौड़ाई  
 उरुवुक रेंडा रंडीकाबृत्त  
 उर्वरा । सवनाजहोनेवालीपृथ्वी  
 उर्वशी अप्सरा  
 उर्वी पृथिवी  
 उर्वाह कांकडी  
 उलप वड़ीवेलि ।  
 उलूक उल्लू खूसट घुघुवा  
 उल्लल खोखरी  
 उल्ललक गुगुल  
 उल्लपित् शिशुमारमत्स्य  
 उल्का तेजसमूह लपट लुकुवाई  
 उल्लुंरु जलताहुवावाठ  
 उल्ल्व कलल स्त्रीरक्तपुष्टपवीर्षमिलाहु  
 वागर्भाशय.  
 उल्लवण दुःसह  
 उल्लाय निरोग जिसकारोगछुटै  
 उल्लोच चंद्रवा ऊपरउखादितानना  
 उशनम् शुक  
 उल्लोल घड़ीलहरेंनदीयादिकी  
 उशीर रसवृणभेद  
 उपणा पीपरि  
 उपरुंध अग्नि  
 उपस् मातःमाल सवेरा. [ कन्या.  
 उपा रातिक्रायत दोपरीरातिरहेवाण  
 उपा } स्वाती पात्रभेद  
 उपा }  
 उपापति अनिन्द्य कृष्णकापीत्र  
 उपित जलना

उप्पू ऊट  
 उप्पण, ग्रीष्मऋतु वैशाख ज्येष्ठ चतुर गरमी  
 उप्पणरश्मि सूर्य  
 उप्पिका पतलाभात गोलाथी  
 उप्पणीप पगड़ी रुपट्टा मुकुट  
 उप्पणोपगम } गरमी.  
 उप्पणक }  
 उप्त किरणसूर्यकी  
 उप्ता गौ

( ऊ )

ऊ रक्षा चंद्रमा राजकुमार गल मंगल  
 ऊ कलश वेदे धनियां उपमा राक्षस.  
 ऊदुवरपर्णा } दंती जिसकाबीज जमाल  
 ऊदुवरपर्णा } गोटा.  
 ऊत यज्ञविननेकाताना  
 ऊधस् गण्डियन आयन  
 ऊन निदिश थोडा  
 ऊम् कोपनीवाणी  
 ऊररी अंगीकार  
 ऊरव्य धंदय  
 ऊरी अंगीकार  
 ऊरीकृत अंगीकारिकिया  
 ऊरु जांच  
 ऊरुन धन्य धनियां  
 ऊरुपर्वन गांठी जांचपीलीवाजोद  
 ऊरुवुक अंडकापेद  
 ऊर्ज बानिफमटीना  
 ऊर्जम्बल } पगाम्मी  
 ऊर्जम्बिन }  
 ऊर्णेनाम मरगमकी

ऊर्णा मेढादिकोंकेरोमा  
ऊर्णायु मेढा कंबल  
ऊर्ध्वक } मृदंगविशेष मुखकावाजा  
ऊर्ध्वजानु } जिसके पैरकीगांठीबैठेपरऊ-  
ऊर्ध्वज्ञ } परहोजाय ऊंचीगांठीहो।  
ऊर्ध्वबु }  
ऊर्मि लहरी  
ऊर्मिका अंगूठी मुंदरी  
ऊर्मिमत देहापन  
ऊप प्रातःकाल रेहू खारीमाटी  
ऊपण मिर्च  
ऊपण पीपरि-  
ऊपर } ऊसर जहाँयासतकनहो  
ऊपवत् }  
ऊष्णागम गर्मीऋतु  
ऊह तर्क चतुराई  
( ऋ )  
ऋ देवमाता बालक बुद्धि हाथी पर्वत  
वेद शत्रु नदी अमृत  
ऋक्थ धन  
ऋत्त नक्षत्रशयोनापादा औपधि रीढ़  
ऋत्तगंधा विधारा  
ऋत्तगंधिका सपेदकुम्हड़ा पेठा  
ऋच ऋग्वेद  
ऋचीप } तवा कड़ाई  
ऋजीप }  
ऋजु सूया  
ऋजुरोहित इंद्रधनुष  
ऋण रिखलेना कर्ज  
ऋत सत्य बाजारकेदानाचिननावा

खेतकेशीलाचिनना  
ऋतीया निंदा  
ऋतुमती मासिकधर्मवालीस्त्री  
ऋतु ऋतु ६ वसंत ग्रीष्म वर्षा हेमंत  
शरद शिशिर दोमहीनेकीऋतु  
स्त्रीकामामिक  
ऋते वर्जना विना  
ऋत्वज होमकरनेवालेयज्ञादिकोंके  
ऋद्ध तृणकीराशि नाजकीदेही  
ऋद्धि औपधिविशेष  
ऋभु देवता  
ऋभुत्तिन इंद्र  
ऋश्य शीघ्रचलनेवालाहिरन  
ऋश्यकेतु अनिरुद्ध  
ऋपभ स्वरभेद औपधि बल श्रेष्ठ  
ऋपि तपस्वी सत्यबोल  
ऋष्टि सड़ तरवार  
ऋप्य हिरनजाति  
ऋप्यकेतु अनिरुद्ध  
ऋप्यगंधा विधाराऔपधि  
ऋप्यमोक्ता क्रेवांच शतावरि  
( ॠ )  
ऋ सर्प भुजा दनुजमाता भूषण जल  
कमल  
( लृ )  
लृ देवयोनि पर्वत पवन नागमाता  
अपनीमाता नेत्रकीदेही  
( लृ )  
लृ देवपत्नीकारण



( ए )

ए विष्णु रात्रि आकाश जल  
 एरु संख्यामें एक ? भिन्नार्थमें श्रेष्ठार्थ  
 में राम एक हुये  
 एकक ?  
 एकगुरु गुरुभाई एकगुरुके चेला  
 एकतर भिन्नार्थ जैसे घोड़े से ग मा भिन्न  
 एकतान एकचित्त एकाग्र  
 एकदंत गणेशजी  
 एकदृष्टि काँवा जो एक ही तरफ देखता है  
 एकदा एकठा एकवालमें  
 एकधुर  
 एकधुरावट } एकसँलकाएवा.  
 एकधुरीण }  
 एकपदी मार्ग रास्ता  
 एकपिंग कुंजर  
 एकपष्ठिका एकलक्ष्मी मोतीरीमाला  
 एकसर्ग एकाग्र  
 एकहायनी एकसालकीमदिया  
 एकाकिन् अकेला  
 एकाग्र } एकचित्तहोना, सास्वचित्त.  
 एकाग्र }  
 एकांत अतिशय शीघ्रता अलग  
 एकादा एकवर्षकीमा  
 एकापन } एकाग्र.  
 एकापनगत }  
 एकावली एकलखाहारमोतीका  
 एकाष्टील गुप्ता बुक रुडेमदार  
 एकाष्टीला पाठा  
 एड बहिरा

एडक मेडा  
 एडगज चकौड़ी  
 एकमुक मूर्त वेवकूफ. ; [ गायेजाय  
 एडकू } जिसके भीतर दही हों कमरे जिस  
 एडोकू } दीवारमें मजबूती को पत्थरादिल  
 एण हिरणसुंदरनेत्रमाला  
 एत कनरारंग विचित्ररंगचुनरीआदि  
 एतर् इसीमय अभी  
 एथ } काठ.  
 एथस् }  
 एथा समृद्ध बढ़ना  
 एथित बहुतरङ्गा  
 एनस् पाप पुणकर्म  
 एरंड अंडा  
 एरुकि काँकड़ी  
 एलगज चकौड़ी  
 एना इलाचीबडी  
 एनापर्णी राम्ना रहमनि  
 एनामालुह सुमं रद्रव्य  
 एर इगतना इमपकार  
 एरम् मुख्य वगसर प्रकार उपमा अं-  
 नीकार अयनअर्थ  
 एपरिणिक सोनागेकातगुना काँठ

( ऐ )

ऐ महादेव हाँय इंद्रपुत्र  
 ऐवागात्रि चार  
 ऐरुट इगुटीकाफल  
 ऐण } दिग्गुनामि  
 ऐणय }  
 ऐतिथ लोच एंपगकेटपडेजमें

ऐन्द्रियक	जो इंद्रियादिकोंसे काम हो
ऐरावण	हाथी इन्द्रका
ऐरावत	हाथी दिशागज नारंग
ऐरावती	विजुली
ऐलविल	कुवेर
ऐलेय	बालुकनामसुगंधद्रव्य
ऐश्वर्य	विभूति सिद्धि द्रव्यादिक
ऐषमस	वीतेवर्ष

( ओ )

ओ	ब्रह्मा चंद्रमा कीच
ओकस्	स्थान. [ जलकावहना
ओघ,	शीघ्रतासेनाचनाआदि समूह भुंड
ओंकार	प्रणव आदिब्रह्म
ओजस्	तेज बल
ओइपुष्य	गुडहर जास्वंद
ओतु	विलार
ओदन	भात अन्न
ओम्	अंगीकार आज्ञा
ओष	दाह
ओपधी	जो देवापागादिकोंकेकामआवे
ओपधीश	चंद्रमा
ओष्ठ	बोट

( औ )

औ	अनंत गणेश अभिमान
औत्तक	बैलोंकाभुंड
औचित्ता	मैत्री मित्रता
औचित्य	
औत्तानपादि	धुवजी जोचक्रकेमध्यधुव
	लोकमेंहै
औत्सुक्य	उत्कण्ठता

औदनिक	रोटिकरा आचारी
औदरिक	पेटभरू
औदुंबर	गूलर
आपगवकै	गौइत्यादिकासमूह
औपयिक	न्यायसेद्रव्यमासहो
औपवस्त	व्रत उपास
औपवस्त	
औमीन	अरसीबोनेकाखेत
औरभ्रक	ऊंटोंकाभुंड
औरस	अपनीविवाहितास्त्रीकापुत्र
औरस्य	
औलुक्य	वैशेषिकशास्त्रपढ़नेवाला
और्ध्वदेहिक	भरेकेदेशगात्रादिकर्म
और्ध्वदेहिक	
और्व	बड़वानल
औशीर	चामर दंड शय्या
औपध	औपधीहरइत्यादि
औप्क	ऊंटोंका भुंड

( क )

क	वायु ब्रह्मा सूर्य
कं	शिर जल सुख
कंस,	कटोरा जिससे दूधआदिपियाजाय
	कृष्णके मामाकानाम
कंसाराति	श्रीकृष्ण-जोकंसकेशत्रुहुये
ककुद	बैलकीलाठ राजाबोंकेचिन्ह
ककुबती	कमरमोटी छत्रचामरादि
ककुंदर	चूतरपरपीठकेतरेकुडगहिरा
ककुम्	दिशापूर्वादि वीणाकेतोंवा अ-
	र्जुनवृक्ष
ककखट	कठिन कड़ा
कक्ष	बाहुकेतरेकांख शूलातिन वन

कक्ष्या हाथीकसनेकी चमड़ाकीरस्सी	कटाह , कड़ाह खपरा कलुषाकीपीठ
राजाचौकीडेउड़ी कंधनी	कटि कमर करिहांच फूल
कंक खंडैचा बकुला	कटिमोथ कमरकामांस .
कंकटक कवच बखतर	कटिबल्लक करेला
कंकण हाथकागहेना	कठी कमर चूतर
कंकणी घुंघुळ कंधनी	कटु रसभेद कुटकी नकरनेलायक
कंकतिका कंधीवालसाफकरनेकी	कटुतुंबी कडईतौंबी
कंकाल मांजरि शरीरकीहड्डी	कटुरोहिणी कुटकी
कंकोलक कंकोल कवावचीनी	कटूफल कैफरा
कंगु } काकुनि.	कटुंग शोनापाठा
कच वालशिरके	कठिंजर पर्णास कालबर्डी
कचर पैला जोसाफनरहै	कठिन कडा पुष्ट
कचिन अपनेस्वार्थकीप्रपन्नमें इच्छामें.	कठिलक करेला
कच्छ नदीकेआसपासका देश तुनि	कठोर पोढा कफ.
वसूका अंचल. [ निधि.	कडंकर } भुम ठणकाच्छुर्ण.
कच्छप कच्छा द्रव्यकीसंख्यातुषेरकी	कडंगर } दैट शाकनारीका
कच्छपी सरस्वतीकीपीणा.	कडार पीतरंग
कच्छू खाजु	रण बहुनथोडा घानके कन
कच्छुर पामारोग मिचर्चिका	कणा परिपरि कालाजीरा
कच्छुरा यनासा	कणिका अतिहीमृश्य
कच्छुरा सांपकीकंचुलि सभाह जोवा-	कणिश यवाटिकवीवालीधान्याटिकी
खांकोटेंहपेनलागनेदे	कंटक रोमपडेहाना उंटाशुष्ट सुईवा
कंचकिन द्रागपालक सांप	अगादी ( ; )
कट कमर हाथीकागंडस्यल पेढा	कंटकफल कट्टर
कटक पहाडकामन्य पहुंचीकंख्यादि	कंटकारिका भट्टरट्टया
सियोंकेकमरकापिछादी	कंटोलबीणा नीचजागिर्वावाणा
कंटभी मालकांगनी	कंट गल
कंटपग ) कुटकी चांदनेलि.	कंटभूषा कंटो गनेरंगहना
कटभरा ) कुटकी चांदनेलि.	कंटरीर मिष्ट
कटाज्ञ नेत्रोंमेंवावकरना	कंटु घाजु

कंडूरा	केवांच	कंधा	माटीकीभीत फकीरोंकेवस्त्र
कंडू	} खानु.	कंड	सूरन जिमीकंद कमलमूल
कंडूया		कंदराल	पर्वतपीलु गेंडी लाखीपिंपरी
कडूरा	केवांच	कंदर्प	कामदेव
कंडोल	बांसकापिटाराआदि	कंदलिन	} हिरणकीजाति.
कराव	मतवाला-नंगाहोबुलावै मदि-	कंदली	
	रादिकाकीट	कटु	मदिरामनानेकापात्र भट्टी
कटुण	ऐहिसनाम वृण	कटुक	गेंदखेलनेका
कथा	वार्ता	कंधरा	कांध कंधा
कदंबन्	कुमार्ग वुरीरास्ता	कन्यकजात	जोकुमारीमें पैदाहो जैमे
कटन	वृत्त		व्यासकर्णआदि
कदवक	समूह भुड सेरस	कन्या	जिसकेरजस्वलानहुवाहो
कदर	सपेदकत्या खैर	कपट	छल डिभ
कदन्ध	जोलोभसे स्त्रीपुत्रकोभीपीडादेइ.	कपर्द	शिवजीकेजटाजूट
कदल	} केला.	कपर्दिन	श्रीमहादेवजी
कदला			कपाट
कदलिन	हिरणजाति	कपाल	शिवकीदृष्टी
कदली	हिरणजाति केला	कपालभृत्	महादेव
कटाचित्	किसीकालमें	कपि	वानर
कटुष्प	कुल्लगर्म	कपिकच्छु	} केवांच
कटु	पीतरंग	कपिकच्छु	
कट्टद	वुरीवातकरनेवाला	कपित्थ	कैथा
कनक	सुवर्ण	कपिल	पीलारंग. [ गहू रेणुका.
कनकाभ्यन्त	सोनाकामालिका	कपिला	दिशागजकीपत्नीकानाम अ,
कनकालुका	सोनेकापात्र भारी	कपिवल्ली	गजपीपरि; बड़ीपीपरि.
कनकाहय	धतूरे	कपिश	पीत
कनिष्ठ	छोटाभाई ज्वान बालक	कपीतन	अंबडा गेंडी सिरसा
कनिष्ठा	छोटीअगुली अगुनिया	कपूय	निंदित
कनीनिका	आंसकीपुतरी	कपोत	कवतर. [ कास्थान.
कनीयस्	छोटाभाई	कपोतपालिका	कावुक महलभेकवृत्तों-
कनीयस्	अतिछोटा ज्वान	कपोतांधि	मालकांकुनि

कपोल गाल	करक, पहिलीबर्पाकेपथरासेवुंद मिलावस
कफ कफ	करकटक गोंगा सेकड़ा
कफणि } हांथकीटिहुनी	करका वड़ेरवुंद
कफोणि }	करज कंज वधनहा
कफिन् कफरोगी	करंजक कंज
कबंध जल विनाशिरकाथटजोनाचै	करट कौवा हांथीकागंड
कवरी ववईवालोंकीरचना हांगकावृत्त	करदु करडापत्ती
कवित्थ कैथा	करण शूद्राणीमेवैरयसेहो खेत
कम् शिर जल	करंट पिथारा
कमठ कलुवा	करतोया नद्री
कमठी कलुई	करपत्र थारा
कमएडन्तु, ब्रह्मचारीआदिकापीनेकापात	करपाल सहग तरवार
कमन कामी	करपालिका, खांडा. [पीठतकअंटकावचा.
कमंध घड	करभ हांथकापृष्ठ पहुंचासेलेथंगुरिनकी
कमल जल हजारपत्तारुकाकमलतांव	करभूषण हांथकागहेना कंकणादि
कमला लक्ष्मीजी	करमर्दक करौदा
कमलासन ब्रह्माजी	करंव } दहीमिलेसेनुवा.
कमलोत्तर कुमुम	करंभ }
कमलोद्भव ब्रह्मा	कररुह नाखून नह
कमित् कामी	करवाल खदग
कंप कांपना	करवालिका खांडा
कपन } कांपनेकास्वभाव	करवीर कनर
कंप }	करशाम्वा थंगुनी
कंचल कंचल नागराज बख	करशीकर हांथीकीमुंडकेजलकीछिटी
कंचलिवायक गांधी	करहाट कमलमूल भेगीर
कंचि } चमचा कलजुन	करहाटक मयनफन
कंची }	कराल अंचेदान मयंकर
कंचु शंख कंकण गर	करिगमित्त हांथीकीचिन्घार
कंचुप्रीवा जिसकेगलेमेनीनरेखाहो	करिछी हयिनी
कघ्न कामी	करिन हांथी
कर हांथी मूर्यकीकिरण गजदंड	

कर्मार	विचित्ररग चुनरीआदि	कलि	संग्राम, शूर
कर्मेन्द्रिय	हांथ, पैर, गुदा, लिंग, खाल	कलिका	फूलकीकली
कर्प	सोरहमासेसोना	कलिकारक	कज
कर्पक	खेतीकरनेवाला	कलिंग	इंद्रयव भुजपलपत्ती
कर्पफल	बहेर	कलिद्रुम	बहेर
कर्पू	तौल्लकामान	कलिमारक	कंज
कल	गभीरस्वर	कलिल	मुसकिल जहांदुखसेजासकै
कलकल	बहुतजनोंकाशब्द कोलाहल	कलुप	पाप मैलापानी
कलंक	चिन्ह निंदा	कलेवर	देह
कलत्र	राजाओंकाकिला स्त्री कमर	कल्क	पापाधिक कीट हाथीदात
कलवैत	चांदी सोना	कल्प	द्विहजारदेवताओंकेयुग प्रलय
कलव	घाण देंट		धर्मशास्त्र नीति
कलभ	हांथीकापचा	कल्पना	कथा
कलम	धानआदि	कल्पवृक्ष	देवलोकमेंहै
कलवी	शाकभेद करनेवाला पोई	कल्पात	प्रलय
कलरव	कपूतर	कल्पप	पाप घुराकर्म
कलल	गर्भकाकारण	कल्माप, कवराग चुनरीआदि.	[कीबात
कलधिक	गरगवा	कल्प्य	मातःकाल निरोगपुरुष कल्प्याण
कलश	जिसमेंजलभराहो	कल्प्या	सुंदरवोली
कलशि	} पिठवनि	कल्प्याण	संगल शुभ
कलशी		कल्लोल	बड़ीलहरें
कलशी	दहीमथनेकापात्र मेहडवा	कल्हार	लालकमल
कलश	जलभरा	कवच	बख्तर [ करना पत्री हिंगवृक्ष
कलहस	बतक उकत पत्नी	कचरी, खई	शिरकेवालआदिरचिगोभा
कलह	लड़ाई	कवल	ग्रास कौर
कला	सोरहवांभाग बन्नी रचना	कवाट	केवांग
कलाद	सोनार	कवि	शुक पसिदत
कलानिधि	चंद्रमा	कविका	} लगामयोदेवी
कलाप	भुण मारपल	कविय	
कलाय	घाटनीलके	कवोप	कुछगर्म

कन्यः नपितरौकेअर्थप्रभादिः  
 कशा जेरवंद कोडा  
 कशाई कोडामारनेलायक  
 कशिपुः अन्न बन्न  
 कशेरु - हड्डीकानाम-तृणजाति  
 कशेरुका पीठकीहड्डी  
 करमलः मूर्द्धासंग्रामादिमें  
 करय घोड़ोंकामध्य जहाँपरकोडामारा  
 जाताहै मदिरा कोडाकेयोग्य  
 कषाय रसभेद लेप काडा  
 कष्ट - दुःख मुसकिल  
 कस्तूरी जोहिरणकीनाभीमेंहोती है  
 कन्दार - लालकमल  
 कइ बकुला

( का )

कांस्यताल घंटाभाङ्गआदि  
 काक कौवा  
 काकचिचा }  
 काकचिचि } धुंयचिल रत्ती  
 काकचिची }  
 काकतिदुक कदुतिदुक कुचिला  
 काकनाशिका कौवादेदी काकजंया  
 काकपत्त वालकोंकेवाल पट्टा कुल्ल  
 काकपीलुक कुचिला  
 काकमाची केवइया  
 काकमुद्गा मगवन  
 काकलि }  
 काकली } थोदेशब्दमें  
 काकांगी कौवा देदी काकजंया  
 काकिणी रत्ती कौडी पणकोचतुर्थांश  
 काकु शोकभयकाशब्द

काकुंद ताल  
 काकेंडु कुचिला  
 काकोदुंवरिका कदुंवरि  
 काकोदर सर्प  
 काकोल - स्थावरविष कालाकाँवा  
 कांक्षा इच्छा वांछा  
 कांक्षी तुवरी  
 कांच कांच शिकहर मणि नेत्ररोग  
 कांचस्थाली पाडरि  
 कांचित शिकहरमेंजोधराहो  
 कांचन सोना  
 कांचनाड्य नागकेशर  
 कांचनी हरदी  
 कांचि, एकलरकीखीकीकंधनी कमरपट्टा  
 कांजिक सिरका कांजी  
 कांड दंड बाण निदित वर्ग स्तुतिपांठ  
 कांडपृष्ठ }  
 कांडपृष्ठ } शस्त्रसेजीविकाकर  
 कांडवत् }  
 कांडीर } बाणधारी  
 कांडिष्णु तालमषाना  
 कातर लंडार जोसंग्रामसेभाग  
 कात्यायनी श्रीपार्वती गेरुहावस्त्रयुत  
 आधी बृद्धस्त्री विधवा  
 कादंब बतकपची  
 कादंबरी मदिरा  
 कादंबिनी मेयोकेसमूह  
 काद्रव कोदंबअन्न  
 काद्रवेय नाग  
 कानन वन  
 कानीन कन्याकापुत्र

कांत सुंदर  
 कांतलक तुनिवृत्त  
 कांता मनोहरस्त्री  
 कांतार, महावन दुष्टमार्ग जहांसिंहादिहों  
 कांताथिनी जोमैथुनकेलियपतिकेपास  
 जाय  
 कांति शोभा इच्छा  
 कांदविक भोजनवननिवाला  
 कांदिशिक जोभयसेभाग  
 कापथ धुरीरास्ता कुराहो  
 कापिले सांख्यशास्त्रजनिनेवाला  
 कापोत कवतरेकोभंड सज्जीखरि  
 काप्रोवांजन सुरमा  
 कामे कामदेव वांछा जोइच्छा  
 कामगामिन जसोइच्छाहातेसाचल  
 कामंगामिन  
 कामन कामीपुरुष  
 कामपाल बलदेवजी कृष्णकवचभाई  
 कामम् आशा ईर्ष्या  
 कामपितृ कामी [वांदा  
 कामिनी जिसस्त्रीकेसुंदरनेत्रहों वृत्तको  
 कामुक कामी  
 कामुका जोसोमैथुनकीइच्छाकरे  
 कामुकी  
 कांपिल्य कपिलाश्रीपथि  
 कांपिल  
 कांबल रथकावस्त  
 कांबविक चुरिहार कचेर  
 कांबोज घोड़ेकीजाति  
 कांबोजी वनउर्दी  
 काम्यदान तुलादानादि [तीर्थ

काय देह  
 कायस्थ हर  
 कारण निदान  
 कारण नरकपीडा यमघातना  
 कारणिको प्रमाणसिवातिकोठीकरे  
 कारंडव पत्नीम्लेजजाति  
 कारवी मोरशिखाश्रीपथि सौफ को  
 लाजीरो हिगुवृत्त  
 करवह करला  
 कारा कैदखाना वेदिस्थान  
 कारिका नटी जीधिका  
 कारीपे शोभेतेवरकांठेर  
 कारु तसबीरवनिनेवालाकारीमोर  
 कारुणिक दयावान  
 कारुण्य दया  
 कारोजय मंदिराकामाइवफना  
 कारोत्तर  
 कार्तस्वर सोना  
 कार्तातिक ज्योतिषीपीठन  
 कार्तिक महीना  
 कार्तिकिक कार्तिक  
 कार्तिकेय कर्त्स्य संपूर्ण  
 कापासी कपासवृत्त  
 काम अपतेकाममेंनिपुणहो  
 कामण श्रीपथियोंकाम  
 कामुक धनुष कमान  
 कार्दय शंखो  
 कापिक कितान चितहार  
 कापापण रूपया  
 कापिक



कार्प्य शाल शांखो [रग यम समेय <sup>३</sup>	काल्या शुभवात उठीगौ गर्भकेलिये
काल निमेषादिप्रलयतकं मृत्यु काल-	कावचिक बलतरपहिरेवीरोंकासमूह
कालक काला देहमेंदाग जी	कावेरी नदी
कालकठक सपेदकौवा जलकाग	काव्य शुक्र
कालकूट स्थावरविष [ला पकृत	काश कास जोकुवांरमेफूलते है
कालखड दहिनीओरपेटमेमासकागो-	कारभरी } खंभारि.
कालधर्म मरना नाश	कारभय }
कालधृष्ट महाराजकर्णकाधनुष	काश्मीर पुष्करमूल एक प्रदेशकानाम
कालपेशिका मजीठ	कारभीरजन्मन् कुकुम केशरि
कालपेशी बकुची बचुकी	काश्यपि सूर्यकासारथी अरुण
कालशेष टंडसेमथागोरस मठा	काश्यपी पृथ्वी
कालपेषिका मजीठ जेठीमयु	काष्ठकुंदाल { नावसाफकरनेकेकाठके
कालपेषी बकुची बचुकी	काष्ठकुंदाल { कुदारा
कालसूत्र -नरककानाम	काष्ठतत्त बर्दई
कालस्कथ, तेंदू तमालवृत्त [कालाजीरा.	काष्ठा, दिशा अठारापलकमारनेमें <sup>२</sup> काष्ठ
काला पावरि नीली श्यामविधारा	काष्ठाबुवाहिनी डोंगी नाव
कालागुरु अगार	काष्ठीला कदली केला
कालानुसार्य शिलाजीत जायपत्री	कास कास
कालाय मटर मोथी	कासभर्द देहमेंगुल्मरोग
कालायस लोह	कासर भैंसा
कालिका मेघसमूह श्रीटेवीकानाम	कासार तड़ाग ताल
कालिंदी यमुना अतिपवित्रधारा	कासू वरछी सैती
कालिंदीभेटन बलदेव जिन्होंनेहलमे	( कि )
यमुनाको खींचलिया	किंबदन्ति } सुनीवात लोकविवादादि
काली श्रीपार्वती	किंबदती }
कालीयक दारुहरदी जायपत्री	किंशारु, नाजकीसीकुर मोरपखकावाण
कालेयक दारुहरदी	किंशुक छल दाख
काल्पक कचूर	किंकर सेवक टहलुवा
काल्य मातःकाल	किंकिणि }
काल्यक दारुहरदी [बिलकीइच्छाकर	किंकिणी } घुघु

किकि	लीलागणस नीलकंठ
किकिदिव	
किकिदिवि	
किकी	
किकीदिव	
किकीदिवि	
किकीदिवी	
किकीदिवी	
किंचित् कुब्ज	
किचिलिक	केंचुवा काडू
किचुलक	
किंचुलक	
किंजल्क	केसर कमलकेभीतरहोताहै

फलकीपूलि

किटि	शूकर सोर
किट्ट	मंडूर लोहेकाकूट
किण	घावकाचिन्ह मांसकीगाठ
किण्णी	लटजीरा. [ का शब्द
किराव	मदिरावनानेकीपस्तु मतवाले
कितव	धतूर ठग जुवारी
किन्नर	देवजाति कुवेरकीप्रजा
किन्नरेश	कुवेर
किम्	मश्र निंदा विकल्प
किम्बु	विकल्प
किपचान	अतिलोभी कादर जोलोभ
	सेस्त्रीपुत्रकोभीपीडादेइ
किंपुरुष	किन्नर
किर	शूकर
किरण	सूर्यकीकिरण
किरात	वनवासियोंकीजाति
किराततिक्र	चिराइता
किरि	शूकर

किरीट	मुकुट पगड़ी
किर्मार	विचित्ररत्न चुनरीआदि
किल	निश्चय
किलास	सँहुवारोग
किलासिन	जिसकेसँहुवाहो
किलिंजक	वांशकेपिटारा कांवरिआदि
किल्बिप	पाप नीचकर्म अपराध
किशलय	छोटीदार टेहरा
किशोर	घोड़ेकावच्चा बालक
किप्फु	हांयभर वित्ताभर. [ दार
किसलय	टेहरा नवीनपत्तासहितछोटी

( की )

कीकस	हाड हड्डी
कीचक	वांसपोले विराटकेशालेकानामे
कीनाश	यमराज खेतिहर कृपण चंद्र
कीर	शुवा
कीर्ति	यश प्रसन्नता विस्तार
कील	आगिकीलपट लोडकीकील
कीलक	खंडा जिसमेंपशुवांधेजाय
कीलाल	पानी लोह
कीलित	बंधाहुआपशुआदि
कीश	घानर बंदर
कीशपर्णी	लटलीरा

( कु )

कु	पृथ्वी पाप निंदा थोडा
कु	चनराक चरहा
कुवर	जिसनेहांयथच्छेनहो
कुमुद	जांकन्याकोसत्तारसेठानदे
कुकुदर	चुनराकेऊपरकेगडदा
कुशुर	कुत्ता

कुल	जिसकुवाँआदिमेंकीलवहुत	कुठर	मथानीवाँधनेकासंभा
कुकुट	मुर्गा [ लगी हों.	कुठार	कुन्दारा
कुकुम	तीतर	कुठेरक	पर्णासबृत्त
कुकुर	कुकुराया कुत्ता	कुडगक	बृत्तादिसेदुस्तरहो
कुक्ति	पेट	कुडप	} पावसेर पौवाभर.
कुक्तिभरि	पेटभरू	कुडव	
कुकुम	केशरो	कुड्य	भीति दीवार
कुच	स्त्रियोंकीछाती	कडमल	कलीफूलकी
कुचन्दन	लालचन्दन	कुणप	मुर्दा दुर्गंध. [ मरोग
कुचर	जोसबकेदोपहीकहैं	कुणि	तुनिबृत्त नांदरूखी जिसकेहांध
कुचाग्र	स्त्रीकीछातीकीनोक	कुंड	काममेंआलसी.
कुज	मंगल	कुंड	पिताकेजीतेदूसरेपुरुषसेहो जैसेए
कुंचित	टेढा		धिष्ठिरादि थाली हवनकाकुंड
कुंज	जहांबहुतलतापिंडासेअधकारहो	कुंडल	वालाकानकेपहिरनेके
	हाथीकादांत	कुंडलिन्	सांप
कुजर	हाथी श्रेष्ठ	कुंडी	कमंडल ब्रह्मचारीआदिकापान
कुंजराशन	पीपरबृत्त	कुतप	दिनकाअठवांभाग दोघडी हि
कुंजल	कांजी शिरका अर्कनाना	कुतुप	रनके रोवाकावस्त्र.
कुट	बृत्त कलश घडा	कुतुक	खेल
कुटक	फारहरका	कुतप	दोटीकुपिआ तैलादिधरनेकी
कुटज	कुरैया	कुतू	कुपिआ कुप्या
कुटन्नट	श्यानापाढा केवुटिआमोथ	कुतूहल	कौतुक तमासा
कुटर	जिसमेंमथानीवाँधीजायदही	कुत्सा	निंदा
	मथनेको	कुत्सित	अथम नीच पापी
कुटिल	टेढा	कुथ	कुशा हांथीकागदा भूल
कुटी	सभास्थान शाला	कुदाल	कुदारा कचनारवृत्त
कुटुवव्यापत	कुटुवपालक	कुनटी	नैपालकीभिनशिल
कुटुंविनी	जिसस्त्रीकेपतिपुत्रादिहों	कुनाशक	जवासा
कुटिनी	जोपरनारीपरपुरुषकोमिलावै	कुंत	भाला
कुट्टिम	पकीजमीन दीवार	कुतल	वाल

कुंद	फूलवृत्त पालक। पलांकी भांडा	कुंभी	कायफल।
कुटर		कुंभीनस	सांप
कुटु	पालक	कुंभीर	मंगरा मगर जलजीव
कुटरु		कुभोल्लखलक गुग्गुलवृत्त	
कुटरुकी	शालय	कुरंग	हिरना हन्ना
कुपथ	कुराह वुरीरास्ता	कुरंगक	
कुपिड	कोरी बसुविननेवाला	कुरंटक	पीतकरसैला पीतभिटी
कुप्य	निदित	कुरवक	लालकरसैला
कुथ	तांशाआदि	कुरर	कुररीपत्ती
कुचेर	उत्तरदिशाकेमालिकधनकेस्वामी	कुरंडक	पीतकरसैला पीतभिटी
कुचेरक	तुनिवृत्त नांदरुखी	कुरुवक	लालकरसैला
कुचेरात्ती	पांडरि	कुरुविद	
कुञ्ज	कुवरा	कुरुविस्त	टकाभरसोना [ ट गोरवश
कुमार	स्वामिकात्तिक युवराज जोराज कापुत्रहोराज्यकावन्दोनस्तकरै	कुल	एकजाति जैसेब्राह्मणकुल मृगभृंत
कुमारक	वरुणवृत्त	कुलक	कुचिला परवर उत्तमकारीगर
कुमारी	विठुवारि कन्या	कुलटा	जोखीकुलझोंडदे औरपुरुषों सेरमणकरै
कुमुद	कोंकावेलि सपेदवयाँला	कुलत्थिका	फूलधातु
कुमुदमाय	जिसतडागमेंकोंकावेलिहो	कुलपालिका	जोखीअपनेकुलकोपाल नकरै
कुमुदवांधन	चन्द्रमा	कुलश्रेष्ठित्	उत्तमकारीनगर
कुमुदिका	कायफल	कुलसंभव	कुलमेंउत्पन्न
कुमुदिनी	कोंकावेलिसमेतनलैया	कुलखी	उत्तमखी
कुमुदत	कोंकावेलिकेतडाग	कुलाय	नीड पॉसला पत्तीकावर
कुमुदती	तलैयाकोंकावेलिकी	कुलाल	कुम्हार
कुवां	यन्नादिकोंकेचारोंओरपरटा जिस सम्लेच्छादिने देगै [ घडा.	कुलाली	कालामुरमा
कुंभ	गुग्गुलवृत्त हांयोंकेओरकीऊंचाई	कुलिक	कारीगर नागभेद
कुमंकार	कुम्हार	कुलिश	यज्ञ इन्द्रकाआयुष
कुभसंभव	अगस्त्यऋषि	कुली	भटकटैया
कुंभिका	पुरयनि	कुलीन	सज्जन अन्धेबुलमंडत्पन्न
कुभिनी	पृथ्वी धरती		

कुलीर मगर मगरा  
 कुल्माप } कांजी सिरका अधभीजेयवा  
 कुल्मास } दि घुघुरी बुरेउर्द  
 कुल्मापाभिपुत कांजी सिरका  
 कुल्य हाड  
 कुल्या छोटीनदी  
 कुवर कपायरस काढेकेसमान  
 कुवल बेर मोती कोंकावेलि  
 कुवलथ कोंकावेलि  
 कुवाद निद्राकहनेवाला  
 कुविंद कोरी  
 कुवेणी मडलीवांधनेकापियारा  
 कुश कुशा जल श्रीरामके पुत्र  
 कुशल क्षेम राजीशुशी चतुर सामर्थ्य  
 कुशी फाललोहका  
 कुशीद } व्याजलेना.  
 कुपीद }  
 कुशीलव चारणकथाकहनेवाले  
 कुशेशय सौपत्ताकाकमल  
 कुष्ट कूट कोठरोग दवा  
 कुसीद व्याजलेना  
 कुसीदिक, व्याजलेनेवाला बुगाहीआदि  
 कुसुम फूल  
 कुसुमांजन फूलधातु  
 कुसुमेपु कामदेव  
 कुसुभ कुसुमरंग कुसुमकाफूल कमंडल  
 कुसृति शठता मूर्खता  
 कुस्तुंवरी } धनिया.  
 कुस्तुंरु }  
 कुहना लोभसेपरायाधनादिलेनेको  
 ध्यानमौनादिकर्ना

कुहु } अभावस कीरात्रि जिसमेंचंद्रमा  
 कुहु } नदीखे  
 कुहर छेद विल

( कू )

कूकुद जोकन्याकोसत्कारसेदे  
 कूट पर्वतकाशिखर नाजकीराशिमाया  
 आकाशादि फंसरी कपट भूठ  
 लोहकाघन हलकाआगेकाभाग  
 कूटक जहांपरफाललगायाजाय  
 कूटयंत्र मृगपक्षीवांधनेकाजाल  
 कूटशाल्मलि काली शाल्मलीवृक्ष  
 कूटस्थ जोडमेशः एकसारहै आकाशादि  
 कूणि, रोगसेदोपसहितहाथ अपरसादि  
 कूप कुवां वावली  
 कूपक चूहा नदी यातडागमें जलकेलिये  
 खोदें नावकेबीचकाखभा गड्ढा  
 कूवर जुवावैलजोतनेकारथादिकोंमे  
 कूर्च नाककेऊपरभौंहकाबीच दाड़ी  
 कूर्चशीर्ष जीवकवृक्ष  
 कूर्चिका दहीआदिद्रुधमेदारना जामन  
 कूर्दन वाललीला खेलकूद  
 कूर्पर कोंपर टिहुनी. [ का वस्त्र.  
 कूर्पासक कंचुकी चोली स्त्रियोंकेछाती  
 कूर्प कछुवा.  
 कूल नदीकाकिनारा  
 कूलंकपा नदी  
 कूप्मांडक कुम्हडा  
 ( कू )  
 कूकण करकडापत्ती  
 कूकलाश } गिरगिट गिरदान.  
 कूकलास }

कुरुवाकु मुरगा [ लेउंडी.  
 कृकाटिका घीचशिरकापिबलाभाग  
 कृकुलास गिरदान  
 कृच्छ्र दुःख कष्ट व्रतभेद  
 कृत सतयुग पूर्णता  
 कृतपुंख बाणफेकनेमेंचतुर  
 कृतमाल किरवार  
 कृतमुख चतुर ज्ञानी बुद्धिमान [आदि  
 कृतलक्षण प्रसिद्ध पण्डित धनी योगी  
 कृतसापत्निका } प्रथमस्त्रीकईस्त्रियोंमें  
 कृतसापत्निका }  
 कृतहस्त बाणफेकनेमेंप्रवीण  
 कृतांत यमराज भाग्य पाप  
 कृताभिपेका पटरानी जिसकाराजके  
 साथअभिपेकहो  
 कृतिन् चतुर पण्डित  
 कृत्त खडित टुकड़ा २ कियाहो  
 कृति हिरनकाचमड़ा चमड़ा  
 कृतिवासस् श्रीमहादेवजी  
 कृत्या क्षुद्रदेवताकरिकेदूसरेकोदुःसदे-  
 ना भेदकरना  
 कृत्रिमधूपक बहुतवस्तुसेथनीधूप  
 कृत्स्न संपूर्ण सब  
 कृपण दरिद्री निर्दयी  
 कृपा दया  
 कृपाण खड्ग तलवार  
 कृपाणी छुरी कतली  
 कृपालु दयावान् दीनवत्सल  
 कृपीटयोनि अग्नि  
 कृमि किरवा  
 कृमिकोशोत्प कौशेयवस्त्र रेशमीरूपदा

कृमिघ्न वायविडंग  
 कृमिज अमरु  
 कृश दुर्बल पतला थोड़ा .  
 कृशानु अग्नि  
 कृशानुरेतस् महादेवजी  
 कृपकं हल  
 कृपिं खेती  
 कृपिक खेतीकरनेवाला हल  
 कृशाश्विन नटवा नट  
 कृपीवल क्रिशन  
 कृष्ट जोताहुवा  
 कृष्टि पंडित बुद्धिमान  
 कृष्ण कृष्णपत्त श्रीविष्णुसृष्टिपालक  
 कालारंग मिर्च  
 कृष्णकर्म पापी दुष्टकर्मकरनेवाला  
 कृष्णपाकफल करौंदा  
 कृष्णफला बटुकी बटुची  
 कृष्णभेदा } कटुकी  
 कृष्णभेदी }  
 कृष्णला घोंघचिल रची  
 कृष्णलोहित कालालालमिला  
 कृष्णवर्त्मन् अग्नि  
 कृष्णवृत्ता पांडरि  
 कृष्णशर } भृगजाति जिमहिरनकापी  
 कृष्णसार } वज्रादिकालीहो  
 कृष्णा पीपरि  
 कृष्णायम लोहा  
 कृष्णश राई  
 कृष्ण खिचरी निलभात

( के )

केकर काना एकनेत्र कैंचा  
 केका मोरकीरोली  
 केकिन् मोर  
 केतकी खजूरभेद कंतकी  
 केतन पताका निमत्रण घर  
 केतु ग्रह पताका उपातलक्षण  
 केटर व्यवहाररस्तु  
 केदार खेत [ रदताहै  
 केनिपातक जोकाष्ठनावकापानी में  
 केयूर विजायठ बजुल्ला  
 केलि क्रीडा खेल हँसी  
 केवल निश्चय साधारण  
 केश बाल  
 केशन्न गजा चादहोना  
 केशपर्णी लटजीरा  
 केशपारी शिला चौटी भुटिया [ वृत्त  
 केशर कमलकाभीतर परुणवृत्त बकुल  
 केशरिन् सिंह श्रीदेवीकाराहन  
 केशु श्रीभगवान् उत्तममालयुत  
 केशवत् उत्तमबालनिसकेहों  
 केशेश बालोंकोउचमप्रचारसेरचना  
 केशायुनाम नेत्रबाला सुगन्धबाला  
 केगिक } उत्तममालहं  
 केगिन }  
 केगिनी गरुडानी काँटिल्लाचीवेलि  
 केगर बमन्ततामय रस्यरुत्त वरुल  
 केमग्नि गिट

( के )

केभजिन्, श्रीभगवान् केभदन्व नागर

केडर्य कायफल  
 कैतव छल ठगना पांशा  
 कैदार }  
 कैदारक } बहुतखेत चक्र  
 कैदारिक }  
 कैदार्य }  
 कैरव वॉकावेलि  
 केलास श्रीशिवजीकेमिभुनेरकास्थान  
 कैवर्त्त धीमर गोडिया  
 कैवर्तमुस्तक }  
 कैवर्तिमुस्तक } केवटिआपोथा  
 कैवर्तीमुस्तक }  
 कैवल्य मोक्षजिसमेफिरजन्मपरणनहो  
 कैगिक }  
 कैग्य } बालोंकासमूह पट्टाआदि

( को )

कोक भेइहा भेंडिया चकटा  
 कोकनट लालकमल  
 कोकनदच्छरि लाल सुखे लोहसारंग  
 कोकिल कोइली कोकिला  
 कोकिलात्त तालमपाना  
 कोटर वृत्तकीखोह  
 कोटरी नगीसी [ सरया  
 कोटि धनुषकीप्रत्यचा धारनलपारकी  
 कोटिपरी बर्षिडा थम्पटक  
 कोटिंग लोहवाटेनेमालामुद्गर धन  
 कोठी धनुष कीरम्मी रूगा तलवाग  
 कीधार  
 कोटीग न  
 कोट वटिनग्राम जहांगीरकास्थान  
 कोटवी नगीसी

कोटार किलासहितगांव  
 कोठ कुष्ठरोग [ क्रीधार  
 कोण जिससेबीणावजायाजायसङ्ग  
 कोणप राक्षस  
 कोदण्ड धनुष कमान  
 कोद्रव कोदव  
 कोप क्रोध  
 कोपना }  
 कोपनी } जिसस्त्रीकेक्रोधवनारहे  
 कोपिनी }  
 कोपिन् क्रोधी रातिदिनक्रोधकरे  
 कोमले सरल हलका मुलायम  
 कोयष्टिक टिट्टिहिरीपत्नी  
 कोरक फूलकीकली कंकोल  
 कोरंगी छोटीइलाची  
 कोरदूप कोदव  
 कोल छोटीनाव डोंगी वेर शुद्धर  
 कोलक कंकोलें मिर्चकाली  
 कोलदल नखनामझौपधि  
 कोलंबंक बीणाकासवभागतारझोंड  
 कोलवल्ली बड़ीपीपरि  
 कोला पीपरि बेरीकावृत्त  
 कोलाहल, भारीशब्द बहुतदूरसेसुनपड़े  
 कोलि } बेरी,  
 कोली }  
 कोविद परिदत्त सर्वशास्त्रज्ञ  
 कोविदार कचनारवृत्त  
 कोश } अंडा सजाना चांदीसोनाआदि  
 कोष } मियानतलवारका कश्मकरना.  
 कोशफल कंकोल  
 कोशातकी शब्द लटजीरा

कोष्ठ पेटकाभीतर नाजभरनेकोकोठादि  
 कोष्ण कुष्ठगरम.

( कौ )

कौकुटिक मायाची जोधिनदेखीसुनी  
 कौत्सेयक खड्ग तलवार [ वातक है  
 कौचदारण स्वामिकार्तिक  
 कौटिल्य बड़ई जोकिसीकेनौकरन हो  
 कौटिक मांसवेंचनेवाला  
 कौणप राक्षस  
 कौतुक } खेल आश्चर्य  
 कौतुहल }  
 कौद्रवीण कोदवकासेत  
 कौंति रेणुकाआपधि  
 कौंतिक भालेकरी भालालिये  
 कौपीन गुदालिंगधूंदनेकाकपडालगोंटी  
 कौमोदकी गदाश्रीभगवानकी  
 कौलटिनेय भीपमांगनेवालीकालइका  
 कौलटेय भिक्षुकीपुत्र द्विनारका  
 लइका.

कौलटर, परपुरुषसंपेदाहो. [दिकोंकायुद्ध.  
 कौलीन लोकनिदा कुलीनता पशुआ-  
 कौलेयक कुचा कुरुर  
 कौशिक गुगुरकावृत्त इन्द्र उन्ल गुग्वा  
 विश्वामित्र सांपकइनेवाला

कौशेय रेशमीकपडा  
 कौषिक विश्वामित्र  
 कौस्तुभ मणिभगवान के पट्टरनेकी

( क )

ककच आराकाटफाइनेका  
 ककर करीलवृत्त करकपत्ती



क्रतु यज्ञ  
 क्रतुध्वंसिन् महादेव  
 क्रतुभुज देवता ज्योत्समभागपातेहै  
 क्रथन मारडालना. [ रोना.  
 क्रंदन. वीरोंकोपरस्परसंग्राममेंडालना  
 क्रंदित. रोदनकरना  
 क्रम संख्या सीधा  
 क्रमुक लाललोध्र सुपारीकावृक्ष  
 क्रमेलक ऊंट  
 क्रयविक्रयिक खरीदवेंचकरनेवाले  
 क्रयिक बैपारीमोललेनेवाले  
 क्रय्य लेनेलायकवस्तु  
 क्रव्य मांस  
 क्रव्यात् } राक्षस  
 क्रव्याद् }  
 क्रायिक गँहकी सँदालेनेवाले  
 क्रिमि किरवा  
 क्रिया कारकसहित जैसेतलवारसेशत्रु  
 कोमारो प्रारंभ निष्कृति जैसेमहा  
 पापीको मारडालना शिष्टा पूजन  
 विचार उपाय बहुतभेद  
 क्रियावत् कर्मकाउद्योगी  
 क्रीडा खेलवालेकौका हँसी लीला  
 कुंच } कुरकुंचापत्ती  
 कुंच }  
 कुव क्रोध  
 कुष्ट रोना. [ निर्दयी.  
 कूर धीरसे बैर करनेकास्वभाव कठिन  
 क्रेतव्य } वाजारकीवस्तु मोललेनेयोग्य  
 क्रय }  
 क्रांड, शूकर हाथोंकामध्य कनिया गोदी

क्रोध गुस्सा खफा  
 क्रोधन क्रोधी  
 क्रोशयुग दोकोश  
 क्रोष्ट शिपार स्पार  
 क्रोष्टुविन्न कट्टेयो  
 क्रोष्टी काला बिल्लीकीकंद  
 कौंच कुरकुंचापत्ती  
 कौंचदारण स्वाभिकार्तिक  
 ( कृ )  
 कृम } आनंदनाश धकजाना  
 कृमय }  
 कृन्न वोटा  
 कृन्नाभ चिपरा जिसकीआंखबहाकरै  
 कृशित केशमेहां कष्टपावै  
 कृष्ट कष्टित दोषातविरोधएकमेमिली  
 व विनआंखदेखैविनकानसुनै.  
 क्लीतक जेठीमधु  
 क्लीतकिका नीलीजिससे लीलरंगवने  
 क्लीव } नपुंसक नामर्द कमजोर.  
 क्लीव }  
 क्लेश दुख कष्ट  
 क्लोम फेफड़ा मांसपिंड  
 क्लृण वीणादिकोंकाशब्द शब्दकरना  
 क्लृणन } वाजाकीआवाज.  
 क्लृण }  
 क्लथित पकाहुवा काड़ाआदि  
 ( क्ष )  
 क्षण मुहूर्त दोयबी उत्सव  
 क्षणदा रात्रि

क्षणन पारण  
क्षणप्रभा विजुली  
क्षतज रक्त लोह. [ होजाय.  
क्षतव्रत जिसकाकोईकारणसेव्रतनष्ट  
क्षत् रथवान् सारथी क्षत्रियाणीमिशुद्र  
सेपैदाहो द्वारपालक --  
क्षत्रिय क्षत्री  
क्षत्रिया  
क्षत्रियाणी } क्षत्रियवंशकीलड़कीक्षत्री  
क्षत्रियाणी } कीस्त्री )  
क्षया राति  
क्षयाकर चंद्रमा  
क्षम समर्थता कल्याण ।  
क्षमा पृथ्वी सहनशीलता  
क्षमित् } सहनशीलमनुष्य  
क्षमिन् }  
क्षत् }  
क्षय नाश वृद्धि प्रलय रोग हानि घर  
क्षव र्थीक राई  
क्षमयु खांसीरोग  
क्षान्त शांत क्षमाकोप्राप्त  
क्षान्ति सहनशीलता  
क्षार कांच राख भस्म  
क्षारक नईकलीफूलोंकी  
क्षारमृत्तिका ऊसर जहायामतकनहो  
क्षारित जिसकीलोकानद्राकै  
क्षिति पृथ्वी वसनेवास्थान  
क्षिप्त भ्रैरणा आज्ञादेना बालभेद  
क्षिप्त भ्रैरणाक्षिया जैसेवाणफेंके  
क्षिप्तु नकरनेवाला  
क्षिप्त शीघ्र अनिश्च

क्षिया हानि  
क्षिप्यु निगकरण नकरना  
क्षीवन् मतवाला  
क्षीर जल दूध  
क्षीरविकृति कूर्चिका दहीआदिसेदूध  
काविकार जामनदेफाटना  
क्षीरविदारि } शुक्रविदारीऔपथि सपेद  
क्षीरशुक्रा } भूमिकारुम्हडा  
क्षीरसागरकन्यका लक्ष्मी  
क्षीरावी दूधिवेलि  
क्षीरिका सिन्धी  
क्षीरोद समुद्रकाभेद दूधकोसागर[भयभी  
क्षीरोदतनया लक्ष्मी क्षीरसमुद्रसेप्रकट  
क्षीव मस्त मतवाला  
क्षुत् } र्थीक  
क्षुत् }  
क्षुताभिजनन राई  
क्षुद्र अतिलोभसेपुत्रादिवां दुखदे अति  
शय दरिद्री कृपण निवृष्ट अधम नीच  
क्षुद्रघंटिका घुंघुफ  
क्षुद्रशंख द्रोदेशव  
क्षुद्रा बटैया हीनअंगकीनारी नदी बेरया  
क्षुद्रांडमत्स्यमंघात, द्रोदेशमहरीनादिर  
क्षुभ भूव  
क्षुभाभिजनन राई  
क्षुभित भूंगा  
क्षुभ छांटीटांगुधकी टेंगरा  
क्षुभा अरमी  
क्षुभ सुंभ सुग पशुबोर्क तालमपाना  
क्षुगनाज्जाहायियार

चुरक तिलकवृक्ष ।  
 क्षुरप्र वाणभेद ।  
 चुरि } नापित नाई नाऊ  
 चुरिन् }  
 क्षुल्लक नीच थोड़ा छोटा दरिद्री  
 क्षेत्र खेत शरीर मिद्धस्थान स्त्री  
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष ईश्वर चतुर  
 क्षेत्राजीव किशान खेतिहर  
 क्षेपण भेराणा भेजना फेंकना  
 क्षेपण } नौकादंड बल्ली  
 क्षेपणी }  
 क्षेपिष्ठ अतिजल्दी शीघ्रता  
 क्षेम कुशल धनहरी आपधि  
 क्षोणि } पृथ्वी  
 क्षोणी }  
 क्षोद चूर्ण  
 क्षोदिष्ट अतिचूर्ण  
 क्षोम महलकीअठारी  
 क्षौद्र सहत  
 क्षौम अष्टा पटवरवस्त्र  
 क्षौर मुडाना बालबलवाना [ कूआदि  
 क्षणुत शानसेपैनकरना तेजकरनाचा  
 क्षमा पृथ्वी  
 क्षमाभुज राजा  
 क्षमाभृत् पहाड राजा  
 क्ष्वेड विप [ कीकील  
 क्ष्वेडा सिहनाद पिजरा व शुक्रेवास  
 क्ष्वेडित धीरोंकासिहनाद  
 ( ख )  
 ख आकाश निधि शखे इन्द्रियस्वर्ग

खक्खट कठिन कठोर  
 खग पत्नी वाण सूर्य  
 खगेश्वर गरुड भगवानकावाहन  
 खजाका कलछल कलझी  
 खज लँगडा एकटागका  
 खजन } खडरैचा  
 खंजरीट }  
 खट अधाकुवा  
 खटवा पलग चारपाई खटिया  
 खडग गैडा तलवार  
 खडिग्न गैडा  
 खंड टुकडा भाग केमलादिकोंकासमूह  
 खण्डपरशु महादेव  
 खण्डविकार शर्करा शकर  
 खदिर कत्या खैर  
 खदिरा लजारू  
 खद्योत जुगनु सूर्य  
 खनक मूस खता  
 खनि खानि जहासेरत्नादिनिकल  
 खनित्र खता बेलचा  
 खपुर सुपारीवृत्त  
 खर गदहा अतिगर्म  
 खरणस् } पशुकेखुरसीनाक  
 खरणस }  
 खरपुव्या चर्वई  
 खरमजरी लटजीरा  
 खरा } देवताली देवडगरी  
 खरागरी }  
 खराश्वा मोरशिखा  
 खर्जुर चाटी रूपा

खजू	खाजु रोग
खजूर	चांदी खजूरवृक्ष
खजूरी	खजुरिया
खर्च	घटना छोटीदेहका छोटा
खल	भेदिहा जोपरस्परवैरकरावै
खलपू	बहारनेवाला साफकरनेवाला
खलिनी	दुष्टोंकासमूह खलमंडली
खलीन	लगाम
खलु	निश्चय बाणीकीशोभा
खलेदाह	मेह चरही पशुओंकेखानेकी
खल्या	दुष्टोंकासमूह खलमण्डली
खात	छोटेताल जोखोदेजाय
खादित	भोजनकिया
खार	खाराभर मनभर तौलकामपाए
खारि	
खारी	
खारीक	खारीभरवोनेकाखेत
खारीवाप	
खिल	विनाजोताखेत वनजरआदि
खुर	नखनामगंधद्रव्योंपधि शुक्ति
खुरणस	जिसकीबिकटनाकहो
खुरणस	
खुरम	बाणभेद
खुल्लक	नीच अधम पापी
खेट	
खेटक	गांव ढाल
खेय	परिखा खांवा खाई
खेला	वालकोंकीक्रीडा
खोड	लंगडा जिसकीचालनवने
खोर	
खाल	

ख्यात प्रसिद्ध नामी [ न ले  
ख्यातगईया निंदित जिसकानामकोई  
ख्याति प्रसिद्धता

(ग)

गगन	आकाश
गंगा	शिवकेजटाजूटसेनिकलगंगासागरमेमिली अतिपवित्र ब्रह्मस्वरूप अनन्तफलदा [ रणकिया
गंगाधर	महादेव जोगंगाको शिरमेंधा
गज	हाथी
गजता	हाथियोंकाभुंड
गजबंधनी	हाथीबंधनेकास्थान
गजभक्षा	सालई शालय
गजभक्ष्या	
गजानन	श्रीगणेशजी
गजारि	महादेव जोहाथीमारखालका बलवनाया [ सागर
गंजा	मदिरास्थान लवणसमुद्र खारी
गडक	एकमछरीकीजाति
गडु	गलगंडरोग गंडमाला कुचरा
गडुर	कुचरा
गडुल	
गण	समूह धनदरीओंपधि सेनाभेद
गणक	ज्योतिपीपण्डित
गणदेवता	देवतोंकेसमूह
गणनीय	गनतीकरनेलायक
गणरात्र	बहुतीरात्री
गणरूप	पदार
गणहासक	धनदरीओंपधि
गणाधिप	श्रीगणेश

गणिका	जूही बैरया	गधवह	} वायु हवा.
गणिकारिका	नरवेल	गधवाह	
गणित	गिन्तीकिया	गधवदा	नाक
गण्य	गिन्तीकरनेयोग्य	गधसार	चदन
गंड	कपोल गाल हाथीकाकपोल	गधारमन्	} जेधक.
गडक	मञ्जरीभेद गडा	गधिक	
गडकारी	} लजारू लाजर्वती.	गधिनी	शालय सालई
गडकाली			गधोत्तमा
गडशैल	मोटपत्थर	गधोली	चरैया
गडाली	मोथा	गधस्ति	सूर्यकीकिरण
गंडीर	कडुवासूरन	गभीर	गहिरा
गंडूपद	किंचुवा	गम	} यात्रा चलना
गंडूपदी	छोटा किंचुवा	गमन	
गंडूपा	कुल्ला हाथीकीशूड अगुल-	गभारी	खंभारि
गतनासिक	नकटा	गभीर	गहिरा
गद	रोग बीमारी एककोई कृष्णकेभाई	गम्य	प्राप्तहोनेयोग्य यात्रायोग्य
गद्य	कवियोंकीवाणीसंस्कृतकी	गरण	गिरना
गवी	गाड़ी	गरल	विष शखियाआदि
गध	सुगंध	गरा	} देवताली.
गधकुटी	तालीस	गरागरी	
गंधन	उत्साह हिसा आशयमकाश	गरी	
गंधनाकुली	रसस्नि.	गरिष्ठ	बहुतगरू पूज्य बडा
गंधफली	कृष्णविधारा चंपाकीकली	गरुड	भगवानकावाहन
गणमादन	एकधर्वतकानाम	गरुडभवज	श्रीनिष्णुभगवान
गंगुस्त्री	झड़दरि	गरुडाग्रज	अरुण सूर्यकासारथी
गधमूला	} कचूर	गरुत्	पंख पत्तना
गधमूली			गरुत्पत्
गधरस	गधरसुंयिमियाई	गर्गीरी	दहीमयनेकापात्र मेहडवा
गधर्व	देवताजातिहाहाहूहूआदि हिरना	गर्जित	मेघोंकाशब्द हाथीकाबहुतामद
	जाति थोडा मानेवाले	गर्त	} गडडा गडदा
गधर्वहस्तक	अडाकापेंड	गर्ता	

गर्दभ गदहा  
 गर्दभांड गेंठी लांखीपिमरी  
 गर्द्वन बांझाकरनेवाला  
 गर्भ - गर्भ बालक कोखि  
 गर्भक वालोमेधारणकीमाला  
 गर्भागार घरकामध्यमांभघर  
 गर्भाशय जिसचमंडासेगर्भलपेटारहताहै  
 गर्भिणी गाभिनि लड़काहोनेवाली  
 गर्भोपघातिनी बैलकेसाथसेजोगौगर्भ  
 डारदे स्त्रीआदि  
 गर्भुत् तृणधान्य  
 गर्व अहंकार  
 गर्वित अहंकारी अभिमानी  
 गर्हण निंदा गाली  
 गर्ह निंदित निंदाकेयोग्य  
 गर्हवादिन् निंदाकहनेवाला  
 गल गर  
 गलकंबल गौकेगलेकीलंबीखाल  
 गलंतिका चावरधानेकीचलनी  
 गलित गिरपरना गलजाना  
 गलोदेश गलेकीनर्श  
 गल्या बड़ेकाशोंकासमूह  
 गवय हिरनजाति  
 गवल भैंसाकासींग  
 गवाक्ष भूरोपा महलकारोशनदान  
 गवाक्षी गोडंवा लौकीभेद  
 गवाश्वर गौवाकेनापालिक गोपाल  
 गवेहु  
 गवेधु } मुनियोंकाअन्न गोहुवा  
 गवेधुका }  
 गवेपण दूंडना पतालगाना

गवेपणा धर्मादिकोजानना  
 गवेपित दूंडाहुवा खोजकिया  
 गव्य गौकादूधदहीघृतमठा  
 गव्या गौओंकासमूह  
 गव्यूति दोकोश  
 गहन वन जहांदुखसेजाय  
 गहर पुरानाखातविलनकिसीकावना  
 या कंदरा दुर्गमवन  
 गहरी पृथ्वी धरती  
 गांगेय सुवर्ण कशेरू भीष्मजी  
 गांगेरुकी बला विशेष ककई  
 गाड़ अतिशय शीघ्रता  
 गाणिक्य बेरयोंकासमूह  
 गांडिव } अर्जुनकाधनुष  
 गांडीव }  
 गात्र देह हाथीकाआगेकाभाग  
 गात्रानुलेपनी उबटनकीपती  
 गान गीत गाना  
 गाथेय विश्वामित गाधिनंदन  
 गांधार स्वरभेद [ कीस्त्री  
 गायत्री स्वर गायत्रीआदिछंद ब्रह्मा  
 गारुत्मत कालीमणि  
 गांभिण गांभिणीकासमूह  
 गार्हपत्य होमकीअग्नि  
 गालव पटानीलोथ  
 गिर }  
 गिरा } वाणी  
 गिरि पर्वत मिलना निगलजाना  
 गिरिकर्णी विष्णुकांता  
 गिरिका छांटीमुत्तरिया,  
 गिरिज शिलाजीत

गिरिजा पार्वती  
 गिरिजामल अबरख  
 गिरिमल्लिका कुरैआ औषधिविशेष  
 गिरिश } महादेवजी  
 गिरीश }  
 मिलित खाचुके भोजनक्रिया  
 गीत गाना  
 गीर्ण स्तुतिकरना नमस्कारादि  
 गीर्ण निगरण निगलना  
 गीर्वाण देवता  
 गीष्पति बृहस्पति  
 गुग्गुल गुगुरवृत्त. [ गजरा.  
 गुच्छ हारभेद फूलोंकेगुच्छा माला  
 गुच्छक जिसडारमेंबहुतकलीहों  
 गुच्छार्द्ध चौबिसलरकीमाला  
 गुजा घुघचिल रची  
 गुड गुड - मट्टीकागोला  
 गुडपुप्य महुवा  
 गुडफूल पीलुवृत्त अक्रोड  
 गुडा } सेंहुड  
 गुडी }  
 गुडुची } गुर्न  
 गुडुची }  
 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण छा  
 गुण सधिविग्रहगानआसनद्वैत्रआ  
 श्रय घनुपकाहोरा भोजनपरानेवा  
 ला जोरी द्रव्य रस गन्ध ऐश्वर्य  
 चतुराई इन्द्रियविषय पराक्रम स  
 ध्याआदि  
 गुणवृत्तक नावनेमपकासभ  
 गुणित गुणना जैसेदुःकोपाचसेगुणा  
 तौदशुद्ध्ये

गुठित जिसमेंधूलिलगिजाय  
 गुत्स वत्तिसलरकीमाला  
 गुत्सार्द्ध चौबिसलरकीमाला  
 गुद भाडेहोनेकीइन्द्रिय गुदा गाडि  
 गुद्र नागरमोथा  
 गुद्रा कालाविधारा नागरमोथा  
 गुप्तवाद मंत्र जोछिपाकरकहाजाय  
 गुप्ति पृथ्वीकाविवर भांडाआदिखोद  
 ना रक्षाकरना  
 गुफित } गुहना जैसे १०० रुद्रात्तगुहने  
 गुफित } सेमाला  
 गुण उद्यम जैसेगेहूलेनेकाउद्यमहै  
 गुरु बृहस्पति गर्भाधानादिकर्मकरने  
 वाला  
 गुर्विणी गर्भिणी  
 गुल्फ गुंठवा पांवकेऊपरकीगाडि  
 गुल्म,जिसवृत्तमेंगांठिनहो पिलही मांस  
 कीगांठि सेनाभेद कुशादिगुच्छ  
 गुल्मिनी फैलीबेलि  
 गुवाक सुपारीवृत्त  
 गुह स्वामिकार्तिक  
 गुहा बदरापर्वतोंका पिठबनि  
 गुह्य गुप्तवात गुदा  
 गुयक्त देवताजाति  
 गुबकेश्वर कुंभर  
 गूढ छिपाहुवा  
 गूढपाठ सर्प [ कलाकामकरे  
 गूढयुरुष दूत भेदिदा जोछिपाकरमालि  
 गुथ निष्ठा मैला  
 गुन भाडेहोचुका

गुरण उद्यम  
 गुवाक सुपारीवृत्त  
 गृजन लहशुन  
 गृन वाद्याकरनेवाला  
 गृध्र गीध  
 गृध्रसी वातरोगभेद  
 गृष्टि चारहीकद शूकर  
 गृध्र घर स्त्री  
 गृहगोधिका } मुसरिया चुहिया  
 गृहगोलिका }  
 गृहपति घरकामालिक जोअनादिदा  
 नंदमेशकरै  
 गृहयालु जोसवसेगृहणकरलेप  
 गृहस्थण घरकाखंभ  
 गृहागत अभ्यागत जोअपनेयहाआवे  
 गृहराम घरकेसमीपशोभाकेलियेवना  
 वाग  
 गृहावग्रहणी देहली देहरी  
 गृहिन गृहस्थाश्रमी गिरिस्त  
 गृहक जोपत्नीपिजरामैराखैजायैतोता  
 आदि आधीनमान नौकर  
 गेंदुक }  
 गेंदुक } गेंदवालकोंकेसेलनेका  
 गेंदुक }  
 गेंदुक }  
 गेह घर मकान  
 गैरिक गेरू सोना  
 गैरेय शिलाजीत  
 गो बैलगौं स्वर्ग किरण वज्र चंद्रमा  
 दिशा वाणी पृथ्वीजल दृष्टि  
 वाण रोम

गोकटक गुखरू  
 गोकर्ण जिसहिरनकेगौंकेसमानकानहीं  
 अंगुठाअनामिकायुतगोकर्ण  
 गोकर्णी मुरहरी साप  
 गोकुल गौवोंकासमूह  
 गोलुरक गुखरू  
 गोचर प्रकट  
 गोजिहा गोभी  
 गोटुवा औपधिनिशेष  
 गोंड नाभि नीचजाति  
 गोत्र परंत कुल नाम  
 गोत्रभिद् इंद्र  
 गोत्रा पृथ्वी गौवोंकाभुंड  
 गोद मस्तककीचरवी  
 गोदारण हल  
 गोदुह } गोपाल अहीर ग्वाल  
 गोदोह }  
 गोधन गौवोंकासमूह  
 गोधा तल धनुषके पकडनेकोहाथमें  
 चमड़ाआदिवांधना  
 गोधापदी हसपदी लाललजारू  
 गोधि माथा  
 गोधिका पानीकीगोह  
 गोधिकात्मज स्थलीगीह  
 गोधूम गोहू  
 गोन्दे केवट्टिआमोथा  
 गोनस जिससर्पङ्गीगौंकेसमाननावहो  
 गोप, बहुतगौवामालिक अहीर ग्वाल  
 गोपति स्वेच्छाचारीबैल अह  
 गोपरस गधरम



गोपानसी	मकानकाऊपर महल अटरा	गोस्तना } दाप.
गोपायित	रक्षाकिया	गोस्तनी } दाप.
गोपाल	अहीर ग्वालिया	गोस्थानक
गोपी	सारिवाऔषधि. [ सबद्वार.	गौकास्थान. [ कानाम.
गोपुर	नगरकाद्वार केवटिआमोथा	गौतम
गोप्यक	दास नौकर चाकर	शाक्यमुनि बुद्धभेद, एकअपि
गोमत्	गौवोंकामालिक	गौधार } गोह.
गोमय	गांवर	गौधेय } गोह.
गोमायु	सियार	गौधेर } गोह.
गोमिन्	गौवोंकास्वामी	गौर
गोरस	दंडसेमथागोरस मडाआदि -	सपेदरंग पीतरंग लालरंग
गोर्द	माथेकीचरबी	गौरव
गोल	गोलपिंड. [ यारसेहो	उठिकैआदरकरनाशुआदिका
गोलक	विधवाकापुत्र पतिमरनेवाद	गौरिला
गोला	नैपालीमैनसिल	पृथ्वी धरती
गोलीढ	धंटा पाटलिबृत्त मोरवाबृत्त	गौरी
गोलोमी	बचा सपेददूब जटामासी	पार्वती जिसकेरजस्वलानहुवाहो
गोवदत्री	कालाविधारा	गौरोचना
गोविद्	गोवर. [ गोपाल बृहस्पति.	स्त्रीजिसकेभ्रादिन हु
गोविद,	भगवान् जिन्होंनेनंदकीगौचराई	वाहो जिसस्त्रीकेदोनोबंशशुद्धहो
गोशाल	गोशाला	गौष्टीन
गोशीर्ष	हरिचंदन	प्रथमगौकास्थानजहांपररहाहो
गोष्ठ	गौवोंकास्थान	ग्रथित
गोष्ठपति	गोप अहीर	गुहनामालादिका
गोष्ठी	सभा	ग्रंथ
गोष्ठीन	जहांप्रथमगौधेरहचुकी	पुस्तक शास्त्र धन
गोप्पद	गौकेखुरकेसमान	ग्रंथि
गौसर्ग	शतःकाल भोर	बांसादिकीगांठि
गोसंख्य	ग्वालिया अहीर	ग्रंथिक
गोसान	चारलरकीमाला गौकेधन	पिपराभूद
		ग्रंथित
		गुहनामालादिका
		ग्रंथिपर्ण
		कुकरौधा
		ग्रंथिल
		मुवाबृत्त विकंकत. [ किया
		ग्रस्त
		ग्रहणकिया अत्तरलुसहो भोजन
		ग्रह
		ग्रहणपडना सूर्यादिग्रह
		ग्रहणीरुज
		संग्रहणीरोग
		ग्रहपति
		सूर्य
		ग्रहिणी
		रोग
		ग्रहीट
		सबग्रहणकरले
		ग्राम
		गांव स्वरग्राम शंद्रग्राम
		ग्रामली
		नाऊ श्रेष्ठ गांवकास्वामी
		ग्रामतत्त
		गांवकानडई
		ग्रामता
		बहुतसेगाव

ग्रामाधीन गांवभरकाकारीगर  
 ग्रामांत गांववाहर  
 ग्रामीणा नील लील  
 ग्राम्य शिथिलवाणी गंवारूवात  
 ग्राम्यधर्म मैथुन स्त्रीपुरुषकासंयोग  
 ग्राचन् पर्वत पत्थर  
 ग्रास कवल गिरास  
 ग्राह मगरा ग्रहण  
 ग्राहिन कैथावृत्त  
 ग्रीवा गल  
 ग्रीष्म गरमीऋतु  
 ग्रैवेयक गलेकागहनाकंटादि  
 ग्लस्त भोजन  
 ग्लह जुवांजीतनेकादांव  
 ग्लान } दुखीरोगसे  
 ग्लाष्णु }  
 ग्लौ चंद्रमा

( घ )

घट घडा कलश  
 घटना } हाथियोंकीसप्रापकीतैयारी  
 घटा }  
 घटीयंत्र रहट जिमयंत्रनेपानीऊंचेपर  
 जाय  
 घट्ट घाट  
 घटा } मोरवाऔपधि बाजा  
 घटापाटलि }  
 घटापथ राजाओंकीराह  
 घंटावरवा शनपुष्पी [जाकोपोधकरै  
 घटिकार्थक वदीजन जेघंटावजाकररा  
 घन मेघ घटाभांभआदि मयनाच  
 मुद्गर आतिसघन कठिनता मूर्ति

गुण

घनरस जल  
 घनसार कपूर  
 घनाघन बहुतघन  
 घर्म पसीना गर्मा  
 घस्मर भोजनकरनेवाला  
 घस्र दिन  
 घाटा गलेकेपीछेकीनसै  
 घांटिक वदीजन  
 घात बध मारडालना  
 घातुक मारनेवाला परद्रोही बैरी  
 घास तृण  
 घुटिका घुंमुवा पैरकेऊपरकीगांठि  
 घुण काठकाकिरवा  
 घूक घुघुवा उज्ज्व  
 घूर्णित जिसेबहुतनाटिहो आंघाई  
 घृणा दया करुणा निंदा  
 घृणि सूर्यकीकिरण  
 घृत घी अमृत  
 घृष्टि वारहीकन्द शूकर  
 घाटक घोडा  
 घोणा नाक  
 घोणित् शूकर  
 घांटा घेर सुपारीवृत्त  
 गोर भयानक  
 घोप गोपालोंकेर अटीगोंकेग्राम  
 घोपक रुई नागनला. [राना  
 घोपणा बहुतजोरसेशब्दकग्ना गोंड  
 प्राण नाक सुगन्धलेना  
 प्राणनर्पण सुन्दरसुगन्ध

घात सुगन्धलिपा

( च )

च पादपूरणमें दोक्रियाफेशब्द

चकोरक, चकोर. [चकहा पैहा सेना राज्य

चक्र सुदर्शनचक्रादि भँवरपानीकी

चक्रकारक व्याघ्रनख औपधि

चक्रपाणि भगवान जिनकेहाथमेंचक्रहै

चक्रपर्दक चकौड़. [युतसवारी.

चक्रयान पुष्परथ राजाओंकीआनन्द

चक्रला मोथा

चक्रवर्तिन् सब पृथ्वीकाराजा

चक्रवर्तिनी चक्रवतऔपधि

चक्रवाक चकहा

चक्रवाड पृथ्वीकेआसपासकापर्वत

चक्रवाल मेघोंकामंडल पृथ्वीकेचारों

ओरकापर्वत

चक्रांग चकहापत्नी

चक्रांगी कुटकी

चक्रिक बंदिजन

चक्रिन् सर्प

चक्रावत् गडहा

चक्षुःश्रवस् सर्प सांप

चक्षुष् नेत्र आंख

चक्षुष्या कालासुरमा

चंचल चपल चालांक

चचला विजुली

चचु अष्टडाहावृत्त पत्नीकीवांच

चटक गरगवारत्नी

चटका गरगैया

चटकाशिरस् } पिपगापुड़

चटिकाशिरस् }

चटु प्रेमसेपरस्परभूठवातकहना -

चटुल चलायमान चलताँफिर

चणक चना लहिला

चण्ड बडाक्रोधी

चण्डा धनहरीऔपधि मुसापर्णी

चण्डांशु सूर्य

चण्डात कनैर कडैल

चण्डातक लहंगाविवाहकीपेरीपचिया

चंडाल ब्राह्मणीमेंशुद्धसेहो चांडाल

चंडालचलकी } चण्डालोंकीवीणा चि-

चंडालिका } कारा बांसुरीआदि

चण्डिका श्रीपार्वती

चतुःशाल चौकघरकी जिसकेचारों

ओरशालावनीहों

चतुर होशियार

चतुरंगल धन बहेडावृत्त

चतुरानन ब्रह्मा जिनकेचारमुख है

चतुर्भद्र धर्म अर्थ काम मोक्षसमेत

चतुर्भुज विष्णु जिनकेचारबाहहैं

चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष

चतुष्पथ चौरहा चौक

चतुर्हायणी चारवरसकीगौ

चत्वर आंगन यज्ञकेलियेसस्कारक

यापृथ्वीकाभाग

चन कुड्ड

चन्दन हरिचन्दन सपेटचन्दन

चन्द्र चन्द्रमा कपिलाऔपधि वपुः

सोना जल

चन्द्रक मोरपुच्छ जोनेत्राकारहोताहै

चन्द्रभागा } नदीकानाम

चन्द्रभागी }

चन्द्रमस् चन्द्रमा  
 चन्द्रवाला इलाचीरही  
 चन्द्रशाला घरकाशिरा [ चंद्रमा है  
 चंद्रशेखर श्रीमहादेव जिनकेमाथे में  
 चन्द्रसंज्ञ कपूर  
 चन्द्रहास लड़ शिवकाखड्ग जोराव  
 एकोशिवनेदियाथे  
 चन्द्रिका चांदनी उजेरिया  
 चपल चालाक जो अपनेआगेदूसरेको  
 नसमझै शीघ्रता पारा जोविना  
 विचारकाई कामकरै  
 चपला विजुली पीपरि  
 चपेट चटकना थप्पड़ लपोटा  
 चमर हिरन जिसकीपूँछचमरकेकाम  
 आवै चवर रोमोंकागुच्छा  
 चमरिक कचनारबृत्त  
 चमस पात्रभेदयज्ञादिकोंको  
 चामसी प्रणीता यज्ञकापात्र  
 चम् सेनाभेद सेना  
 चमूरु हिरनजाति  
 चपक चपाबृत्त. [ भुड  
 चप परिखाकीमाटी खाईकीमेड समूह  
 चर भेद्रीहा दूत जो छिपकरकामकरै  
 चलना  
 चरक वैद्यककाशास्त्र  
 चरण पैर पाव  
 चरणायुध मुर्गा  
 चरम अन्त नाश  
 चरमश्माभृत् अन्तपरंत जहासूर्यअस्तहो  
 चराचर चलना स्थावरजगमजीन

चरिप्यु चलनेवाला  
 चरु हवनकाचरु भातकियापात्र  
 चर्चरी ताली गान  
 चर्चा प्रमाणोंसेपरीक्षाकरना देखमें  
 चन्द्रनादिलगाना  
 चर्चिका चामुडादेवी  
 चर्मन् हिरनायादिकीचाम ढाल  
 चर्मकपा धूहर धोहर  
 चर्मकार चमार मोची  
 चर्मभेदिका चमडासीनेकीरापी  
 चर्मप्रसेविका } भाथी धौकनी जिससेआ  
 चर्मप्रसेवक } गितेजकीजाय  
 चर्मभुण्डा चामुण्डा देवी  
 चर्मिन् भोजन ढाललिपेपुरष  
 चर्या उपासनागुरुआदिकी  
 चर्चित भोजनकिया चराया  
 चल चलना  
 चलदल पीपरबृत्त जिसकाशनिबार  
 कापूजनहोताहै  
 चलाचल चलना  
 चलित कुल्कापना सेनाकाचलना  
 चविका }  
 चविका } चारऔपधि  
 चव्य }  
 चव्या }  
 चपाल यक्षरभकेऊपरकाठ  
 चपक मदिराकावर्तन पियाला  
 चात्रिक यदीजन  
 चागेरी अम्लोनिया  
 चाटनेर गरगवाकापत्रा  
 चाटु परस्परभूठीगत

चांडाल } अबम अतिनीच चांडालजा  
 चांडाल } ति ब्राह्मणीमिश्रमेहो ।  
 चांडालिका नीचाकावाजा ।  
 चातक पपीहा ।  
 चातुर्वर्त्य ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र ।  
 चांद्रभागा } एक नदीकानाम्  
 चांद्रभागी }  
 चाप धनुष कमान ।  
 चामर } बालव्यजनारोमोंकागुच्छा ।  
 चामरा } चवर ।  
 चामीकर सुवर्ण सोना ।  
 चामुडा देवी ।  
 चापेय चंपा नागकेशर ।  
 चार - द्विपाहुवाद्दत्त, वधन ।  
 चारटी - स्थलकाकमल ।  
 चारण नट, कथक ।  
 चारु मनोहर सुन्दर ।  
 चार्वाक, जैनिमतीशरात्री ।  
 चार्चक्य देहमेचदनादिलेपकरना [का  
 चालनी, चलनी चालनाधान्याटिकों  
 चाप } लीलागणासपत्नी  
 चास }  
 चिकित्सक वैद्य द्वादेरोगीको  
 चिकित्सा रोगकाप्रतीकार जिनदवाआ  
 दिइयायोसेरोगनाशहो  
 चिह्न बाल आरजोविनाविचारेकित्ती  
 कोमारटाल रंडडेउसका नाम  
 चिह्न बाल  
 चित्र चित्रना  
 चित्रस पात्रभेट  
 चित्रा अमिली

चित् सुधि ज्ञान कृद्  
 चिता } मुर्दाकोजलानेकेलियेलकडीआ  
 चिति } दिइकट्टाकरआगिलगाना  
 चित्त मन [ रगरहे  
 चित्तविभ्रम उन्माद जिसकाचित्तस्थि  
 चित्तसमुन्नति मान औरसेअपत्ताको  
 चित्त अतिकविचारना  
 चित्तोद्रेक गर्व अभिमान  
 चित्तभोग मनकासुख  
 चित्या चिता [ वीर  
 चित्र चुनरीआदिकारंग आश्चर्य तसी  
 चित्रक अण्डकोपेठचित्त माथेकाति-  
 लक  
 चित्रकर चितेर रगरज  
 चित्रकृत् तिनिसबृत्त  
 चित्रकाय सिंह  
 चित्रतंडुला विडग  
 चित्रपर्णी पिठवाने  
 चित्रभानु सूर्य अग्नि  
 चित्रशिखंडिज } बृहस्पति चित्रशिखंडी  
 चित्रशिखंडिन् } अगिरातिनकेपुन  
 चित्रा मूसापर्णी गोंडुवा  
 चिंता स्मरण मनकाविचार  
 चिपिटक भूनेधानकेचाउर भूनेयत्र  
 चिपुक ओठकेनचिंदाढीकेऊपर  
 चिरक्रिय थोड़ीडेरकेकाममेरुतटेरल  
 गाँउसआलसीवानाम  
 चिरजीविन् बहुतकालजिपे  
 चिरटी, विवादिनाहीकुद्धयो मनकोप्राप्तहो  
 चिरंतन प्राचीन पुराना [ करनि  
 चिरममता धरतदिनकीवियानिर्गा व-

चिरबिन्द करजवृत्त  
 चिररात्राय }  
 चिरस्य } बहुतदिन बहुतरान बहुत  
 चिराय }  
 चिरिठी विवाहकेवादकुछयुवास्त्री  
 चिरिविन्द करजवृत्त  
 चिलिचिम }  
 चिलिचिमि } जलथलचलनेवालीमद्धरी  
 चिल्ल चीन्ह चिपड़ा जिसकेआखसे  
 पानीवहै  
 चिल्लका भाँगुर  
 चिह्न लक्षण मसा तिलआदि  
 चीन हिरणजाति  
 चीर वस्त्र  
 चीरी }  
 चीलिका } भाँगुर  
 चीवर ऋपिनकावस्त्र  
 चुक अमिलवेत चूक राग  
 चुक्रिका अम्लोनिषा  
 चुल्ल चिपड़ा जिसकेआखसेपानीवहै  
 चुल्लि } चुल्ह जिसमेंभोजनपटार्थरनाये  
 चुली } जातहै  
 चुचुक स्त्रीकीझातीकीनोक  
 चुड़ा मोरकीचोटी चोटी जिसका भोटहै  
 चुडामणि शिरमेंधारणकरनेकीमणि  
 चुडाला मोयाविशेष  
 चुत आमकावृत्त  
 चुर्ण सुगंधिकीवस्तुकाचूर्ण पीसीवस्तु  
 चूर्णकुतल टेढेवान  
 चुर्णि चूर्णिका चुनी  
 चुलिवा कानमेंनीचिकास्थान

चूप्या जौरीकिपरवांधनेकी  
 चेटक }  
 चेडक } दास नौकर  
 चेत पक्षांतर दूसरीबात  
 चेतकी हर  
 चेतन प्राणी जीव  
 चेतना बुद्धि  
 चेतस् चित्त मन  
 चेल वस्त्र कपड़ा अधम नीच  
 चैत्य यज्ञकाघर  
 चैत्र चैतकामहीना  
 चैत्ररथ कुबेरकावाग  
 चैत्रिक चैत्र  
 चैल, वस्त्र कपड़ा अधम नीच [तालफल  
 चोच दालचीनी अथखायाफल  
 चोदिनी यवासा जरासा  
 चोत्र आज्ञा [ बीबेलि  
 चोरपुष्पी शखौलीबीबेलि कौडिझा  
 चोरिका चोरी [ अंगिया  
 चोल चोलिया स्त्रियोंकीझातीकावस्त्र  
 चौर चोर  
 चौरिका } चोरी  
 चौर्य }  
 च्युत गलिजाना गिरपटना बटना  
 ( छ )  
 छगलक बाँकग  
 छगला  
 छगलाघी / विधाराप्रौषधि  
 छगलादी /  
 छगलानी  
 छत्र राजावाँकाछत्र दाता

छत्रा सौंफ तृण धनिया  
 छत्राकी सर्पाची  
 छट पता पखना पर पंख  
 छदन पता  
 छदिस् छादन शांकर  
 छन्न कपट शठता  
 छंद अभिप्राय आशय आधीन  
 छंदस्, गायत्री आदि छंद आशय आधीन  
 छन्न छिपी जगह एकांत ओढाना मू-  
 दना छिपाना  
 छल कपट  
 छवि शोभा मभा  
 छाग बोकरा  
 छागी बोकरी  
 छात निर्वल द्वार खंडित  
 छात शिष्य चेना जोगुरुके दोषनकहे  
 छादित छिपाना  
 छादिस वेदपाठी वेदपढनेवाला  
 छाया सूर्यकी भिया परछाहीं  
 छायानाथ सूर्य छायाकेपति  
 छित खंडित  
 छिद्र छेद फूटा  
 छिद्रित छेदगये छेदकिया  
 छिन्न कटा खंडित  
 छिन्नरुहा गुर्घ. [ आती है.  
 छळुंदरी छळुंदरि जिसकी देहसे दुर्गंध  
 छुरिका छुरी श्ली  
 छेक पिंजराकेपची  
 छेदन कतना काटना

( ज )

जगत् पृथ्वीतल संसार चर जगम  
 जगच्चतुष् सूर्य संसारकेनेत्र  
 जगती मनुष्यलोकपृथ्वी  
 जगत्प्राण वायु हवा  
 जगर कवच बखतर  
 जगल धतूरवृक्ष  
 जग्ध भोजनकिया स्वाया  
 जग्धि भोजन  
 जघन स्त्रीकी कपरका आगेका अंग  
 जघनेफला कट्टेबारे वृक्ष  
 जघन्य अन्त्य छोटा नचि  
 जघन्यज छोटा भाई शुद्र  
 जंगम जो जीव चलते हैं. [ चादि  
 जंगमेतर स्यावर जो चलनहीसके वृ  
 जंघा जांघ पोंडरी [ हांकिया  
 जंघाकौरिक जंघाजीव धावन कासिद  
 जंघाल } बहुत जन्म चलनेवाला  
 जंघिल }  
 जटा वृक्षकी जेब ब्रह्मचारी आदिकी  
 शिखा बहुत बाल एकमें मिले हों ज  
 टामासी  
 जटाजूट शिवजीके जटा ऋषियोंके जटा  
 जटामासी जटामासी  
 जटि } पकरियाका वृक्ष  
 जटिन }  
 जटिला जटामासी  
 जडुल } लहशुनका चिन्हकाला रंगकाम  
 जटुल } नुप्पदेहमे  
 जठर पेट कठिन

जड़ जाड़ा मूर्ख ज्ञोवातकहंसुननसकै  
 जतु लाख  
 जतुक हीग  
 जतुका चिमगोदर चकवत  
 जतुकृत } चकवत  
 जतुका }  
 जतुका चिमगोदर  
 जतु कंधाळातीकेचीचकीहडी  
 जनक पिता बाप  
 जनंगम चांडाल  
 जनता मनुष्यांकाभुंड  
 जनन जन्महोना पैदाहोना कुलवंश  
 जननि } माता महतारी  
 जननी }  
 जनपद प्रदेश जिला  
 जनयित्री माता महतारी  
 जनश्रुति लोकवाद् कडावत  
 जनादेन भगवान  
 जनाश्रय महक टिकनेकास्थान  
 जनि उत्पत्ति पैदाहोना वधू चकवत  
 पुत्रकीखी नवीनखी  
 जनित्री माता  
 जनी उत्पत्ति चकवत वधू पुत्रादिकों  
 कीखी नवीनखी  
 जनुस् जन्महोना  
 जंतु जीव  
 जतुफल गुनरि  
 जन्मन् जीव  
 जन्मिन् }  
 जन्य विद्यादिकियवरकेश्वेपुरादि सं-

ग्रामाद्यादि तिंदाकीवाती  
 जन्यु जीव  
 जय नित्यवेदपढ़ना मंत्रजपना  
 जपापुष्प गुडहरपुष्प जास्वंद  
 जमन भोजन  
 जंपती स्त्रीपुरुष  
 जंवाल-कीचिचहला  
 जंत्रिज जंभीरीनिवृ  
 जंबीर-जंभीरीनिवृ मरुवा  
 जंबु जामुन फरेंद  
 जंबुक सियार नीच वरुण  
 जंबु जामुन फरेंद  
 जंबुक सियार  
 जंभ जंभीरीनिवृ  
 जंभभेदिन् इन्द्र जिन्हांतेजंभदेत्यको  
 जंभर  
 जंभल } जंभीरीनिवृ  
 जंभीर }  
 जंभीर मरुवा  
 जंय नरखेल शबुसेजीतना जय जीव  
 जयन जय जीत  
 जयंत इन्द्रकापुत्र  
 जयंती } जैति थोरपेराण  
 जया }  
 जय्य जीतनेकोसमर्थ  
 जेरण जीरा  
 जरव् शूद्र वृद्ध  
 जरदंगव बुडाबल  
 जरा सुडापा बुडापा  
 जरायु गर्भाशय गर्भनादानय



जरायुज मनुष्यगोघोडाआदिजितने  
 गर्भसेपैदाहोतेहैं  
 जल पानी  
 जलंगम, जालंडाल धीवर निपादादि,  
 जलजतु, मगरा घड़ियालआदि  
 जलधर मेघ वादर,  
 जलनिधि समुद्र  
 जलनिर्गम भेंवरनदीआदिमें,  
 जलनीली, शेवार  
 जलपुष्प कमलकोकाबेलिआदि  
 जलप्राय कच्छदेश बहुतजलकादेश  
 जलमुक् मेघ वादर  
 जलव्याल पनिहासांप. [ करते हैं  
 जलशायिन् नारायण जोजलमेंशयन  
 जलशुक्त, सीपी सूती  
 जलाधार तडागादि  
 जलाशय तडागाडि जलकाठण  
 जलोच्छ्वास जलबहनेकेनाराआदि  
 जलांकस् } जलजीव  
 जलाका }  
 जन्पाक, बतकहा बहुतवातकहै  
 जल्पित कहोवात  
 जब वेग शीघ्रता तुर्तही,  
 जवन जल्दचलनेवाला तुर्तही वेग  
 जवनिका परदा कनात  
 जवापुष्प गुडहरकाफूल  
 जहा केंवाच  
 जहनुतनया गंगा जिनकोजहनुनामच्छ-  
 पिनेपीलिया फिरसबकीमार्थनासे  
 प्रगटकिया  
 जागर कबच वरुतर

जागरा, जागना  
 जागरित् } जागनेवाला  
 जागरूक }  
 जागर्या, जागना [ गारुडी  
 जांगुलिक विपकेभाङनेवालेवैद्य,  
 जांधिक - डांकिया कासिद,  
 जात जाति उत्पन्न  
 जातरूप सुवर्ण सोना  
 जातवेदस अग्नि  
 जातापत्या जोस्त्रीपुत्रादिउत्पन्नकरचुके  
 जाति जाति-जूही संगमात्र,  
 जातिकोश } जायफर  
 जातिफल }  
 जाती जूही चमेली मालती  
 जातीकोश } जायफर  
 जातीफल }  
 जातु किसीकालमें  
 जातुधान राक्षस  
 जातुप लापकाधिकारें चूरीआदि  
 जातोत्त नयाबल  
 जातु गाठी [रनेवाला  
 जावाल गड़रिया बोकरीसेजीविका क  
 जामात दमाद-जमाई  
 जामि बहिनि कुलकीस्त्री  
 जांयव जामुन फरेंद  
 जायक पीतचदन केशरिआदिसेसंयुत  
 जाया स्त्री  
 जायाजीव स्त्रीसेजीविकाकरे नद्यादि  
 जापारती स्त्रीपुरुष  
 जायु औपथ दवा

जार दूसरापतिकरना यार. [मारनेका.	जीवती } औषध
जाल, समूह भरुपा जालमखरीआदि	जीवा } औषध
जालक नईकलीफूलकी	जीवाजीव मोरकेसमानपत्ती
जालिक जोजालसेमृगाकोबांधले	जीवातु आयु जीवरक्षाकाउपाय
जाली पहवली	जीवांतक जीवकामारनेवाला
जाल्म नीच जोविनाविचारकामकरै	जीविका व्यापार
जिघत्सु भूषा	जीवितकाल आयु
जिगी मजीठ	जुगुप्सा निंदा
जित्वर जीतनेवाला	जुंग सोमवल्ली जिसकेपत्ताशुक्लपत्तमें
जिन घुद्ध बौध	हों कृष्णपत्तमेंगिरपदें
जिप्पु इद्र अर्जुन जीतनेवाला	जुहू सुवाभेद हवनके
जिह्म कुटिलदुष्टआलसी	जूति } ज्वर
जिह्मग सर्प	जूति } ज्वर
निहा जीभ	जूष } जमुहाई
जीन वृद्ध वृद्धा	जूषण } जमुहाई
जीमूत मेघ बादर देवताही पर्वत	जूट जीतनेवाला जीतनेकोजाय
जीरक जीरा	जेमन भोजन
जीर्ण पुराना	जेय जीतनेयोग्य
जीर्णवस्त्र पुरानाकपड़ा	जैत्र जीतनेवाला
जीर्ण पुरानता	जैवातक चन्द्रमा आयुर्दायवान
जीव, प्राणधारणकरना जीवताहुआजीव	जैमिनीय मीमांशक मीमांशापदनेवाला
जीवक पीतशालक असणा जीवक	जोगक अग्न
जीवजीव } मोरकेसमानपत्ती	ज्योत्स्नी पटोलिका परवर्कीरेल
जीवजीव } मोरकेसमानपत्ती	जोषम् मृग चिननीकरना
जीवन पानी जीविका	जोषा
जीवनी } औषधि	जोषिन् } श्री मार्ग
जीवनीया } औषधि	जोषिता }
जीवनीषथ आयुर्दाय रक्षाकाउपाय	ज्ञ परिज्ञ
जीवतिक पत्तीकामारनेवाला	ज्ञपिन ) समभूगया जानगया
जीवतिका बाटा गुर्च	ज्ञम् ) समभूगया जानगया
	ज्ञप्ति बुद्धि

ज्ञातसिद्धांत शास्त्री शास्त्रपढ़नेवाला  
 ज्ञाति बंधु कुटुंबी  
 ज्ञातृ जाननेवाला  
 ज्ञातेय बंधु कुटुंबी  
 ज्ञान मोक्षविषयकाज्ञान  
 ज्ञानिन् ज्योतिषीपरिहित ज्ञानी  
 ज्या पृथ्वी धनुषकाडोरा  
 ज्याघातवारण तल बाणफेंकनेको  
 हाथमेचमडाबांधेना  
 ज्यानि पुरानता बुढ़ापा  
 ज्यायस् बहुतबूढ़ा शुभतामें  
 ज्येष्ठ जेष्ठमहीना बडाभाई अवस्था  
 ज्योतिरिंगण जुगुन  
 ज्योतिषिक ज्योतिषीपरिहित  
 ज्योतिष्मती मालकांगुनि  
 ज्योतिस्, नक्षत्र प्रकाश आंखकीपुतली  
 ज्योत्स्ना चांदनी उजेरिया पटोलिका  
 परवरकीबेलि  
 ज्योत्स्नी चांदनीरात  
 ज्वर रोग ज्वर  
 ज्वलन अग्नि  
 ज्वाल अभिकीलपट

( भ )

भंभावात आंधीपानीसहित  
 भद्रा } पृथ्वीकाअंवर  
 भद्रामला }  
 भद्रिति शीघ्रता  
 भद्र भिरनापहाडोंके  
 भर्भर } वाजा डमरुकेभेद  
 भर्भरी }

भष मबली  
 भषकेतु अनिरुद्ध कृष्णकापौत्र  
 भषा नागवला ककही  
 भाटल मोरबबृत्त घंटापाटलि  
 भाटलि मोलाबृत्त  
 भावुक भाऊ  
 भिंटी कुंस्टक भिंटी पुष्पभेद  
 भिरिका }  
 भिरीका }  
 भिरुका }  
 भिल्लका }  
 भिल्लिका }  
 भिल्लीका }  
 भिरका }  
 भीरुका }  
 भर्गुरु

( ट )

टंक टांकीपत्थरफोरनेकी कालाकंथा  
 खंता जंघा अहंकार क्रोध तरवार  
 कामियान

टिटिभक } टिटिहरी  
 टिटिभ }

टीका अर्थ  
 टुंडुक स्योनाकबृत्त

( ठ )

ठ, महेश्वर शून्य बहुतशब्द चेतनलववान

( ड )

डमर, उपद्रवसेमनुष्यादिकालोठना नाश  
 डमरु वाजा  
 डयन स्त्रियोंकीसवारी  
 डट्टु }  
 डट्टु } बडहर

डालिम दारिवा अनार  
 डिडिम डिमरुभेद  
 डिंटीर समुद्रफेन  
 डिव दुःखसेलोटना मरना  
 डिंभ वचापत्तीका बालक पाखंडी  
 डिंभा दूधपीनेवाला बालक  
 डंडुंभ दुमुहासांप जिसके विपण हो  
 डुलि कछुई

( ढ )

ढका एकवाजाकानाम  
 ( त )

तक्र मठा  
 तक्तक सांपकानाम बड़ई  
 तक्तन् बड़ई काठकाटनेवाला  
 तंक् टांकीपत्थरफोरनेकी  
 तट किनारानदीआदिका  
 तडाक तडाग ताल  
 तटिनी नदी  
 तडाग ताल तालाव  
 तडित् विजुली  
 तडिन्वत् संताप पीडा  
 तंडक भेष वादर  
 तंडुल विडंग चाबिर  
 तंडुलीयक चौराट्ट  
 तत वीणादियाजा चिन्तार  
 ततस् - कारण [ काल  
 तत्काल तत्क्षण तिसींममय वर्तमान  
 तत्त्व हाथपरसेनाचना पृथ्वीजलअग्नि  
 वायुआकाश  
 तत्पर तिसीकामपेलगा

तथा समता जैसेहरितसेहर  
 तथागत जिन बौद्ध  
 तथ्य सत्य सचाई  
 तद कारण  
 तदा तिससमय  
 तदात्व तिसीसमय वर्तमानकाल  
 तदानीम् तिससमय  
 तनय पुत्र लडका  
 तनु देह छोटा बिरल खाल  
 तनुत्त कवच वरुत्तर  
 तन् देह  
 तनूकृत छोटाकरना जैसेभारीकाठकी  
 तनूनपाद् अग्नि  
 तनूरुह रोमा प्रखपत्तियोंके  
 तंतु डोरा मृत  
 तंतुभ सेरसाँ  
 तंतुल विडंग  
 तंतुवाय कोरी जोकपड़ाविनताई मकरी  
 तंत श्रेष्ठ सिद्धांत  
 तंतक नवाकपड़ा  
 तंतवाप कोरी  
 तंतवाय कोरी मकरी  
 तंतिका गुर्न  
 तंतवाय कोरि  
 तंदा सांकेपहिलेपादेकी आलस्य कु  
 तंद् नीदधाना  
 तंद्री  
 तप गर्माश्रितु नपस्या  
 तपःकेशमह तपस्यावान जिनेंद्रिय  
 तपन सूर्य नरककानाम  
 तपनीय सुवर्ण मोना

तामसी अंधेरीरात	तिक्रशाक	वरणवृत्त
तांकवल्ली } नागवेलि पानकीवेलि	तिग्म	बहुतगरम
तांबली }	तिडमुवन्तचय	पदसमूह क्रियाकीबाणी
ताम्रक तांबा	तिडउ	चलनी पिसानचालनेकी
ताम्रकर्णी दिशागजकीपत्रीकानाम	तितित्ता	मराईघटतीदेखिमसन्नहोना
ताम्रकुट्टक तांबकेकामवाले		सहनशीलता
ताम्रचूड़ मुरगा	तितित्तु	सहनशीलताकास्वभावका
तार अतिउच्चस्वर मोतीकाहार चांदी	तितित्ठीक	चूक
शिरसेशब्दकरना	तित्तिरि	तीतुर
तारकजित् स्वामिकातिक	तित्तिर	तीतुर
तारका नक्षत्र आखकीपुतली	तिथि	परेचाआदि
तारा नक्षत्र	तिनिश	वृत्तविशेष
तारापथ आकाश	तित्तिडी	अविली
तारुण्य युवावस्था जबानी	तित्तिडीक	चूक
तार्क्ष्य गरुड घोडा	तितिली	अविली
तार्क्ष्यशैल अंजनविशेष	तिदुक	तेंदूवृत्त
ताल कालक्रियाकापरिणाम नियम	तिदुकी	
काकारण तालशब्दताडवृत्त अंगू	तिथि	मडलीभेद
टावीचअंगुरीकाविस्तार ताल	तिमिगिल	
रिताल	तिमित	बोदा गीला
तालपत्र कानकागहना कुडलादि	तिमिर	अन्धकार अंधेरा
तालपर्णी तालीसपत्र	निरस्	अन्तर्धान तिरडा
तालपुलिका मूसली	तिरस्करिणी	परदा कनात
तालवृत्तक ताडकारपत्ता वेना	तिरस्कारिणी	
तालाक बन्देव जिनकेध्वजापेताडका	तिरस्त्रिया	अनदिर निरादर
चिन्हहै [ व पचादि	तिरीट	भेतलोपृष्ठ सधिम्याननगों
नाली पृथ्वीकाअवरा ताडकीपदिरा		के चारकोश शिरकागहना
नालु तलुचामुहकेभीतर	तिरोधान	आच्छादन आयामेपाईकी
नामन् तबतक	तिरोहित	द्विपगहना छिपना
तिक तीतरम तीपा निंषादि	तिर्यच	तिरद्याचलवापुजाकर
तित्रक निंषादिरस पडबल	तिलक	तिलकपुलकावृत्त देहवाति

तुल्यपान	साथभोजनकरना	तुल	बहुतआनंद परिपूर्ण
तुवर	रस हरिआदिका	तुति	तुसहोनाकिसीकामसे
तुष	बहेर धानकेकन भूसी	तुप	वांछा रियास
तुषार	पाला हेमंतश्रुतु	तुष्णक	वांछाकरनेवाला
तुपित	देवताकागुण	तुष्णा	वांछा रियास
तुहिन	पाला जाड़ा	तेज	द्रव्यदंडसेनासेहोताहै मभाव मताप
तूण	भाथा; तरकस तीरभरनेका	तेजन	नरकुल शैवा
तूणी			
तूणी	नील	तेजनक	
तूणीर	तरकस भाथा	तेजनी	मुरहरीआपधि
तूद	पार्वपिप्पली वृत्तति	तेजसू	वीर्य मभाव प्रकाश बल
तूर्ण	तुरत तुरंत शीघ्र	तेजसाराशि	सूर्य
तुल	कंदवृत्त कपास	तेजित	शानसेचाकूआदितेजकरना
तुलिका	सलोई	तेम	बोदाहोना भोजनार्थ
तुवर	रस हरिआदिका दांडेरखाये पु	तेमन	कटी दहीविसनआदिकी
	रूपे विनदाडीकाज्वानगी	तेजस	सोनाआदिधातु
तुवरिका	तुर अरहरि	तेजसावर्तनी	सोनाआदिगलानकीध
तुष्णीशील	मुहचुप्पा चुपचाप	तेचिर	तीतुराकाभुएड
तुष्णीक			
तुष्णीकाम्	मौनहोना चुप्परहना	तैलपणिक	सपेददंडाचंदन
तुष्णीम्			
तृण	तिन तृण तिनकावृत्त	तैलपायिका	तैलमइवनेवालेगुजिया
तृणद्रुम			
तृणधान्य	पसुही अपियाकाश्वत्र	तैलपाता	स्वभ्राक्रम जिसमेंतिलपातहोतेहै
तृणध्वज	वास	तैलनिवत्	तिलोकावेत
तृणराज	तांडवृत्त	तैप	पौपमहीना
तृणशून्य	बेला फूलकापेड	तोक	लडकालडकी
तृण्या	तिनकीखरही	तोकक	पपीहापत्ती
तृतीयाकृत	तीनवारजोताखेत	तोकम	हरेजव
तृतीयप्रकृति	नपुंसक नामद	तोटक	वृत्तभेद रूपकभेद
तृतीयाप्रकृति			
		तोत्र	चावुक कोडा दंडा आंगी
		तोदन	
		तोमर	आयुधमथानीविसमान
		तोय	मन पानी

तोपपिप्यली जलपीपरि  
 तोरण बदनवार द्वारकाबाहर  
 तौर्य नाचगानवाजा मिलकर  
 त्यक्त त्याग जैसेदेहत्याग  
 त्याग दान देना  
 त्रपा लज्जा शर्म  
 त्रपु रांगा  
 त्रयी ऋग्यजुसामवेद वेदकानाम  
 त्रयीतनु सूर्य ऋग्यजुसामकेर्षति  
 त्रस चलना  
 त्रसर कोरीकासूतलपेटना  
 त्रस्त } डरजाना भयभीत  
 त्रस्तु }  
 त्राण } रक्षाकिया रक्षाकरना  
 त्रात }  
 त्रापुप रागेकीवस्तु  
 त्रायती } आपधि  
 त्रायमाण }  
 त्रास भय डर  
 त्रिक नाचगानवाजा रीरहड़ीपीठकी  
 त्रिककुट्ट त्रिकूटपर्वत  
 त्रिकट्ट सोंठि मिर्च पीपरि  
 त्रिका कुवाकीनेवारि कठवारि  
 त्रिकूट पर्वत जहालकापुरीहै समुद्रलोन  
 त्रिखट्ट } तीनखट्टिया पलंगतीन चार  
 त्रिखट्टी } पायीतीन  
 त्रिगुणाकृत तीनत्रारजोताखेत  
 त्रित्त } तीनवारछोटाकिया  
 त्रितली }  
 त्रिदश देवता  
 त्रिदशालय } स्वर्गलोक देवलोक  
 त्रिदिव }

त्रिदिवेश देवता [पवित्रकरतीहै  
 त्रिपथगा गगा जोतीनधारहोत्रिभुवन  
 त्रिपुटा निशोथ छोटीइलाची  
 त्रिपुटी निशोथ [कोमारा  
 त्रिपुरांतक महादेव जिन्होंनेत्रिपुरासुर-  
 त्रिफला अचरा हर बहेरा  
 त्रिभडी निशोथ  
 त्रियामा रात  
 त्रिलोचन महादेव जिनकेतीननेत्रहैं  
 त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम ज्ञय स्थानवृद्धि  
 त्रिविक्रम श्रीभगवान  
 त्रिविष्टप स्वर्ग इद्रपुरी -  
 त्रिवृत् } निशोथ  
 त्रिवृता }  
 त्रिसन्ध्य } तीनोसन्ध्या  
 त्रिसन्धी }  
 त्रिसीत्य तीनवारजोताखेत [नीआदि  
 त्रिस्रोतस् गगा जिसकीतीनधार मंदाकि  
 त्रिहल्य हलसेजोतातीनवार  
 त्रिहायणी तीनवर्षकीगौ  
 त्रुटि } छोटीइलाची छोटा थोडा  
 त्रुटी }  
 त्रेता तीनअग्नियज्ञादिकांकी  
 त्रोटि पत्नीकीचांच  
 त्र्यंबक महादेव  
 त्र्यंबकसख कुत्रे जिनकेमित्रमहादेवहैं  
 त्र्युपण } त्रवरा हर बहेरा त्रिफला  
 त्र्युपण }  
 त्व भिन्नार्थ  
 त्वक्षत्रीरी वरलांचन  
 त्वरूपत्र दालचीनी तज

त्वक्सार वांस

त्वच् वकला खाल ।

त्वच दालचीनी तज

त्वचिसार वांस ।

त्वरा जल्दी वेग

त्वरित तुरत बहुतजन्द

त्वरितोदित तुर्तकहा

त्वष्ट छोटाकरना. [ कारीगर.

त्वष्ट वडई लकड़ीकाटनेवाला देवता

त्विद् मभा उजेरा शोभा

त्विषांपति सूर्य

त्सरु तलवारकीमूठी कब्जा

( थ )

थ शब्दार्थ

( ढ )

दंश डांस मच्छड वनकीमच्छी

दशन वस्तर कपड

दशित कवचधारी

दंशी छोटेडास

दष्टिन शूकर वनरा

दक जल पानी

दक्ष चतुर बुद्धिमान

दक्षिण उदार सफलकलाप्रवीण

दक्षिणस्थ स्थकासारथी रथी

दक्षिणा दिशा

दक्षिणाग्नि हवनकीअग्नियज्ञमें

दक्षिणारु दक्षिणीपशुर्गमेंप्राव

दक्षिणार्ह } दक्षिणाकेयोग्य [ पावहो.

दक्षिणीय }  
दक्षिणैर्भन् जिसहस्त्रासेदक्षिणीपशुर्गमें

दक्षिण्य दक्षिणाकेयोग्य

दग्ध जला जरगया ।

दग्धिका जराअन्न [ राजाकोकरदेना

दड सूर्यकेपास दडदेना दडा दडउपाय

दंडधर यमराज जोसबमजाकोकर्मानु

सारदडदेतेहै ।

दंडनीति विद्याराजावांकी [ जाय

दंडविष्कभ जिसखंभापेमथानीवासी

दंडाहत दंडासेमथागोरसमान

ददुम्न चकौड़ी

ददुण

ददुरोगिन् } दादुरोगवाला

ददुधन चकौड़ी

दधित्य

दधिफल } कैथाकावृत्त

दधिसवतु दहीसत्तु

दनुज दैत्य देवताओंकेशत्रु अमुग

दन्त दांत

दन्तक पहाडकेनाहेरनिकलेतिरखेपत्थर

दन्तधावन रंरवृत्त

दतभाग हाथीकेअग्रेकाभाग

दंतशठ कैथा जंभीरीनिन्

दतशठा अम्लोनिथा

दंतावल हाथी

दतिका } दांती जिसराजीनजमाल

दतिका } गोडाई

दतिन् हाथी

दंदशुक सर्प सर्प

दध्र छोटा थोड़ा

दध्र वंडदेना इन्द्रियोंकीजीतना



दमथ इन्द्रियोंकीशांति	दशनवासस ओठ अक्षर
दमित इन्द्रोन्नित	दशपुर } केवटिआमोधा
दमुनस् अग्नि	दशपुर }
दंपती स्त्रीपुरुष	दशवल जिन बौद्ध
दंभ कपट छल शठता	दशमिन् बहुतबृद्धावस्था
दंभोलि वज्रइंद्रकाआयुध	दशमीस्थ, बहुतबृद्धा जिसकारागनाशहो
दम्भ्य नयावैलविनाजोता	दशा कपडाकेदोनोंछोर-ग्रहोंकीदशा
दया कृपा मेहरवानी	चाती अवस्था
दयालु दयावान्	दशानीकिनी अज्ञौहिणीभमाणसेना
दयित प्यारा मित्र	दस्यु चोर शत्रु बैरी
दर भय गड़हा अंधाकुवां	दस अश्विनीकुमार
दरत् म्लेच्छमाति	दहन अग्नि
दरिद्र भोजनतककाडुख	दाक्षायणी, श्रीदेवी अश्विनीआदिनक्षत्र
दरी पहाडोंकीकंदरा	दाक्षाय्य गीध
दर्दुर मेढ़क मेंझुका	दाक्षिण्य दक्षिणाकेयोग्य
दर्प अहंकार गरूर	दाहिम अनार
दर्पक कामदेव	दाहिमपुष्पक रक्तरोहिडा रोही
दर्पण शीसा दर्पणी	दांडपाता जिसकाममेंदंडपातहो
दर्भ कुश	दात कादा खंडित
दर्बि } कलखुल घोटना. [ काड़ा.	दात्पुह }
दर्बी } कलखुल घोटना. [ काड़ा.	दात्याह }
दर्बिका पाथरी रागभेद दाहदुर्दिका	दाव हंसिया जिससेखेतकाटेजाते हैं
दर्बीकर सांप	दान देना दानउपाय हांथीकामद
दर्श अभावस अभावसकीयज्ञ	दानव असुर
दर्शक द्वारपाल	दानचारि देवता
दर्शन देखना दर्शनकरना	दानशौंड, दानशूर बड़ादानी बलिआदि
दल पत्ता	दांत तपस्याकरनेवाला जितेन्द्रिय
दध वनकीअग्नि	दांते इन्द्रियवशकरना
दधिष्ट }	दापित धनादिदेवाइंद्रेना देना
दधीयम् } बहुतदूर	दाम }
दशन दांन	दामनी } बांधनेकीरस्ती

दामोदर भगवान् जिनकेपेटमेंशोदा नेरस्सीवांशी है	दित काटा खडित
दाभिक मायाजी पाखडी	दितिसुत दैत्य असुर
दायाद पुन वंधु कुटुंबी	दिधिपू } जिसकुमारीस्त्रीकीछोटीबहिन
दायित धनादिदेना	दिधिपू } काव्याहपहिलेहो
दारक बालक फोडनेवाला	दिधीपू
दारद वच्छनाभविष	दिन टिऱस
दारा स्त्री जोभाइयोंकोफोरदेती है	दिनमणि सूर्य
दारित भेदागया फोडागया	दिनात साम सांभ
दारु काठ देवदारु	दिव देवलोक आकाश
दारुक कृष्णकासारथी	दिव लीलागणासपत्नी
दारुण घोर भयकर	दिवस दिन
दारुहरिद्रा दारुहर्दी	दिवस्पति इंद्र सूर्य
दारुहस्तक डौवा घोटनावडा	दिवस्पृथिव्यौ आकाशपृथ्वी
दारवाघाट कठफोरवापत्नी	दिवा दिन
दार्विका शागभेद	दिवाकर सूर्य
दार्वी दारुहर्दी	दिवाकीर्ति नाऊ चाडाल
दालिम अनार	दिवांध घुघुवा उल्लू
दाय वनकीआग्नि	दिवाधिका छलदरि
दाविक देविकानदीमेंहो	दिवाभात घुघुवा उल्लू
दाश धीमर दास नौकर	दिविपद् देवता
दाशपुर } केवटिआमोधा	दिवांकम देवता पपीहा
दाशपुर }	दिव्यगायन गन्धर्व
दास नौकर मजदूर सेवक	दिव्योपपादुक देवता
दासी कालीभिटी सेवकिनि	दिग् दिशा
दासीसभ दासियोंकीगाला	दिश्य दिशामेहो
दासेय ? नौकर चाकर	दिष्ट काल भाग्य पूर्णकर्म
दासेर }	दिष्टान मरण नाश
दिगजर नगा महादेव	दिष्ट्या आनद
दिग्गज दिशाकेहाथी	दीक्षात यज्ञकीसमाप्ति
दिग्ध विपकाउभायागण लगजाना	दीक्षित सोमयज्ञकरनेवाला

दीदिवि अन्नभातः  
 दीधिति किरणः सूर्यकीकिरणः  
 दीन दरिद्री दुखी  
 दीनार निष्कमात्रः  
 दीप दिया  
 दीपक जवाइनि अजमोद  
 दीप्ति तेज  
 दीप्य मोरशिखा  
 दीर्घ लंबा  
 दीर्घकोशिका - जाँककेसमानजलजीव  
 दीर्घतुंडी बूँदरि  
 दीर्घदर्शिन पंडित  
 दीर्घपृष्ठ सांप  
 दीर्घवृंत श्योनापाड़ा  
 दीर्घसूत्र आलसी काममेंबहुतदेरकरै  
 दीर्घिका बावली  
 दुःख दुख अशुभ  
 दुःप्रथिणी भाँटा बँगन  
 दुःखमर् निंदा  
 दुःस्पर्श यवाशा  
 दुःस्पर्शा भटकटैया  
 दुकूल बख कपडा  
 दुग्ध दूध  
 दुग्धिका दुधबनिबेलि  
 दुंडुभ दुमुहासांप  
 दुद्रुम हरीपियाज  
 दुंदुभि नगाडा बाजा  
 दुरध्व खराबराइ कुमार्ग  
 दुरालभा यवासा  
 दुरित पाप

दुरोदर जुवां  
 दुर्ग कठिनस्थानपर्वतादि  
 दुर्गत दरिद्री दुखी  
 दुर्गति नरक कुगति  
 दुर्गंध बोह वसाना  
 दुर्गसंचर { कठिनमार्ग जहाँसिंहव्या  
 दुर्गसंचार } घ्रादिहों  
 दुर्गा श्रीदुर्गात्रिभुवनजननीहिमाचल  
 कुमारीश्रीसदाशिवकीप्राणाधारी  
 दुर्ज्व खल दुष्ट  
 दुर्दिन वादरसेछायादिन  
 दुर्नामक बवाशीर  
 दुर्नामन् } जाँककेसमानजलजीव  
 दुर्नाश्री }  
 दुर्बल बलहीन निर्बल  
 दुर्मनस् व्याकुलचित्त  
 दुर्मुख जिसकामुखबंदनहो वातकरै  
 दुर्वर्ण चांदी  
 दुर्विध दरिद्री  
 दुर्हद शत्रु बैरी  
 दुश्चयवन इन्द्र  
 दुरेखा राध गाली  
 दुपण ब्रह्मा  
 दुष्कृत पाप  
 दुष्ट निंदा  
 दुष्पत्र धनहरीआपधि  
 दुहित कन्या लडकी  
 दत्त संदेशलेजानेवाला  
 दृती } संदेशलेजानेवाली  
 दृति }

दूत्य दूतकाकाम	देवदारु लकड़ीदेवदारुकी
दून संतापित	देवद्रव्य देवतापूजनेवाला
दूर बहुतदूर	देवन जुवांकेपांशा क्रीड़ा
दूरदर्शिन परिणित	देवचल्लभ पुनांगवृत्त
दूर्वा दूब	देवभूय देवताकोप्राप्तहोना देवताहोना
दूश्य तंबू कपड़ेकामकान	देवमातृक जहांपरवर्षाकेपानीसेमवना- जपैदाहों
दूपिका } आंखकामैल कीचर	देवयज्ञ होपकरना.
दूपीका }	देवयोनि विद्याधर अप्सरायत्तराक्षस गन्धर्व किन्नर पिशाच गुह्यकसिद्ध
दूप्य तंबू कपड़ेकामकान	देवर पतिकाछोटाभाई [ भूत
दूप्या पशुवोंकेकमरंवांधनेकीरस्सी	देवल परडवा जोदेवताकीधान्यले
दृढ अतिशयपोटा कठिन समर्थ मीठा	देवशिल्पिन्, विश्वकर्मदेवताकाकारिगर
दृढसंधि पोट्टाजोड़ मजबूतजोड़	देवसभा देवताकीसभा सुधर्मासभा
दृति चमड़ाकीपोट मछरी	देवसायुज्य देवतामेमिलना
दृब्ध गुद्दाहुवा जैसेमाला	देवाजीव } परडा देवताकीद्रव्यलेने देवाजीविन् } वाले. [ पिठका शाक.
दृश् आंख नेत्र ज्ञान बुद्धि	देवी रानी मुरहरीध्यापधि, अस्परक
दृषद् पत्थर	देवु देवर पतिकाछोटाभाई
दृष्ट राजचोरआरैराज्यसेभय	देश नगर अवधवंगकलिगाटि
दृष्टरजसू, युवास्त्रीजिसकेरजस्वालाहुवाहो	देशरूप नीति उत्तमदेश
दृष्टांत शास्त्रतर्कादिखदाहरण	देशिक गुरु देशी अपनेदेशकाहुवा
दृष्टि आंख नेत्र ज्ञानदेखना. [ खपड़े.	देह शरीर
दृष्टेदु अमावास्या जिसमेंरुद्धचन्द्रमादे-	देहली देहरी देहरी
देव देवता राजा [ प्रगट्टुये	देतेय } अमुर
देवकीनेदन श्रीभगवान जोदेवकीने	देत्य } अमुर
देवकुमुम लवंग लौंग	देत्यगुरु शक्र भृगुवंशोन्यत्र
देवखातक देवताकेदरवाजेकातडागाटि	देत्या तालीशपत्ता मुहरी
देवरातविल गुहा पहाडोंकीकेदंग	देन्यारि श्रीभगवान देत्योंदेशु
देवच्छंद सांलरकापाला	देन्य दीनता शोक
देवतरु कल्पवृत्त	
देवता देवता त्रितिसुत	
देवताड देवतालयापधि	
देवत्प देववनाकोप्राप्तहोना देवताहोना	

दैर्घ्य लवार्द्र - [ आगहाथमेवेवतीर्थ	द्राक् - शीघ्र -
दैव पूर्वकर्म भाग्य देवकर्म अगुलीके	द्राक्षा दाप मुनका
दैवज्ञ ज्योतिषीपण्डित	द्राघिष्ठ अतिशय
दैवज्ञा शुभाशुभज्ञाननेवालीस्त्री [नरात	द्राविडक कचूर
दैवत देवता एकवर्षकादेवताकाएकादि-	द्रु वृत्त
दोला नील भूला भुलवा	द्रुकिलिम देवदारु
दोली डिडोला भूला	द्रुघन } मुद्गर लोहआदिका
दोपज्ञ पण्डित	द्रुण विच्छू वीक्ष
दोषा राति रात्रि	द्रुणि डोंणी
दोषकटश् दोषभरदेखकई महादुष्ट	द्रुणी कनश्या डोंणी
दोस् भुजा बाह	द्रुत शीघ्रपतलाहोना धीआदि
दोहद बाछा गर्भ	द्रुप वृत्त
दोहदवती गर्भकेकारणसेविशेषपदार्थों	द्रुभोत्पल कठचपा
कीइच्छाकरनेवाली -	द्रुक्य मान प्रमाण
दोत्य दूतकाकाम	द्रुहिण ब्रह्मा
दुः आकाश	द्रोण वीक्ष विच्छू तौलकादशसंग
दुनि शोभा प्रभा प्रकाश	द्रोणाचार्य सग्राम शब्द कौवा
दुमणि सूर्य	द्रोणकाक कालाकौवा
दुन्न धन द्रव्य	द्रोणजीरा } दशसेरदूषदेनेवालीगों भंस
दुत्त जुग	द्रोणदुग्धा } दशसेरदूषदेनेवालीगों भंस
दूतकारक } जुगखेलनेवाले	द्रोणि डोंणी काट्यापत्थकी नावके
दूतकृत् }	समानपानीसीचनेवाली
दुः } देवलोक आकाश	द्रोणी नील
दुः }	द्रोहचितन पगवावरविचारना
दुोन प्रकाश उजरा	द्रोणिक दशमेरनेकापन
द्रुम्न पतलादही	द्रु च्चीपुष्प लड़ाई
द्रुव प्रीडा केलि भागनासग्रापाटिसे	द्रुयानिग सर्वकनिष्ठ व्यामादि
द्रवती नदीआदि	द्राःम्य } द्वारपाल दरवाजेकेनाक
द्रविण पराक्रम धन बल मॉना	द्रास्थिन }
द्रुव धन पृथ्वीआदि	द्रादशागुन विनाभरबागआग

द्वादशात्मन् सूर्य जिनकेवारहभेदहैं  
 द्वापर संदेह संशय द्वापरयुग  
 द्वार } दरवाजा  
 द्वार }  
 द्वारपाल }  
 द्वास्थ } दरवाजेकानौकर  
 द्वास्थित } डेउड़ीवान  
 द्वास्थितदर्शक }  
 द्विवगुणाकृत दुइवारजोताखेत  
 द्विवज पत्नी दांत ब्राह्मण  
 द्विवजराज चंद्रमा  
 द्विवजा रेणुकाऔपधि  
 द्विवजाति ब्राह्मण  
 द्विवजिह्व सांप चुगुलखोर  
 द्वितीया दूसरीस्त्री  
 द्वितीयाकृत दुइवारजोताखेत  
 द्विचप हांथी  
 द्विचपाद्य दांहरादंड  
 द्विवरथ हांथी  
 द्विवरसन सांप  
 द्विवरेफ भंवरा  
 द्विचप } शत्रु बैरी  
 द्विचपत् }  
 द्विचष्ट तांवा  
 द्विचसीत्य } दुइवारजोताखेत  
 द्विचहल्य }  
 द्विचटायनी, दुइवर्षकीगाँ [जलसेधिराहो.  
 द्विचीप, पृथ्वीमें७द्वीपटापूजोभागपृथ्वीका  
 द्वीपवती पृथ्वी नदी  
 द्वीपिन व्याघ्र  
 द्वेषण शत्रु बैरी

द्वैष्य बैरकरनेकेयोग्य  
 द्वैध, उपायबलवानसेमित्रतानिर्वलसेवैर  
 द्वैष व्याघ्रकेचमढाकारथ वाघकेचम  
 डासेमडारथ  
 द्वैषायन व्यास  
 द्वैमातुर गणेश  
 द्व्यष्ट तांवा  
 द्वावापृथिव्यौ } आकाशपृथ्वी  
 द्वावाभूमी }

( ध )

धट दिव्य तुलाराशि  
 धत्तूर धत्तूर  
 धन द्रव्य मोतीहीरापन्नामोहरआदि  
 धनंजय अग्नि अर्जुनकानाम  
 धनद कुवेर जोधनकेमालिकहैं  
 धनहरी औपधि  
 धनाधिप कुवेर  
 धनिन् धनवान् तालेवर द्रव्यवान  
 धनिष्ठा नक्षत्र  
 धनु } चिरौंजी चार [ रामादि  
 धनुःपट }  
 धनुर्धर धनुषधारी धनुषनांधनेवाले  
 धनुर्यास यनासा  
 धनुष्मान् धनुषधारी  
 धनुस् धनुष कमान  
 धन्य भाग्यवान् पुण्यात्मा  
 धन्याक धनिया  
 धन्व धनुष कमान  
 धन्वन् मरुस्यलदेश जटांजलनहींहैं  
 धन्वयास जनासा

धन्विन् धनुषधारी  
 धमन नरकुल सेंठा  
 धमनि } नाड़ी जिससे देखवैद्यरोगजानते हैं  
 धमनी }  
 धमनी नलीगन्धद्रव्य पवारी  
 धमिल्ल बांधेगाल स्त्रियोंकीपाटीजूर  
 अलकावली  
 धर पर्वत  
 धरणि }  
 धरा } पृथ्वी धरती  
 धरित्री }  
 धर्म पुण्य सन्ध्यादिकर्म स्नानादिक्रि  
 या वेदमार्गचलना यमराज न्याय  
 उत्तमस्वभाव आचार यज्ञागतोम  
 पीनेवाला हिताजीवकीनकर  
 धर्मचिता धर्मकाविचारकरना शास्त्रपु  
 राणादिदेखना वेदकानित्यपढ़ना  
 धर्मध्वजिन्- वेषवनाकरदूसरीकोठगना  
 माथेमेतिल रुगलेमेकेंडीपहिरमिथ्या  
 दिवोलना  
 धर्मपत्तन कालीभिर्ष धर्मवान्नगर  
 धर्मराज बौद्ध यमराज  
 धर्ममहिता स्मृतिग्रन्थ मनुस्मृतिआदि  
 धर्मिणी }  
 धर्मिणी } व्यवहारिणीस्त्री द्विनार  
 धर्मिणी }  
 धर पति भतार स्वामी वृक्षभेद मनु  
 प्य ठग  
 धवल सपेद  
 धवला } धवरीगाय गां  
 धवली }

धावित्र \* हिरनाकेचमडासेवनायज्ञवेना  
 अग्निकेतेजकरनेकोमृगचर्मकापंखा  
 धातकी धौकेफूल वृक्षभेद  
 धातु इंद्रिय पत्थरकाविकारमैनशिलआ  
 दि सोनाचांदीआदि भूआदिधातु  
 गण ।  
 धातुपुष्पिका धौकेफूल  
 धातु ब्रह्मा जोसप्तकोवनाताहै  
 धातुपुष्पिका धौकेफूल  
 धात्री दूरपियानेवाली पृथ्वी अंबरा  
 धाना भूजेंपव  
 धातुफ धनुषवांधनेवाला ।  
 धान्य धानयवादि  
 धान्यत्वच् कनकीभूसीडिलका  
 धान्यक धनिया  
 धान्यांश कनचावरआदिका  
 धान्याम्ल कांजी मिरका  
 धामान् धर देह तेज प्रभाव  
 धामनिधि सूर्य  
 धामार्गव लैटजीरा तोरई [ अच्चा  
 धाय्या ममिधडोइअग्नितेजकरनेकी  
 धारणा मर्यादा पुरानीचाल  
 धारा घोड़ेकीचालपांचप्रकारकी बहुत  
 जोरमेदौड़ाना १ चतुरचालनाचना  
 दि २ दुलकीचाल ३ खांवांफांट  
 ना ४ चौकचाल ५ नदीआदिकी  
 धारा मेप्रकेसूंदकीधारा  
 धाराधार मेघ वाटर. [ वांधवरसना.  
 धारामंषात सुमलचाररमना धारा  
 धार्त धूर्त जुगारी दौड़िया स्वांगवाला

धार्तराष्ट्र हंसकेसमानकालेरंगकापत्नी  
 राजाधृतराष्ट्र दुर्योधनादि  
 धावनि } पिठवनिऔपधि  
 धावनी }  
 धिरु, निंदाकीवातोंसे भयउत्पन्नकरानाजै  
 सेतुपरस्त्रीगामीहै धिकार निंदा  
 धिवृत निंदाकिया निंदाकोभासहोना  
 धिकारकिया  
 धिपण बृहस्पति इद्रकेगुरु  
 धिपणा, बुद्धि अकिल चतुरता  
 धिप्यय स्थान घर नक्षत्र अग्नि  
 धी, बुद्धि चतुरता अकिल. [खाल नाक.  
 धीन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय मन कान आल जीभ  
 धीमत् परिहृत बुद्धिमान्  
 धीमती बुद्धिमानस्त्री परिहृता चतुरा  
 धीर परिहृत जोधीर्यतासे कामकरै  
 केशर कुकुम. [सियोंकीजाति  
 धीवर धीमर कैवर्त निपाद धनवा-  
 धीशक्ति बुद्धिकीसामर्थ्यता  
 धीसचित्र राजाओंकामुख्यमंत्री बुद्धि  
 कासहायक  
 धुत कुञ्जकांपना  
 धुतर धतूर  
 धुनी नदी नदिया  
 धुर रथकाअग्गा धुरीलोहकी  
 धुरधर } धूमिमेंचलनेवालागुँल गाड़ीका  
 धुरीण } गोभलेजानेवालागुँल  
 धुर्यु }  
 धुवित्र हन्नाकेचमड़ासेपनायद्रकारेना  
 धुस्तुर } धतूर  
 धुस्त्र }

धूत त्यागकरना छोड़ना  
 धूर्पायित संतप्तहोना घामअग्निज्वरसे  
 धूपित तापहाना. [ धूमयतीतारा  
 धूमकेतु केतुउदयउत्पातक्षत्राग्नि  
 धूमयोनि मेघ जोधुवांसेवनताहै  
 धूमल धुवांकासारग कालालालमिला  
 धूम्या धुवांकासमूह धुवांकीगुंज  
 धूम्याट भुजयलपत्नी  
 धूम्र धुवां धुवांसारंग कालालाल  
 धूर्नटि महादेव जिनकेशिरमेंजटाका  
 भारसाहै. [अधर्मी  
 धूर्त, धतूर झुपारी सांगवाला ठग डांकू  
 धूर्वह गाड़ीआदिमेंचलनेवालागुँल  
 धूलि } धूर गर्दा  
 धूली }  
 धूसर कुब्जपीलाधूरकासारग  
 धूस्तर धतूर  
 धृति धीर्य धारण ममन्ता योग यज्ञ  
 धृष्ट } ढीठ किसीसेनमनहो  
 धृष्णञ् }  
 धृष्णि सूर्यकीकिरण  
 धृष्णु ढीठ किसीसेनमनहो  
 धेनु नईबियाईगाँ तुलकीव्याईगाय -  
 धेनुप्या दूधदेनेकोकर्मदेनेवालेवेयहां  
 अग्नीकीगाँ  
 धेनुक व्याईगाँवाँकाभ्रएट [ नाना  
 धेवत गानकेस्वरकाभेद घोंडेकादिनदि  
 धोरण सववाहन हांभीग्घघोडाआदि  
 धोरितक घोड़ेकीकदमचाल [नीआदि  
 धौनर्वाशेष घोयाऊनरात्रस्य मुकुटाधो  
 धौगितक घोड़ेकीकदमचाल



धारेय गाड़ीमेंचलनेवालावेल  
ध्याम रोहिसतृण  
धुव धुवतारा जोचक्रकेमध्यमेंस्थिरहै  
कटापेंड मोटीदार नित्यजोहमेशः  
स्थिरहै निश्चय महादेव विष्णु घर  
गद राजाउत्तानपाटकापुत्र द्रव्य  
योगभेद

धुवा शरिचनऔपधि यज्ञादिकाधुवा  
व्रज पताका भंडी

ध्वजिनी सेना जिसमेंपताकाशोभितहै  
ध्वनि शब्द आवाज. [ होना.

ध्वनित शब्दहुवा आवाजआई शब्द  
ध्वस्त गिरना गिरजाना टूटना

ध्वांत्त कौवा बकुला कपासकेवियानि-  
कासनेकीचरली भिखारी घर

ध्वान शब्द आवाज  
ध्वांत अंधकार अधेरा

( न )

न अभाव निषेध नहीं नाश  
नकुलेष्ठा सर्पांतीऔपधि

नक्तक पुरानाफटाबखर लचा दुकवा  
नक्तश् रात जिसमेंचोरोंकरनेहै

नक्तमाल करंज कंगी  
नक्त भंगरा मकरराशि

नक्षत्र नपत तारा  
नक्षत्रमाला सत्ताइनमोतियोंकामाला

अशिवनीआदिनक्षत्र २७  
नक्षत्रेश चन्द्रमा जोनक्षत्रोंकाम्बार्माहै

नम्ब गन्धद्रव्य नागून नह  
नम्बर नाखून नह

नखी गन्धद्रव्य नखला  
नग पर्वत वृत्त

नगरी शहर अयोध्यामथुराआदिपुरी  
बहुतमनुष्योंकानिवास [ येरहतेहैं

नगौकम् पत्नी चिडिया जोबृत्तपहाडों  
नग्न विनबस्त्रपहिये नंगा

नग्नहु मदिराकावीज मतवालानंगा-  
होपुकारै. [दो नंगीस्त्री.

नग्निका जिसस्त्रीकेरजस्वलानहुवा  
नट शोनापादाऔपधि नट जोनाचतेहैं.

नटन नाचना कलाबाजीआदिकरना  
नटी मालकांगुनि नलीगन्धद्रव्य

नड तृण नरकुलसेठा घरआदिमेंभी-  
तरकाब्देद

नडप्राय जिसदेशमेंनरकुलबहुतहों  
नडमीन पानीतृणमेंचलनेवालीमछरी

भेगसामछरी।  
नडसंहति नरकुलोंकाढेर गढ़ा

नडिनी कमलिनी छोटीतलैया जिस  
मेंनरकुलहों

नड्या नरकुलोंकासमूह  
नडुअरु } जिसदेशमेंबहुतनरकुलहों

नडुवल }  
नत टेठा नम्र नरम

नतनामिक नकबंठा चिपटीनाकका  
नट भारीनदी जैसेशोणभद्रनद

नटी पाघरामंडकीचम्मलनर्मदाकावेरी  
कृष्णागोदावरीताप्तीआदि

नटीमाहुक जिसदेशमेंनदीसेसेतीआ-  
दिहो नदीबहुतरों

नदीसर्ज अर्जुनवृत्त  
 नधी चमडाकीरस्सी बांधी  
 ननाह नन्द स्त्रीकोअपनेपतिकीबहिनि  
 ननु निश्चय प्रश्न अग्रधारण जैसेननु  
 येयोगीहैं आज्ञा निषेध विरोधकी  
 बाणी  
 नदक श्रीभगवानकाखड्ग  
 नन्दन इन्द्रकायन स्वर्गलोककावाग  
 नन्दिक } नन्दी शिवकेवाहन शिव  
 नन्दिशेखर } गण  
 नन्दिवृत्त } तुनि [ नवना.  
 नन्डीवृत्त }  
 नन्यावर्त्त- राजाबोंकाधर गोलाकेसमा  
 नपुंसक नामर्द हिजरा [ नि पोती  
 नप्री लडकालडकीकीलडकी नाति  
 नभस् आकाश श्रावणमहीना  
 नभसंगम पत्नी जोउडतेउडतेआकाश  
 में मिलतेहैं  
 नभस्य भाद्रपद भादौ  
 नभस्यत् वायु हवा  
 नभस् नमस्कार भणाम डडवत्  
 नभसित नमस्कारकिया पूजाकिया  
 नभस्कारी लज्जा लज्जवती  
 नभष्या पूजा पूजन  
 नभस्थित, नमस्कारकिया पूजित. [ मारा  
 नभुचिसूदन इंद्र जिन्होंनेनभुचिदेत्वहो  
 नय नीति धर्ममार्ग  
 नयन नेत्र आंख  
 नर मनुष्य पुरुष. [ नरकामुग्  
 नरक, जोयमपुगीमेंहै पापियोंसेटहनेलिये

नरकांतरु विष्णु जिन्होंनेकृष्णावतारमें  
 नरकामुग्कोमारा  
 नरवाहन कुबेर जोपीनमआदिकीम  
 वारीममनुष्योंकोजोते है  
 नर्तक पुरुषस्त्रीवेषवनाकरनाचनेचर्चया  
 नर्तकी नाचनेवाली नटिनीआदि  
 नर्मदा नदी जिसमेंशिवकेलिङ्गवहुतहैं  
 पश्चिमकोवहती है  
 नर्मन् क्रीडा कोलि खेल हर्सा  
 नल नरकुल तृण  
 नलकृवर कुबेरकापुत्र  
 नलद तृणजाति  
 नलमीन तृणपानीकीमछरी  
 नलिन कमल. [ फूलहों  
 नलिनी, कमलिनी नलैया जिसमेंनर  
 नली गन्धद्रव्य  
 नल्व चारसांदांध  
 नव नूतन नवीन नया नया  
 नवदल } कमलादिवनयेपत्ता नयाधी न  
 नवनीत } नृ मरण  
 नवमञ्जिवा } नेवारी नेवार  
 नवमालिका }  
 नवमृत्तिका नर्दयार्डिंगोंआदि  
 नवार नयावस्त्र नौराजपदा  
 नवीन नया नया  
 नवाद्भुत नयाननशालापीयादि  
 नव्य नया नया  
 नष्ट नाश भरण्य गोजाना  
 नष्टचेष्टा मलय नाश मग्जाना  
 नष्टाग्नि जिमकाशग्निहोचनाशहों

नष्टेन्दुकला	अभावस जिसमें चन्द्रकला	करते हैं तुल्यधान्यादिकीनाल घड़ी
नाशहोजाती है		कमलकीनाल
तसा नाक		नाडीव्रण घाव जो हमेशः बहाकरै नसूर
नमित्त	} नायावैल	नाथवत् परार्थीनः परवश
नस्तोत		नाद शब्द आवाज. [जमुनी
नस्या नाक		नादेयी नारंगी पानीकेवैत जैति भुड
नस्योन नथावैल		नाना बहुत ठो बिना
नहि	} निपेथ नहीं अभाव	नानारूप बहुतरूप बहुतप्रकार
ना		नांदीकर
नाक स्वर्गलोक आकाश		नांदीवादिन् जाना
नाकु बैचौर मटीकादूह		नापित नाई नाऊ
नाकुनी रहसनि रासनि		नाभि क्षत्री पैदाकावीच जिसमें धुरी
नाग नाग भारीसांप हांथी शीश श्रेष्ठ		डाराजाती है श्रेष्ठराजा तौंदी राजा
नागकेशर नागबल्ली इस्तिनापुर मेघ		बोंकीसभा
मोथा लवंग		नाभिजन्मन ब्रह्मा जो विष्णुकीनाभी
नागकेशर नागकेशरि		सेहुये
नागजिह्विका मैनशिल		नाभी पैहाकेवीचकाकाठ
नागरला बरियारीभेद		नाम प्रसिद्धता कष्टार्थमें क्रोधमें उत्तम
नागर साँठे नागस्मोथा चतुरनगर		वेप निदामे क्यानाम है
कावासी शहरुवा		नामधये
नागरंग नारंगी नारंग		नामन् } नाम नांव यथारामचन्द्रादि
नागलोक पाताल सापोंकालोक		नाथ नीतिधर्ममार्ग मध्यकारत्ननवरतनमे
नागबल्लो नागवेलि पान		सेनाकोसिखानेसाला भालाकासुमेर
नागसंभय सेदुर सिगरफ		नायक स्वामी मालिक
नागसुगन्ध रासनि रहसनि		नार जल पानी
नागातक गरुड़ जोसापकोलाते हैं		नारक नरक
नाथ, नाच कलावाजीआदि नटोंकी कला		नारद देवसृष्टि
नाडिकेर नारियल [जकरते हैं		नाराच लोहेका नाण
नाडिधम सोनार जो फुकुनीसे आगिते		नाराची कांटापैरा सोनारोंकी तराजू
नाडी नाडी जो वैद्यदेवरोमादिका जान		नारायण जो पलकालमें जलमें सोते हैं
		शंशायी

नारायणी शतावरि छतावरि  
 नारिकेर } नारियर गरीकागोला  
 नारिकेल }  
 नारिकेलि }  
 नारी स्त्री मेहरिया औरत. [ नाल.  
 बाल कमलनाल आदि धान्यादिकी  
 नाला } कमलनाल इत्यादि कमलकी  
 नाली } इंडी  
 नारीकेल } नारियल  
 नारीकेली }  
 नालिकेर }  
 नाविक मल्लाह नावपारकरदेनेवाला  
 नाव्य नावसेपारहोनेयोग्यपानी  
 नाश भरण मौत  
 नासत्य अभिनीकुमार  
 नासा, दरवाजेके ऊपरकाकाठ पटाव नाक  
 नासामल नाककामैल  
 नासिका नाक  
 नास्तिकता भूठीदृष्टि जिसको बुद्धिसे  
 परलोकादिपुण्यपापकर्मनहीं जान  
 पड़ते  
 निःशलाक एकांत जहां कोई न हो  
 निःशेष सम्पूर्ण मंत्र [ होजाय  
 निःशोध शोधा सफा-जिसका मूलदूर  
 निःश्रेणि निसैनी सीढ़ी  
 निःश्रेयस मोक्ष सेसारमें जन्मनहोना  
 निःपमम् निंदा  
 निःसरण दरवाजा निकलनेका द्वार  
 निःस्व दीरद्री दृष्टी  
 निकट समीप नगीच  
 निकर समूह भूंड गण [ डी महल

निकर्षण सुन्दर रहनेका स्थान कमराको  
 निकप कसौटी जिसमे रगरनेसे सोनेकी  
 रंगतसमर्भमे आती है  
 निकपा समीप  
 निकपात्मज राक्षस  
 निकामम् जैसीवांछा जैसीइच्छा  
 निकाय एकधर्मवालोंको समूह  
 निकाय्य घर, माकान [ सावना  
 निकार निंदा बुराई धान्यादिकाव  
 निकारण मारडालना वध  
 निकुंचक मूठाभर एकपाँवा  
 निकुंज बेलिवृक्षोंसे अर्धरावन  
 निकुम्भ दांती  
 निकुरंब समूह भूण्ड  
 निकृत तिरस्कारकिया दुखीकिया कु-  
 टिल अन्तःकरणका कपटी  
 निकृति शठता मूढ़ता  
 निकृष्ट अधम पापी नीच  
 निकेतन गृह स्थान  
 निकोचक } अकोहर पिस्ता  
 निकोटक }  
 निकण } वीणा आदिका शब्द धाजाकी  
 निकाण } आवाज  
 निखिल सम्पूर्ण सब  
 निगड शृंगला दृक्की तौक जंजीर  
 निगद कहना कहा. [ राह घेद  
 निगुप धनियाँ नगर शहर धनियाँकी  
 निगाद कथन कहना  
 निगार निगलजाना जमागाना  
 निगाल गलेकाम्यान जहाँपशुबोकिये  
 था आदिवाँपाना नाई

निग्रह विरोध वैर  
 निव सवतनासेवरावर जितनाचौडा  
 उतनाहीमोटा लम्बा  
 निघस } भोजन जेपना खाना  
 निघास }  
 निघ्न आधीन गुणना  
 निचिकी उत्तमगौ उमदागाय  
 निचुल वीणाआदिमूढनेकावस्त्र पानी  
 वेवेंन बोहार समुद्रफल  
 निचाल मूढनेकावस्त्र बोहार गिलाफ  
 निज अपना नित्य  
 नितम्ब पर्वतकापयभाग स्त्रीकेकमर  
 कापिच्छलाश्रंग चूतर  
 नितम्बिनो स्त्री जिसकेऊचेनितवहों  
 नितान्त अतिशय अत्यत  
 नित्य रातदिन निश्चय  
 निटाघ गर्माश्रितु घाम पसीना  
 निटान पहिलेकाकारण  
 निदिग्ध सवतनासेपूर्ण समृद्ध  
 निदिगिका भटकटैया  
 निटेश आझाटेना आडा  
 निद्रा नींद सोना  
 निद्राण मोरहा  
 निद्रालु सोरहनेकाम्बभाव  
 निद्रित सोनाना मोगया  
 निद्रन मरण नाश फुल ब्रह्मा  
 निधि कुत्रेकीसामान्यलक्ष्मी भाडा  
 नियुवन, मैयुन स्त्रीपुरुषकासंयोग कापना  
 नियान देखना दर्शन  
 निनट } शब्द आवाज  
 निनाट }

निदा गालीआदि कलककहना  
 निष कलश पडा  
 निषट } पाठ पढना  
 निषाट }  
 निपातन नीचेगिराना  
 निपान, पौसराकुवकेममीपपानीपीनेका  
 निपुण प्रवीण चतुर. [ पेशावबन्दहो  
 निबन्ध पेटफूलनेकारोग जिसमेंभाडा  
 निबन्धन वीणाकेतारबांधनेकास्थान  
 बांधना  
 निबद्धाभू पकीजमीन  
 निबर्हण मारना बध  
 निभ उपमा वरावर  
 निभृत नम्र सहनशील. [ हार.  
 निमय बदला परस्पर लेनदेन व्यव  
 निमित्त कारण लक्षण चिह्न शगुन  
 निमेष पलकमारनेकासमय  
 निम्न गहिरा खाली  
 निम्नगा नदी  
 निव नीम नीव  
 निवतरु वकयिना वकाइनि  
 नियति भाग्यपूर्वकार्म  
 नियत सारथी रथवान्  
 नियम अगीकार व्रत नेम महीजलादि  
 सेसाध्यकर्म पवित्रता सतोष तप  
 स्या वेदादिकापाठ ईश्वराराधन  
 नियानन नीचेगिराना [ नेत्राले  
 नियामक नावकेऊपरवैठहुएजीवकेमान  
 नियुत परलान्ततया  
 नियुद्ध बाहुयुद्ध कुम्ती  
 नियोज्य नौकर चाकर

निर् निश्चय निषेध	निर्धार्य संपन्न सुखी दुःखमेभीद्रव्यसे
निरन्तर घना सघन	यनकांखुसराखै
निरय नरक	निर्वहण मारना घात वध
निरर्गल अनाथा पीड़ानहो	निर्भर अतिशय बहुत बलवान् सुंदर
निरर्थक व्यर्थ वेप्रयोजन	वया वितर्क अत्यत
निरवग्रह स्वेच्छाचारी निफिकिर	निर्मद, विनामदकाहाथी जिसकामदनष्टहो
निरसन जवावदेना थूंकना	निर्मुक्त जिससांपनेकेचुलिब्दोडदीहो
निरस्त तुर्तकहा तुरंतकहना फेंकावाण जवावदेना	त्यागी सन्यासी
निराक्षरिष्णु जवावदेनेवाला	निर्मोक सांपकीखाल केचुलि
निराकृत जवावदेना उचुरदेना. [दिना.	निर्याण हांथीकेआंखकाकिनारा
निराकृति अपनावेदनज्ञानताहो जवाव	मृत्युकाल
निरामय निरोग आरोग्य	निर्यातन बैरछूटनेमे लड़ाईउपरांत मि-
निरीश } फालहलकेनीचेलगतहै	लापहोना दान धरोहरकाफेरना
निरीष } नरककीशोभा	निर्यास काढेकारस लेपआदि
निर्घृति	निर्वपण दान मोदानआदि
निरोध विरोधैर	निर्वर्णन दर्शनकरना देखना
निर्गधन मारना वध	निर्वहण समाप्ति नाश सहार
निर्गुठी म्यौड़ी गोड़ी	निर्वाण मोक्ष संसारमेजन्मादिनहो
निर्गुडी म्यौड़ी गोड़ी कालीम्यौड़ी	ऋषि जोपापोंसेमुक्तहो शांतअग्नि
निर्ग्रथन वध मारना	हांथीछूटा. [ धिकहो.
निर्घोष शब्द आवाज	निर्वात वायुसंदहोना जिससेगर्माथ
निर्जर देवता जोवदेनुहीहोते	निर्वाद निंदा मनुष्योंकीवाते वतकहाव
निर्जितेंद्रियग्राम इन्द्रीजित योगी यती	निर्वापण मारना वध घात
जोइंद्रियोंकोजीततेंह	निर्वार्य कार्यकारी जोदुखमेभीअपने
निर्भर भरनापहाडांके	द्रव्यसेमनकोप्रसन्नकियेकामकरताहै
निर्भरिणी नदी	निर्वासन मारडालना वध घात
निर्णय निश्चय ज्ञान निश्चय	निर्वृत्त सिद्ध सपकार्योंसेशांतहोना
निर्णिक्त शोधना धोना साफकरना	निर्देश मोल तनखाह समापवान उप
निर्णोजक धोबी बरेठा	भाग मूर्खा थकजाना
निर्देश क्रिमीकामकोआजादेना	निर्व्ययन छेड़ बिल मसाआदिना
	निर्व्यह टरवाजा माथा काढेकारस घर

कीदीवारकीकील

निर्हार घावमेइधियारनिकालना  
 निर्हारिन दूरकीसुगन्ध फूलआदिकी  
 निर्हाइ शब्द आवाज  
 निलय घर माकान  
 निबह समूह भ्रुएइ  
 निवात वमनेकास्थान वायुबन्टहोना  
 निवाप पितरोकेलियेदान ब्राह्मणभो  
 जनादि  
 निवीत फेनाबख कपडा गलेमेजनेऊ  
 मालासापहिरना जिससमयमेसन  
 कादि कौकोतरुणमेंजलदियाजाताहै  
 निवृत्त शहरपनाइसेधिरा चारोंओर  
 बखननेटनाइत्यादि  
 निवेश सेनाकेरहनेकास्थान रास्तामें  
 सेनानिवास  
 निशा रात्रि रात  
 निशाख्या हरदी हलदी  
 निशात तेजकिया पैनाया कडाकिया  
 निशांत घर माकान  
 निशापति चन्द्रमा रातकामालिक  
 निशारण मारण मारना  
 निशित तेज पैना कडा  
 निशीथ आधीरात अधरात  
 निशीथिनी रात्रि रात  
 निश्रय सन्देहनरहना ठीक  
 निश्रेणि } निसेनी सीढी  
 निश्रेणी }  
 निषङ्ग तरकस भायावाणवरनेका  
 निषङ्गिन् धनुषधारी तरकसवधि

निषया दूकान बाजारमेंबेचनेकास्थान  
 निषदूर चहला कीच  
 निषय एकपर्वतकानाम एकदेश  
 निषाद स्वरगानका जोहाथीशब्दकर  
 तेहें चांडाल धीमर  
 निषादिन् महाउत हाथीहांकनेवाला  
 निषूदन मारना वध  
 निष्क एकसौआठकूपका एकसौघवा  
 लिसतोला सुवर्ण इद्रकआभूष-  
 ण माला जंजीरआदि टकाभर उ  
 त्तमव्यवहार  
 निष्कला } जिसस्त्रीकेअवस्थाकेकारणसे  
 निष्कली } रजस्वलाबन्दहुवाहो  
 निष्कामित } निकाला निकासना नि-  
 निष्कामित } कारना  
 निष्कूट घरकेसमीपबाग फुलवगिया  
 निष्कूटि }  
 निष्कूटी } बड़ीइलाची  
 निष्कूइ वृत्तकाबेद सौंधकल  
 निष्क्रम बुद्धिकीसामर्थ्यता निकसना  
 निष्ठा समाप्ति सिद्धि नाश अन्त  
 निष्ठान, दहीसेबनेभोजनपदार्थकडीआदि  
 निष्ठीवन कफनिकारना धूकना  
 निष्ठुर कठोरबचन कड़ीवात कडा  
 निष्ठूत }  
 निष्ठूत } भेजाहुवा पठउना  
 निष्ठूति }  
 निष्ठूच } धूकना मुइसेकफनिकारना  
 निष्ठूवन }  
 निष्पात चतुर्ग शिलाहुवा [होजाना  
 निष्पक पाकना चुगजाना काड़ाआदि

निष्पत्तिमुता जिसस्त्रीकेपतिपुत्रनहो  
 निष्पन्न सिद्ध परिपूर्ण. [ जलसे.  
 निष्पाव धान्यादिकोंकापवित्रकरना  
 निष्प्रभ तेजहीन प्रकाशहीन  
 निष्प्रवाणि नयात्रस्य कोराकपडा  
 निसर्ग स्वभाव आचरण  
 निसृदन मारडालना वध  
 निसृष्ट फेंकना छोड़ना  
 निस्तल गोल गोलाई  
 निस्तर्हण मारडालना  
 निह्रिंश खड्ग तलवार  
 निस्राव माइभातका  
 निस्वन } शब्द आवाज  
 निस्वान }  
 निहनन वधकरना  
 निहाका पानीकीगोह  
 निहिंसन वधकरना  
 निहीन नीच चुद्र खोंटा  
 निन्हव छिपीवात छिपानेयोग्यवात  
 विश्वासनमानना झल शठता  
 नीकाश समान बराबर उपमा  
 नीच क्षुद्र छोटा वजना  
 नीचिका } उत्तमगौ उपदागाय .  
 नीचिकी }  
 नीचैस् धोडा नीचमकार  
 नीढ पक्षियोंकायूर थलकर भोभे  
 चिड़ियोंकावसेरा  
 नीढोद्धव पक्षीचिडिया  
 नीप घरकाबप्पर डानी  
 नीप रदंब  
 नीर जल पानी

नील काला कालारंग कृष्णपत्त  
 नीलकंठ, श्रीमहादेवजी मुरइला मोरपुब्बार  
 नीलंगु वीरबहूटी छोटाकिरवा  
 नीलभिन्दी कालीभिन्दी फूलकापेंड  
 नीललोहित श्रीमहादेव  
 नीला कालीभिन्दा  
 नीलांगु वीरबहूटी छोटाकीड़ा  
 नीलांर वलदेवजी जो कालेवस्त्रपडिरते  
 हैं कालाकपडा. [ बयौला.  
 नीलांबुजन्मन् कालीकोंकावेलि काला  
 नीलिका कालीम्पौडी  
 नीलिनी } लील नील  
 नीली }  
 नीवाक धनधान्यमेंबहुतआदरकरना  
 लीजिये २ कहना. [ तृणकाअन्न  
 नीवार ऋषियोंकाभात पसहीआदि  
 नीवि } वस्तुकाठीक २मोल जमाकीजमा  
 नीवी } करिहांवकेवस्त्रवांधनेकाटेंट ईजा  
 रवंद नारा  
 नीबृत् भारीदेश  
 नीशार रजाई दुलाई लिहाफ फर्द  
 नीहार पाला जाड़ा हेमंतऋतु  
 नु प्रपन्न ममभ्राना विकल्प  
 नुति स्तुति प्रणामादि  
 नुत्त } प्रेरणा भेजना पठौना गिराना  
 नुत्त }  
 नूतन } नवा नया नवीन  
 नूत्र }  
 नूद पार्श्व पिप्यलीबृत्त तृनबृत्त  
 नूनम् निश्चय तर्क  
 नूपुर पकपान पैजनिया



वृ मनुष्य  
 वृत्त } नाचना नाच  
 वृत्य }  
 वृष राजा मनुष्योंका स्वामी  
 वृषलक्ष्मन् राजाओंका ब्रह्म  
 वृषसभ राजाओंकी सभा  
 वृषासन राज्यसिंहासन राजासन  
 वृशंस औरोंका वैरी पापी परद्रोही  
 वृसेन मनुष्योंकी सेना  
 नेत्र स्वामी मालिक  
 नेत्र आंख मथानी की रस्ती बस्त्रविशेष  
 नेत्राबु राना आंसु आंखका पानी  
 नेदिष्ट बहुतसमीप अति निकट  
 नेपथ्य बेषवनाना शृंगार सिंगार  
 नेमि } तिनिशबृत्त तिवस  
 नेमी }  
 नेमि पैहाके नीचेका काठ पुढी कुचां  
 कीनेवार कठवार  
 नेमी पैहाकी पुढी  
 नैकभेद बहुतभेद बहुतप्रकार  
 नैगम बनियां रोजगारी उपनिषद्  
 नागर चतुर  
 नैचिकी अच्छीगौ उमदागाय  
 नैपाली नैपालकीभैरशिख  
 नैमेय बदला व्यवहार  
 नैयग्रोध बरगद्री बरगदकाफल  
 नैयायिक न्यायपढ़नेवाला  
 नैर्ऋत राक्षस दिशाकाकोण पश्चिम  
 दक्षिणकामध्य दिग्पाल  
 नैफिकर चांशीकामालिकजिसकेपदां  
 रूपयाचहुतहाँ

नैस्त्रिशिक तलवारबांधनेवाला खड्गधारी  
 नौ नहीं निषेध  
 नौ नाव नदीआदिउतरनेकी [ वांस  
 नौकादण्ड नावकीबल्ली नावखेवनेका  
 नौतार्य नावकेउतरनेयोग्यपानी  
 न्यक्त संपूर्ण अधम- निकृष्ट परशुराम  
 न्यग्रोध बरगद दोनोंहाथोंसेफैलाया  
 कुण्डल  
 न्यग्रोधी मुसिकन मूसाकर्णी  
 न्यङ्क छोटा वजना  
 न्यंकु मृगा हिरनकीजाति  
 न्यस्त धरा फँकना रक्सा  
 न्याद भोजन खाना जेमना  
 न्याय नीति धर्ममार्ग  
 न्याय्य जोद्रव्यन्यायसेप्राप्तहो अपनी  
 मेहनतकीद्रव्य उचित योग्य श्रेष्ठ  
 मध्य सुंदर  
 न्यास धरोहर धरना  
 न्युत्स } सामवेदमेंनिपातकीओंकार सुं-  
 न्युत्स } दरता मनोहरता [ होमुहंपीठ  
 न्युञ्ज कुवरामनुष्य व वृत्त रोगसेटढ़ा  
 न्यून कम थोड़ा निर्दिष्ट तिनिकु

( ५ )

पकण भिल्लोंकेगांव बनकेचांडाल  
 पक नाशहोनेकेयोग्य पका पकजाना  
 चुरजाना  
 पक्ष पंद्रहदिन पंद्रहरातकापक्ष चिह्नि-  
 योंकेपक्ष पत्तना बालोंकेसमूहमें  
 बाणकेपक्ष सहाय साथी आसपास  
 थोड़ाथैर बल चूल्हाकेधेद थोड़ा  
 हाथीकीपशुरी

पक्षक, श्वासपासकेद्वार बगलके दरवाजा	पंचास्य सिंह श्रीदुर्गाजीकावाहन
पक्षति प्रथमतिथि परेवा पक्षियोंके	पंजिका संपूर्णपदकीव्याख्या
पंखकीजड़ पक्षसंज्ञा [ रेकादरवाजा	पट चिरौंजी सुंदरवस्त्र
पक्षद्वार बगलकेद्वार पागकेद्वार किना-	पटञ्चर पुरानाकपड़ा चौर
पक्षभाग हाथीकीपशुरी	पटल छानि छप्पर छपरा पिटारा
पक्षमूल चिड़ियाकेपंखकीजड़	पटलमांत घरकेबाहिरीदीवारकीपर-
पक्षांत अभावस पूर्णमासी	छती बलडुवा
पक्षिन् चिड़िया चिरैया	पटवासक सुगन्धितचूर्ण छरीला
पक्षिणी रात्रि रात [ चक्रु डोरादि थोड़ा	अरीरादि
पक्ष्मन् आंखकीपलक कमलकाकिंज-	पट्ट याजा संग्रामशब्द मारुत्थादि
पंक्त चहला कीच पाप [ हुतटो	पट्ट परवर चतुर न्यायशास्त्रपढ़नेवाला
पंक्ति ल कीचसहितदेश जहां चहलाव-	भरीण शीघ्रनासेकामकरनेवाला
पंक्तेरुह कमल	आरोग्य

पण्यबीथिका बाजार दूकान विक्रीघर  
 पण्या मालकायुनी  
 पतग पत्तीचिडिया  
 पतंग पत्तीसूर्य पतिंगो  
 पतंगिका ममाखीजाति  
 पतत् पत्तीचिडिया  
 पतत्र पत्तीकेपत्र  
 पतत्रि पत्तीचिडिया  
 पतत्रिन पत्तीचिडिया  
 पतद्ग्रह पीकंदानी बुराग्रह सेनाकी  
 पतयालु गिरनेवाला गिरपैर  
 पताका ध्वजा भंडी निशान  
 पताकिन भंडीवाला निशानवाला  
 पति भतार खसम मालिको [ पतिकर  
 पतिवरा अघनीराजीसख्यंवरमैजोखी  
 पतिवत्री स्त्रहागिलासौभाग्यवती  
 पतिव्रता पतिकीसेवामेलगीरहै  
 पचन शहर नगर  
 पति पैदल सेना सेनाकीसंख्या  
 जिसमेंरथ १ हांथी १ घोड़े ३ पियादा  
 हीं बीरभेद  
 पत्तिर्संहति पैदल सेना पण्टन  
 पत्री स्त्री जिसकावेदीबधिसंबिवाहहो  
 पत्र पत्ता पंख सवारी बाण पत्ती चिड्डी  
 पत्रपरशु वसुला छेनी [बिदाआदि  
 पत्रपारया माथेकागहना टीका वेना  
 पत्ररथ पत्ती जिनकेपंखहीरथहैं  
 पत्ररेखा कस्तूरीकेसरिआदिकेकपो-  
 पत्रांगुलि लादि अंगमेंशोभाकरना  
 पत्रांग लालचंदन

पत्रिन शिकरा बाजं पत्तीवाण  
 पत्रोण शोनापाढा टेट्ट धोयाऊनकाबख  
 पथिक राही राहचलनेवाला  
 पथिन् मार्ग रास्ता राह  
 पथ्या दर  
 पद् पैर पांव स्थान विभक्त्येतशब्द  
 पद एकवात रक्षा पैरकाचिन्ह बहाना  
 पदग पैदल पियादा पण्टन  
 पदवि मार्ग रास्ता  
 पदवी मार्ग रास्ता  
 पदाजि  
 पदात पदाती, पैदलसेना पियादा-  
 पदातिक पदाती, पैदलसेना पियादा-  
 पदिक  
 पदंग  
 पदति मार्ग रास्ता चाल  
 पदती मार्ग रास्ता चाल  
 पद्म निधि कमल संख्या  
 पद्मक देहमेंविदुबहुतसेहोना बहुधा  
 हाथीकीदेहमेलातरविदुहातेहैं  
 पद्मचारिणी स्थलकमलिनी, लिहुवा  
 पद्मनाभ भगवान जिनकीनाभिमै कम-  
 पद्मपत्र पुष्करमूल  
 पद्मराग मणिलालरंगकी  
 पद्मवर्ण पुष्करमूल  
 पद्मा लक्ष्मी जिनकेहांथमेकमल है  
 भारंगी स्थलकमलिनी  
 पद्माकर तालाव जिसमेकमलहो  
 पद्माक्ष सूर्य कमलसंज्ञ  
 पद्माष्ट चकौड़ी पद्माप

पञ्चालया लक्ष्मी जिनकाकमलस्थानहै	परश्वस् दूसरेदिन भोरभे
पद्मिन् हाथी	परस्वध कुल्हारा
पद्मिनी कमलिनी तलैया ।	पराक्रम बल बूत जोर ऐश्वर्य उपाय
पद्य श्लोक शूद्र कविनकीवाक्य ।	पराग फूलकीधूरि कुसुमकीमिलीधूरि
पद्या मार्ग रास्ता	पराङ्मुख पीछेकामुख हारजाना
पनस कटहर	पराचित जिसकोदूसरापालनकरै
पनायित } स्तुतिकरना नमस्कारादि	पराचीन विमुख हारना
पनित }	पराजय लड़ाईकीहार
पन्न गिरना गलना	पराजित हारगया दूसरेकापालाहुवा
पन्नग सांप सर्प	पराधीन दूसरेकेबश परबश
पन्नगाशन गरुड जोसांपखाते हैं	पराभ औरकाअन्नखानेवाला
पयस् पानी दूध	पराभूत हारगये हारजाना
पयस्य दही घी नेनू मक्खन महाआदि	परायण मिलीहुईवात मिलनामनसे
पयोधर; खजांची नारियल स्त्रीकीछाती	परार धीतेवर्षसेबानावर्ष तेउरुससाल
मेघ कशेरू [ उत्तर.	परार्ध्य श्रेष्ठ उत्तम बहुतमोल
पर तीरनदीआदिका शत्रु श्रेष्ठ दूर	परासन मारना दूसरेकास्थान
परःशत सौसेअधिक इत्यादि	परासु मरगया मरजाना
परजात जिसकोस्वामीकेबिनाऔरपालनकरै लडकावृत्तादि	परास्कंदिन चोर चोटा उठाईगीर
परतंन परवश औरकेआधीन	परिकर शय्या गोद कुट्टव देहकीसि-
परपिंडाद दूसरेकाअन्नखानेवालेपुरो-	मितन, त्रिचाइ आरंभ
हितआदि	परिकर्मन् देहमेंचंदनकुंभुमादिलगाना
परभृत- कोकिला कोडली	परिक्रम पैरकीजाल अक्सरोंकीपृथ्वी
परभृत् कौवा	परिक्रिया, कुटुंबी भाईआदिकाएकद्वारादोना
परमम् अंगीकार श्रेष्ठ	परिचित्त मडलआदिचारोंओरदोना
परमान्न दूधसेवनाअन्न खीरआदि	परिखा खौवाँ खौई
परमेष्ठिन ब्रह्मा	परिग्रह सेनाकीपिढाड़ी स्त्री
परम्पराक यज्ञपशुकावध	परिग्रह } लोहसेबंधाहाथमरकाढंढा
परवत् पराधीन दूसरेकेबश	परियातिन् }
परशु } कुठार कुल्हारा	पन्चिय पहिचान वृद्धि [ सेनारत्नक
परश्वध }	परिचर, सेनापतिकेआसपामचलनेवाला

परिचर्या : सेवागुरुआदिकी  
 परिचाय्य अभिकेप्रयोग  
 परिचारक : दास सेवक टहलवा  
 परिणत : पकजाना प्राप्तहोना  
 परिणय विवाह व्याह : [ घड़ाआदि  
 परिणाम : बिकार जैसेमाटीकाबिकार  
 परिणाय : काठसेरचायंत्रजुवाखेलनेका  
 इधरउधरलेजाना  
 परिखाई : चौकाई चकलाई  
 परितस : सवतरफ सवते  
 परित्राण : मारनेवालेसेत्रचालेना  
 परिदान : बदला व्यवहार  
 परिदेवन : शोक शोक  
 परिधान : नोत्रेकावस्त्र लहंगा धोती शारी  
 परिधि : सूर्यकेचारोंओरकभीघेरासाहो  
 शोधबुद्ध बच्यूलआदिकीडार  
 परिधिस्थ : सेनारक्षाकरनेवाला  
 परिपण : मूलधन जमा विननफा  
 परिपंथिन : शत्रु बैरी  
 परिपाटी } सीधाक्रम परंपराकीचाल  
 परिपाटी }  
 परिपूर्णता : सबसुखकीबस्तु संपूर्णता  
 परिपेलव : केवटिआमोथा  
 परिप्लव : चंचल जोचलाकरै  
 परिवर्ह : राजावाँकेयोग्यसपेदछत्रादि  
 परिभव : अनादर अपमान  
 परिभाषण : सहितनिंदाकेवातकहेना  
 परिभूत : अपमानकियां [ जानेकीसुगंध  
 परिमल : मैथुनआदिमेमालाआदिमिस  
 परिंभ : लपटाना लिपटना

परिवर्जन : मारडालना  
 परिवर्तन : व्यवहार लेनदेन बदला  
 परिवाद : निंदा गाली दुष्टि  
 परिवादिनी : चीणा जिसमेंठारहों  
 परिवापित : मुंडलकिया शिरघोटाया  
 परिविचि : जिसस्त्रीयापुरुषकेबोटेवहि  
 निभाईकाव्याहप्रथमहो  
 परिवृढ : स्वामी मालिक [ पहिलेहो  
 परिवेत्त : जिसपुरुषकाव्याहबदेभाईसे  
 परिवेश : सूर्यकेआसपासकभीजोमुंडल  
 परिवेष : हो  
 परिव्याध : पातीकेवैत कठचपा  
 परिव्राज : सन्यासी भिखारी  
 परिपद् : सभा समाज प्रंचाईत  
 परिष्कंद : जिसकोदूसरापालनकरै, ल  
 परिष्कन्न : इकाबुज्जादि  
 परिष्कार : आभूषण गहेना  
 परिष्कृत : गहनधारणकिया  
 परिप्वंग : लपटाना लिपटना  
 परिसर : नदीपर्वतकेसमीपकीधरती  
 परिसर्प : कुदुंबीआदिकाएकटाहोना  
 परिसर्या } चारोंओरफिरनासेनाआदिके  
 परिसार }  
 परिस्कंद : दूसरेकागला जैसेकण  
 परिस्कन्न }  
 परिस्कार : आभूषण गहेना  
 परिस्कृत : गहेनापहिना आभूषणधारी  
 परिस्तोम : हांथीकीभूल गदा  
 परिस्पंद : रचना शोभाकरना  
 परिस्थंद }

परिसृत } मंदिरा दारू	पर्यक पलग स्वटोली परिवार। शय्या
परिसृता } मंदिरा दारू	पर्यटन घूमना, फिरना
परिहास हैसी खेल केलि	पर्यतम्, नदीपर्वतआदिकेचारोंओर
परीक्षक परीक्षाकरनेवाला निश्चयकारी	पर्यय अतिक्रम, उलटना लांघना
परीभाव अनादर अपमान	पर्ययस्था विरोध वैर
परीरभ लपटना लिपटना	पर्याप्त जैसीबाछा मनोरथ
परीवर्त्त व्यवहार लेनदेन बदला	पर्याप्ति, मारनेवालेसेवचालेना
परीवाद निदा दुष्टति	पर्याय सीधाक्रम परिपाटी परंपरा [ना
परीवाप तेबूइत्यादि जलकास्थान	पर्यायशयन पहरवालोंकोपहरादेसोरह
परीवार चलनेवाले जंगम	पर्युदचन अणु, कर्ज उधार
परीवाह, जलकावहना नारानारीआदि	पर्येषण श्राद्धमेंआहणकीसेवा
परीष्टि श्राद्धमेंआहणकीभक्तिसेवा	पर्वत पहाड़ हिमालयादि
परीसार चारोंओरफिरना	पर्वन बौंसआदिकीगांठि कृष्णपक्षकी
परीहास हैसी खेल केलि	। १४, ८१, ३० पूर्णिमा
परुत बीतासाल परसाल	। सक्रांति इत्यादि
परुप कठोरवचन कड़ीमात	पूर्वसाधि, पूर्वोक्तीसाधिप रेजापूर्णमादिकी
परुस वाग्नआदिकीगांठि	पर्युना पशुरी हड्डी
परेत मराहुआ मरा	पल टकाभर मांस पल
परेतराज इयमराज मरोंकामालिक	पलगड लीपनेवालामजदूर वारीआदि
परेद्यवि, दूसरेदिन औरदिन	पलकपा गुखु
परेष्टुका बहुतवारकीव्याईगौआदि	पलल मास मास
परैधित दूसरेकापालाहुआ	पलांडु पियाज प्याज
परांपणी तेलडै पाखी	पलाल पयार नरई मिनाफलकीडटी
पर्कटि } पकरियावृत्त	पलाश पचा ढाख चूल आबाहरटी
पर्कटी } पकरियावृत्त	हरारग गिरसाआदिपचाकारग
पर्जनी दारुहरदी	पलाशिन चूत्त पेंड
पर्जन्य गर्जतेमेघ इद्र	पलिक्री बूटीम्बी जिमकेपालमपेटहों
पर्ण पचा छल ढाख	पलिन पटापासेसपेटपालरोवा
पर्णशाला अपियोंकेघर कुंगी	पल्यक पलग स्वटोली
पर्णास बालसंधरी बावरी	पल्लव पत्ता

पल्लवः च्छोटातालाव-ताल  
 पवः पवित्रकरनाधान्यका धोना  
 पवन वायु हवा शुद्धकरना धोना  
 पवनाशन सर्प जोवायुभोजनकरतेहै  
 पवमान वायु, हवा  
 पवि बज्र इंद्रकाआयुध  
 पवित्र कुश पवित्रहुआ शुद्ध  
 पवित्रक सनकेसूतकाजाल  
 पगपति महादेव पशुओंकामालिके  
 पशुपेरणा गौआदिकाहांकना चरावना  
 पशुरज्जु हरहावांधनेकी रस्सी गेराव  
 पश्चात् पश्चिमदिशा अंत पीछे  
 पश्चात्ताप पछिताना  
 पश्चिम अत्य दिशा [ हाताहै ]  
 पश्चिमा दिशा पछांह जहांसयअस्त  
 पप्रवाह गाडीआदिकेजुवांकेपास  
 जातनकावल  
 पृष्ठीही वासरगाभिनिगी  
 पस्त्य घर मकान  
 पांश धूलि गर्दा खाक  
 पांशुला खराबस्त्री बिनार  
 पाक बच्चा बालक पाकनामदेत्य रसाई  
 पाकल कूट [ मारा ]  
 पाकशासन इंद्र जिन्होंनेपाकदेत्यको  
 पाकशासनि इंद्रकापुत्र जयंत  
 पाकस्थान पकानेकास्थान रसाई  
 पात्रय विडलोन जवाखार [ ठगहाई ]  
 पाखंड, सवतरहकेरूपधारणकरना धूर्त्तता  
 पांचजन्य श्रीभगवानकाशंख [ या द्रौपदी ]  
 पांचालिका कपडाआदिकीपुतरी गुदि-

पाट संबोधनमें  
 पाटचर चोर ठग उठाईगीर  
 पाटल, लालसपेदमितारंग गुलाबी धान  
 पाटला पांडरि पांडरिकाफूल  
 पाटलि पांडरि मोखंबूज धान [ पड़ना ]  
 पाठ पुराण वेदादिकोंकीपाठ महापंड  
 पाठा पांडाओंचधि  
 पाठिन चीत सपेदपर्णास  
 पाठीन बहुतदांतवालीमछरी  
 पाणि हाथ  
 पाणिगृहीती विवाहकीस्त्री [ आदि ]  
 पाणिय हाथकेवाजा करतालभांभ  
 पाणिपीडन विवाह व्याह  
 पाणिवाद हाथकेवाजा  
 पांडर सपेदना  
 पांडुराकुक्षपीलारंग पिंडोरसा  
 पांडुकंबलिन पीलेकंबलसेमढ़ारथ  
 पांडुर पिंडोरकासारंग कुक्षपीला  
 पातक ब्रह्महत्याआदि कुकर्म  
 पाताल नीचेकालोक बलिकायर  
 पातुक पागिर २पड़ना गिरजाना  
 पात्र नदीकामध्य पत्ता राजाकामंत्री  
 योग्य लोटाआदि यज्ञकेपात्र स्रवा  
 आदि नाचकीनकल  
 पात्री लोटाबहुईआदि स्त्रीलिंगकेशन्द  
 पात्रीव यज्ञकापात्र  
 पायस् पानी  
 पाद्र पर्वतोंकेसमीप २छोटेपर्वत पांव  
 चौथाभाग किरण  
 पादकटक विडिया नूपुर नेडर

पादग्रहण पैरछूनागुक्कादिके  
 पादप वृत्त पैर  
 पादबलमीक  
 पादबंधन पशुवोकेपैरवांधनेकीरस्सी  
 पादस्फोट वेवाई जिसमें पैरफटजातेहैं  
 पादाग्र पैरकाअगाड़ी पात्रकाआगू  
 पादांगुद नूपुर पैजनिया भांभै  
 पादात  
 पादाति  
 प्रादातिक  
 पादातिग  
 पादिका  
 पादिका  
 पादकृत चमार जूताबनोनेवाला  
 पाद्य पांवधोनेकोजल [ जातिकी  
 पानगोष्ठिका मदिरापीनेकीसभानीच  
 पानपात्र मदिरापीनेकापियाला गिलास  
 पानभाजन हूथआदिपीनेकाकटोरा  
 पानीयन पानी जल  
 पानीयशालिका मीसर पानीपीनेकापर  
 पांथ मराठी मार्गचलनेवाला  
 पाप दुष्टकर्म दुसरेकोबेरी बुरेमार्ग  
 पापवेली  
 पाप्मन पापबुराकर्म  
 पामत् खानुरोग खजुरी  
 पामन जिसकोखानुरोगहो  
 पामर नीच अंथम पापी  
 पामा खान खजुरी [ अश्लीरादि  
 पायस एकवृत्तकागोंद धूप दूधसेपका  
 पायु गुदा गांड  
 पाय्य ममाण ताल

पार नदीआदिकापार। इसरातीर  
 पारत पार [ सिखाना  
 पारद  
 पारंपर्योपदेश पुरानीलोकपरंपराका  
 पारशव शूद्राणीमेंब्राह्मणसेपुत्रहो  
 पारश्वधिक कुल्हारावांधनेवाला  
 पारसीक फारसकाघोडा  
 पारस्त्रेण्य पराईखीकालडका  
 पारापत कवृत्त  
 पारायण संपूर्णवात मिलीवात  
 पारावत कवृत्त  
 पारावतांघ्री मालकोगुनि [ पानी  
 पारावतांघ्री  
 पारावार नदीकाइसपारउस पार बहुत  
 पाराशर्य व्यास  
 पाराशारिन् सन्यासी  
 पारिकात्तिन् तपस्वी तपस्याकरनेवाला  
 पारिजातक कल्पवृक्ष बकाइन बकैन  
 पारितथ्या, बालाकागहना वंदी बंदिया  
 कटिया इत्यादि  
 पारिपार्श्वक चारोंतरफे  
 पारिप्लव चंचल जास्थिरनहा  
 पारिभद्र बकाइनकापद  
 पारिभद्रक देवदारु  
 पारिभाष्य कट  
 पारियात्रक पर्यटकानाम  
 पारियात्रिक  
 पारिपद् महादेवकाममथसेजक  
 पारिपद्य मातृगण [ मादि  
 पारिहार्य हाथकेपट्टुचाकागहना प्रह्वी  
 पारी हाथीकेपांवकीरस्सीवजंजी



पारुष्य, बहुवचनकहाव, हद्वाकडीवाँत  
 पार्थिव, राजा, मनुष्योंकास्वामी  
 पार्वती हिमालयकीपुत्रीश्रीमहादेवकी।  
 प्राणप्यारी  
 पार्वतीनंदन, स्वामिकार्तिक  
 पार्श्व, पशुरी पांजर, [ कावगलपर,  
 पार्श्वभाग पशुरीकाभाग हाथीआदि  
 पार्श्वस्थ पशुरीकीहड्डी  
 पाण्डि, बेंडी पैरकापिछाड़ी छोटा  
 पाण्डिग्राह पीछेचलनेवाला  
 पालघ्न, हण धांधवाअकराआदि  
 पालकी, पालक, पलांकी कुदु  
 पालाश, पत्ताकारंगहरा  
 पालि, खद्दादिकाकब्जा, तलवारकी  
 धार कोन, गोद, पांति चीन्हा गांव,  
 पालिटी } कालातंदू  
 पालिधी }  
 पाली, खद्दादिकाअंतभाग  
 पाल्लवा, मारकाखेलपटाआदि  
 पात्रक, आगि अतश, [ पांशा,  
 पाश, वालोंकासमूह फसरी जुवांके  
 पाशक, जुवांकेपांशे  
 पाशिन, बरुण जोफसरीआयुधरखतेह  
 पाशुपत, गुमा  
 पाशुपाल्य, खेती पशुओंकापालना  
 पाश्रात्य, अंत आविर  
 पाश्या, बहुतसेपांशे  
 पापाण, पत्थर  
 पापाणादारण, दांभी छेनी  
 पिक, कोकिला  
 पिंग, पीतरंग

पिंगल, पीलारंग सूर्यकेबाईतरफ  
 पिगला, दिग्गजकीपत्नी इथिनी  
 पिचड, १) पेट, पशुकाअंग  
 पिचडिल, तादारा, बड़पटा  
 पिचिडला, तादारा, बड़पटा  
 पिचिड, १) पेट, पशुकाअंग  
 पिचु, कपास रुई  
 पिचुमंद, नाव नावी  
 पिचुमर्द, नाव नावी  
 पिचुला, भिज एकवृत्तकानाम  
 पिचुट, अंग, नेपालीरांग  
 पिचुट, मोरपंख पुष्कारिकेपखने  
 पिचुटा, शिल्मिली औषध भातकामाड  
 पिचुडल, साड़ीसहितदहीपटा चिकना  
 पिचुडला, श्यामरकापेट, सेरसई  
 पिंज, बध मारडालना-नाजकीराशि  
 पिंजर, हरतार पत्तीकापिंजरा  
 पिंजल, बहुतव्याकुलसेनाआदि  
 पिंजुष, कानकापैल  
 पिट, पेटरावांशआदिका  
 पिटक, फोडा फुरिया पेंडरिया, पेंडार  
 पिठर, थाली स्थाली मोधामथानी  
 पिंड, हाथीकाकुंभ गंधरस मिमियाई लोह  
 माटीआदिका, ब्रामआदिकापेटारा  
 पिंडक, लोहान धूप  
 पिंडिका, पैदाकेनीचकीलकडी नाह  
 पिंडी }  
 पिडीतक, मैनफलकावृत्त गोला  
 पिणयाक, तिलकापीना  
 पितरौ, मातापिता महतारीवाप, [ पिना,  
 पिनामह, प्रक्षा वाचा वापकावाप पिताका

पितृ	पिता वाप	पितृक	पुवा चरा चावलआदिकेपिसा
पितृदान	पितरोंकेलियेदान	पिष्ट	पृथ्वीतल भूलोक [नकीवस्तु]
पितृपति	यमराज दक्षिणकेस्वामी	पिष्टपत्र	तवाकराही
पितृपितृ	पिताकापिता बाबा [माता]	पिष्टत	चूरणसुगंधित
पितृप्रसू	सांभ दिनकाश्रत पितरोंकी	पीठ	आसन विद्याना [अनेसेपीडा]
पितृयज्ञ	तर्पण पितरोंकाजलदेना	पीडन	पीडा दूसरेराजाकोचढ़कर
पितृवन	रमसान मरघटा	पीडा	दुःख
पितृव्य	पिताकाभाई चाचा काका	पीत	पीलारंग
पितृसन्निभ	पिताकेगुल्य	पीतदारु	देवदारु
पित्त	पित्त [अंगुरीकामध्य]	पीतद्रु	सरला देवदारु
पितृय	पितरोंकेलिये पितृतीर्थ अंगूठा	पीतने	अवाडा कुंकुम केशर हरिताल
पित्सत्	पत्नीचिह्न	पीतसारक	असना पीतशाल
पिधान	द्विपजाना मंदना	पीता	हरदी [पीलाकपडा]
पिनद	कवचादिकात्यांगकरना	पीतांबर	विष्णु जापीतवस्त्रपहिरे है
पिनाक	शिवकाधनुष धूलिकीबपीअशुल	पीति	घोडा पीनाकिसीवस्तुका
पिनाकिन्	महादेव	पीन	मोटा
पिपासा	पियांस तृपा	पीनस	रोग
पिपीलिका	किरवा चाँटीआदि	पीनोष्णी	निसगोआदिकेमोटेधनहो
पिप्पल	पीपरकावृक्ष	पीयूष	अमृत नडाबियाईगाकादूध
पिप्पलि	पीपरि	पीलु	पिलुवाकावृक्ष फूलभेद राधी
पिप्पली		हड्डीकादुकडा बाण	
पिप्पलीमूल	पिपरामू	पीलुपर्ण	मुरहरी मारयेण कुंदु
पिप्लु	देहमलहसुनेकाचिन्ह	पीवन्	मोटा
पिमाल	चार चिरीजी	पीवर	मोटा प्रकर्ष अधिकता
पिप्ल	चिपरा जिसकी आँखेवहाकरे	पीवरस्तनी	मोटेधनवालीगाँव्यादि
पिशंग	पीतरंग	पुंश्वली	दूसरेपुरुषोंसेरमणकरनेवाली
पिशाच	देवजाति		द्विनार
पिशित	मांस	पुंस्	पुरुष मर्द मनुष्य
पिशुन	चुगुल लालचंदन द्रु	पुकस	चांडाल महानीच
पिशुना	शागभेद अस्पर्क	पुंग	बाणकीफाँक

पुंगव श्रेष्ठ उत्तम	पुरः गुरकावृत्त मकान नगरः
पुन्ड्र दुग्ध पुंज	पुरःसर आगेचलनेवाला
पुंज नानकीराशि समूह डेर [चेजाताहै]	पुरतस आगे अगाह
पुत्रभेद नोनदीआदिमें भँवरकापानीनी-	पुरद्वार नगरकाद्वार फाटकशहरका
पुत्रभेदन नगर शहर	पुरंदर इंद्र
पुत्री पत्ताकीदोनई पुत्रइत्यादि [अग्नि	पुरंधि पतिव्रतास्त्री जोपतिकीसेवामें
पुण्डरीक दिशागज कमल बाप सिंह	पुरंध्री रहै
पुंडरीकाक्ष विष्णु जिसकेकमलसेनेत्रहों-	पुरस आगे अधिक ऊपर
पुण्डर्य पुण्डरीय स्थलकमल	पुरस्कृत पूजित आगेकिया
पुण्ड्र ऊत्तभेद पौंडा गन्नाआदि	पुरस्तात पूर्वदिशा प्रथम व्यतीतमें
पुण्य शुभकर्म धर्म सुंदर स्नानादिक्रिया	वैतिकालमें आगेसेआगे
पुण्यक व्रतचांद्रायणादि नियम	पुरह बहुत अधिक [होनेवाला
पुण्यजन राक्षस किञ्चर	पुरा बहुतदिनकीबात निकट आरंभ
पुण्यजनेश्वर कुचेर [चलकामध्य	पुराण जिसमेंसर्गप्रतिसर्गवंशमन्वंतर
पुण्यभूमि आर्यावर्तहिमालयविंध्या-	वंशकाचरित्रवर्णनहो प्राचीन पुराना
पुण्यवत् भाग्यवान्जोपुण्यकरताहै	पुराणपुरुष विष्णु जोपुरानेपुरुषहै-
पुत्तिका ममाक्षीमच्छीकाभेद	पुरातन पुरानीबात पुराना [भारतआदि
पुत्र लडका बेटा	पुरावृत्त पूर्वकावृत्तांत इतिहास महा-
पुत्रिका गुड़िया लडकी बंदी	पुरी नगर शहर
पुत्री लडकालडकी	पुरीतन आंत देहमेंसबजीवाँकेहोतीहै
पुद्गल आत्मा सुंदरमूर्ति	पुरीष विष्ठा गू
पुंघ्वज मूस चूहा	पुरु बहुत अधिक [मनुष्य मर्द
पुनः पुनः बार बार फिर-फिर	पुरुष आत्मा देहकामध्यत पुत्रागवृत्त
पुनर पहिलेकेउपरांत भेद अलगकरनेमें	पुरुषोत्तम विष्णु जोपुरुषोंमेंउत्तमहै
पुनर्नव नाखून नह जोबार-बारनयेहोतेहैं	पुरुह अधिक बहुत [जातेहैं
पुनर्नवा गदापुरनिया घेंदुली	पुरुहृत इंद्र जो यज्ञादिमेंपथमवृत्तापे
पुनर्भव नाखून नह [राख्याहहो	पुरोग
पुनर्भू जिसस्त्रीकाएकब्याहहोकरदूस-	पुरोगाम } आगेचले आगेचलने
पुत्राग वृत्तभेद फूलवृत्त	पुरोगामिन् } वाला
पुमस पुरुष मर्द मनुष्य	पुरोडाश यज्ञकीखीर चमसीपिसानकी
	पुरोधस पुरोधित उपरोहित कुलगुरु

पुरोभागिन्, किसीकाममेंजोदोपही। विचारै	पृग सुपारीकावृत्त समूह
पुरोहित उपरहित-	पूजन पूजाकरना
पुलाक -भूसी कगकी इत्यादि	पूजा = पूजा देवताआदिकोस्नानादि
पुलिन नदीकाकिनारा	पूजित । पूजाकोप्राप्तहुवा
पुलिंद -स्लेक्षजाति-	पूज्य पूजाकरनेकेयोग्य।समुद्र
पुलोमजा इंद्राणी इद्रकीपत्नी	पूत, पवित्र शुद्ध-वसाईपछोरीधान्य।
पुपित पुष्ट पालाहुआ	साफकरना धोना
पुष्कर अकाश जल कमल पुष्करमूल, बाजाकामुख खड्गकामध्य पुष्कर- तीर्थ कूट द्वीप सर्प गरुड हांथीकी शुद्धकाआगेकाभाग	पूतना ।हर-जोराक्षसीकृष्णनेमारी
पुष्कराह सारसपत्नी	पूतिक काटेवालाकंजवृत्त
पुष्करिणी छोटीतलैया जिनमेंकमलहों,	पूतिकरज देवदारु देवदार सरला,
पुष्कल अतिसुंदर बहुतउत्तम	पूतिकाष्ठ दुर्गंध बोह वसाना
पुष्ट पोडा, पाला	पूतिगंधि वसुकी वसुची
पुष्प फूल स्त्रीकामासिकुर्म [कौशीस	पूतिफली
पुष्पक, कुबेरकाविमान जस्ता फूलधातु	पूतिक
पुष्पकेतु फलधातु जस्ता	पूतिकरज काटेवालाकंजावृत्त
पुष्पदत्त दिशागज दिग्गज [ धनुषहै	पूतीकरज
पुष्पधन्वन् कामदेव जिसकाफूलोंका	पूतीकरज
पुष्पफल कंथाकावृत्त । [गाड़ीआदि।	पूष पूषा वडाआदि चाउरकेपिसानकी वस्तु फेनांपानीका
पुष्परथ राजादिकोंकाशोभार्थरथ सेज	पूर नगर शहर. [ पूरहोना
पुष्परस - फलकारस फूलकीमिठाई	पूर पानीकामगह पानीबढ़ना याव
पुष्पलिह भेंवरा जोफूलकास्वादलेताहै	पूरणी ज्यामरकावृत्त
पुष्पावती रजस्वलास्त्री	पूरित पूर्ण संपूर्ण
पुष्पवती एकमेसूर्यचंद्रमाकाउच्चारण	पूरुप पुरुष मर्द
पुष्पसमय वसंत फूलहोनेकासमय	पूर्ण संपूर्ण संव जोकुछभीकमनहो
पुष्य नक्षत्र	पूर्णकुंभ भरोघडापानीसे पूर्णपट
पुष्परथ राजावोंकेशोभाकेरथ [धनाना	पूर्णमाँ पूर्णमासी
पुस्त माटीकाठआदिकापुतलीआदि	पूत वावलीकुटादेवालयआदि
	पूर्व, मध्य आदि पहिले दिशा पूर्ण त्रया
	पूर्वज वडाभाई पुरिखा पहिलेहुवा
	पूर्वदेव दैत्य पहिलेदेवता
	पूर्वपर्वत, उदयपर्वत जहांसूर्यउदयहोताहै

पूर्वा = दिशा	पृषदाज्य } दहीमैमिलायी
पूर्वेद्यम् । पहिलेदिन	पृषातक }
पूषन् सूर्यदेवताभेद	पृष्ठ, पीठि, पीछे
पृका शागभेद	पृष्ठवंशाधर- पीठिकेतीनिहाड-
पृक्ति- छूना स्पर्शकरना	पृष्ठास्थि पीठकीहड्डी रीर- [कासमूह
पृच्छा पूछना प्रपन	पृष्ठच जिसघोड़ेकीसुंदरपीठहो पीछे
पृतना सेना सेनाकासंख्याभेद	पृष्णि छोटीदेहकामतुप्य. [ दिअत.
पृथक बर्जना अलग	पेचक उल्लु घुनुवा हाथीकेपूछकाआ
पृथक्पूर्णा पिटवनिआपि	पेटक } भुंड समूह पेटारा कपडाआदि
पृथगात्मता अलगहोना भिन्नवि	पेटा } धरनेका
चार आत्माईश्वरसेपृथक्इत्यादि	पेटो } पेटरिया
पृथग्जन 'नीच' अंगे पूर्व	पेयूस अमृत
पृथग्विध बहुरूप बहुतभकार	पेलव, वीरर विरला वीडर
पृथ्वी } जमीन धरती	पेशल 'चतुर विरला वीरर
पृथु कालाजीरा हींगकोबृत्त-चोडा म	पेशि } अंडा मामकीबोटी सुंदर
कर्ष बड़ाई एकराजाकोनाम	पेशी }
पृथुक बोलक बच्चा बोदेघानभुजेचा-	पैटर बटुईकापकामांसअन्नादि
बल भुजियाचाउर	पैतृवस्त्रेय } फूफूकालइका अपनेबाप
पृथुरामन् मद्धरी	पैतृवस्त्रीय } कीबहिनिकावेदा
पृथुल चोडा फेला	पैत्र } रमहीनाकापितरोकादिन अंगुठा
पृथ्वी धरती कालाजीरा हींगकोबृत्त	पैत्र्य } अगुरीकेमध्यपितृतीर्थ
पृथ्वीका इलाचीबृत्त	पोटगल, काश नरकुल [केममानचिन्हहो
पृडाकु- सांप	पोडा जिसस्त्रीकेदाहीमुच्छआदि पुरुष
पृश्नि सूर्यकीकिरण छोटीदेहका वडना	पोत बच्चा, बालक स्थान वमनेका
पृश्निर्णा पिटवनि-	स्थान नाव [ वैपारी.
पृषत् पानीकेबूद बूदी	पोतवपिन् जहजरीरोजिगारी नारका
पृषत पानीकेबूद डिरनकीजाति	पोतवाह नावमें बेटदुष्टनीषाँकोजानकर
पृषत्क बाण तीर	मारनेवाला पानीकाशिकारी
पृषदश्च बाघु हवा	पोतापान छोटे मद्धरीअडोकादेग
	पोत्रिन् सुअरवनेग. [ काअगाडी

पोत्र धस्त्र सुअरकेमुंहकाअगाड़ी हल  
 पोष्ट स्वामी पति भतार  
 पौगंड जिसकाकुडअंगकमहो लंगड़ा  
 कानाआदि अवस्था पाँचतैऊपर  
 १० तक

पौंडर्य स्थलकर्मल पौंडर्य  
 पौत्री पोती लड़केकीलड़की  
 पौर वृणभेद रोहिंसवृण  
 पौरस्त्य पहिलेकाहुवा आगेहुवा  
 पौरुष, मनुष्योंकाप्रमाण पुरुषकाकर्मतेज  
 पौरोगव रोसईकामालिक रोसईदार  
 पौर्णमास पूर्णमासीकायज्ञ  
 पौर्णमासी पूर्णमासी  
 पौलस्त्य, कुबेर विश्वश्रवामुनि रावणादि  
 पौलि पकाच भूजेजयआदि  
 पौप पूसमहीना  
 पौषी पुष्यनक्षत्रकीपूर्णमासी  
 पौष्यक जस्ता फूलधातु  
 प्याट संबोधनार्थ  
 प्रकंपन बड़ीवायु आंधी बँहरी  
 प्रकटोदित प्रकटवात  
 प्रकर्ष अधिकता अतिशय  
 प्रकांड शुभ प्रशंसा पेंदकीजड़सेजोम-  
 थममोटीडारें  
 प्रकामम् जैसेइच्छा यथारुचि  
 प्रकार भेद बराबरी  
 प्रकाश, उजेरा घाम बहुतप्रसिद्ध बहुतहंसी  
 प्रकीर्णक चामर चंवरी  
 प्रकीर्य बटिवालाकंजकापेंद  
 प्रकृति सत्त्वादिगुणोंकीतुल्यअवस्था  
 स्वभाव गज्यकेअंग७ राजा१मंत्री

२ नगर ३ किला ४ खजाना ५  
 सेना ६ परस्परउपकारीमित्र ७  
 योनि लिंग ८ - ९  
 प्रकोष्ठ टिहुनीकेनीचेहाथ  
 प्रक्रम प्रथमकाआरंभ पहिलेपहिल  
 प्रक्रिया अधिकार बढोवस्तकरना  
 कायदा  
 प्रकण } बीणाकाशब्द  
 प्रकाण }  
 प्रक्षेडन लोहकावाण  
 प्रगंड टिहुनीकेऊपरहाथ  
 प्रगतजानुक घातादिरोगसेजिसके पैर  
 कीगांठीफैलीहों  
 प्रगल्भ ढीठ उत्तरटेनेमेंशीघ्रबुद्धिहो  
 प्रगाढ, बहुतकरप्रदणकरना पौदा मजबूत  
 प्रगुण सूधा जोदेदानहो  
 प्रगे प्रातःकाल सबेरा भोर  
 प्रग्रह तराजूकीढांडीकेबीचकीरस्सी  
 जिसेपकड़तोलेतेहैं घोडाबैलका  
 गिरांव किरण बांड कैंट. [ भूभररी  
 प्रग्रीव वृत्तकाशिर ठुगु भरखा  
 प्रगण } दरवाजेकेवाहिरकेओटा  
 प्रघाण }  
 प्रचक्र सेनाकाचलना. [ आघाना  
 प्रचलायित जिसकोबहुतनीटलगीहो  
 प्रचुर बहुत  
 प्रचेतस् वरण अलकेगजा  
 प्रचोदनी भटकटैया  
 प्रच्छदपट जिसपरसेरीणाआदि बां  
 धाजाय सोंदार घोषा  
 प्रच्छन्न छिपादरजा गिरकी

प्रच्छादिका, वातकारोग बोकना कैंहोना  
 प्रजन गर्भधारणहोनास्त्रीआदिके  
 प्रजविन् तुर्त शीघ्रता  
 प्रजा संतति पुत्रपौत्रादि रैयत  
 प्रजाता जिसस्त्रीकेपुत्रादिपैदाहुआहो  
 प्रजापति ब्रह्मा जिन्होंनेसंभवप्रजावनाई  
 प्रजावती भाईकीस्त्री जिसस्त्रीकेपुत्र  
 पौत्रादिहों [ बुद्धिमान  
 प्रज्ञ जिसकीगांठीपैरकोफैलीहों पंडित  
 प्रज्ञा बुद्धि अकिल बुद्धिमानस्त्री  
 प्रज्ञान बुद्धि चिन्ह  
 प्रभु जिसकीजांयेंफैलीहों  
 प्रडीन पत्तियोंकातिरद्धाउडना  
 प्रणय प्रेम बेग एकट्टाहोना स्थानमें  
 जाना फैलाना [ रूपहै  
 प्रणव ओंकार ओम् ॐ जो परब्रह्मका  
 प्रणाद गुणकेअमुरागसेउठाशब्द ये  
 बड़ेउत्तमहै इत्यादि  
 प्रणाली जलबहनेकेनालीनारा  
 प्रणिभान समझाना  
 प्रणिधि चार भेदिहाइत छिपकरकाम  
 करनेवाला मार्यना  
 प्रणिहित प्राप्त लाभ  
 प्रणीत संवादिसेसंस्कृतअग्नि व्यंजन-  
 पदार्थमेघृतादिसंयुक्तकरना  
 प्रणुन स्तुति नमस्कारादि  
 प्रणय वश्येमाप्त वरहुआ  
 प्रवति लता पैलि  
 प्रवन पुराना प्राचीन  
 प्रवत् फैलायाहाय हायफैलाना

प्रताप, सजानादंडसेनासेहुवातेज प्रभाव  
 प्रतापस सपेदमदार  
 प्रति मुख्यकामदार नायव व्याप्तिमे :  
 जैमेतीर्थ २ प्रतिजाताहै लक्षणा  
 जैसेवृत्तकीडारप्रतिविजुलीप्रकाश  
 प्रतिकर्मन् शोभाकरना गहना आदि  
 पहिराना केशरिआदिसेलेपकरना  
 प्रतिकूल उलटा विपरीत  
 प्रतिकृति प्रतिमा मूर्ति  
 प्रतिकृष्ट अथम नीच  
 प्रतिक्रिस्त किसीकेऐश्वर्यआदिकीविके-  
 दतामानना शर्षाकरना पिडाही  
 प्रतिख्याति बहुतप्रसिद्ध [ निंदा ]  
 प्रतिग्रह सेनाका पिडाही दानलेना  
 प्रतिग्राह ग्रहणकरना सेनाकापिडाही  
 प्रतिघा क्रोध गुस्ता  
 प्रतिघातन मारडालना वधकरना  
 प्रतिच्छाया प्रतिमा मूर्ति  
 प्रतिजागर वस्तुओंकादेखना  
 प्रतिव्रात भंगीकारकरना प्रतिज्ञाकरना  
 प्रतिव्रात भंगीकार ग्रहण  
 प्रतिदान लेनदेन बदला व्यवहार  
 धरोहरदेना  
 प्रतिध्वान शब्दकेप्रतिदूमराशब्द जैसे  
 रानिमेआवाजदेवैतादूमराशब्दना-  
 लावशिवालपादिसेहोताहै  
 प्रतिनिधि पूर्ण यवजी  
 प्रतिपन् परेवा बुद्धि अकिल  
 परिपन्न प्राप्तहोना जानलेना  
 प्रतिपाटन दानकरना देना

पभात प्रातःकाल सवेरा	प्रयाम धन धान्यादिमैवहुतश्रादर क
प्रभाव राजावोंकीशक्ति खजानायादि	प्रयुद्धार्थ } - बहुतर संग्रामकाउद्योग
सेप्रकटतेज प्रताप	मयागार्थ }
प्रभिन्न हांथीकामदबहना	प्रलंबघ्न बलदेवजिन्होंनेप्रलंबवासुरमार
प्रभु स्वामी मालिक	प्रलय, कल्पकामंत पसीनाकानाश मृत्यु
प्रभृत बहुतअधिक [ शिखाकामाला	प्रलाप परस्परवार्त्ता बतकहाव [ रहा
प्रभृष्टरु जोमालाचोटीमेंलटकरताहो	प्रवण चढ़ाउतारखालीपृथ्वी नर्मचौ
प्रथम मातृगण	प्रत्रयम् वृद्ध वृद्धा वृद्धा
प्रथमन मारडालना बध	प्रवर्ह श्रेष्ठ मुख्य
प्रथमाधित महादेव मातृगणकेस्वामी	प्रवह जलादिकावाहरजाना
प्रपट हर्ष आनंद खुसी [या रानीवाग	प्रवहण स्त्रियोंकीसवारी बहलआदि
प्रमदवन राजावोंकेमहलकेभीतरबगि-	प्रवल्दिका पहली छिपेअर्थकीवात
प्रमदा स्त्री आनंददेनेवाली	प्रवारण तुलादानादि
प्रमनस प्रमन्नपन खुशीहोना	प्रवाल, वीणाकाटण्डा मृगा कोमलपत्ता
प्रमा यथार्थज्ञानना ठीक २. जानना	प्रवाह जलादिकोंकाबहना
प्रमाण धुवांआदि सीमा इद इतनाही	प्रवासन मारडालना परदेशपठेदेना
प्रमाणकरनेवाला नित्य मयीदा	प्रवाहिका संग्रहणीरोग धारवारभाडा
शास्त्र सत्यबोलनेवाला	प्रविन्याति बहुतप्रमिद. [ होना. ]
प्रमाट योग्यकर्ममेंस्थिरचित्तनहोना	प्रविदारण संग्राम लड़ाई युद्ध
प्रमापण } मारण बध हिंसा	प्रविश्लेष बहुतविपोग बहुतदिनमुला-
प्रमापन } मारण बध हिंसा	प्रवीण निपुण चतुर. [ वातनहोना ]
प्रमिति यथार्थज्ञान ठीकरजानना	प्रवृत्ति ठीक २. लोकरुकीवानैकरहना न
प्रमीत बधमेंपशुकामारना मरा	लादिकीहमेशःकीचाल
प्रमीला आंगीमिलमिलाना सोनेके	प्रवृद्ध बढा बढना फैलना बढ़तेचले
पहिलेऔरपीलेश्रमआदिसेसबई-	आना ऊंचाहोना
द्वियोंकीशिथिलता	प्रवृक मुख्य श्रेष्ठ. [ हाथीकीभून-
प्रमत्त मुख्य श्रेष्ठ उत्तम	प्रवेणी मर्पकेगमानस्येमियोंकेवाल
प्रमुदित प्रमन्नहुआ खुशीहोना	प्रवेष्ट भुजा बांह
प्रमोट आनंद खुशी प्रमन्नता	प्रव्यक्त स्पष्ट प्रकट
प्रपन पवित्र शुद्ध	प्रश्र पश्रकरना पृजना
प्रपरा पढ़ानधीमेंपढाअन्न काठ [ रना.	प्रश्रय प्रेम नम्रता



प्रश्रित नम्र शीलस्वभाव  
 प्रष्ट आगेचलनेवाला. [ कोवंधाबैल.  
 प्रष्टवाह गाड़ीआदिकेजुवांकेपासजोतने  
 प्रष्टाही नईगाभिनिगौ कलोरिगाभिनि  
 प्रमन्न निर्मलजल खुस  
 प्रसन्नता, प्रसन्नहोना खुसहोना निर्मलता  
 प्रसन्ना मदिरा जिसेपीकरमनुष्यप्रसन्न  
 होतेहैं  
 प्रसभ बलात्कार बेगसेबलकरना  
 प्रसर प्रेम बेग प्रावआदिकाफैलना  
 प्रसरण } सेनाकोसबतरफव्याप्तहोना  
 प्रसरण } घेरलेना  
 प्रसरणी }  
 प्रसव गर्भसेछूटना पैदाहोना वशहोना  
 प्रसवबंधन बांदा जिसकेहोनेसेदृक्का  
 फूलनाफलनाबंधहोताहै  
 प्रसव्य चलटा बिपरीत  
 प्रसद्य हठ जिद्दि  
 प्रसाद् प्रसन्नहोना निर्मलहोना [ हिरना  
 प्रसाधन शोभाकरना गहेनाआदि प  
 प्रसाधनी हाथीदांतआदिकीकंधीककई  
 प्रसाधित सिगारकिया गहनाआदि  
 पहिराया  
 प्रसारिणी गंधपसारिणीऔंपधि  
 प्रसारिन् फैलानेफैलनेकास्वभाव  
 प्रसित अपनेतात्पर्यमेंयुक्तरहना मत  
 लवकेकाममेंरहना  
 प्रसिद्ध शोभित मशहूर  
 प्रसृ माता महतारी घोड़ी दृणभेद  
 प्रसूना . जिसन्नीकेपुत्रादिहुयेहों  
 प्रसूति गर्भसेपैदाहोना गर्भमेछूटना

प्रसूतिका लडकेआदिकीमहतारी  
 प्रसूतिज, कष्ट दुःख जीवकोजो जन्मादिमें  
 प्रसून फूल फल पैदाहोना. [ कष्ट. ]  
 प्रसूजनयितारौ मातापिता महतारीवाप  
 प्रसृत } हाथमेंपसरकरना पसर  
 प्रसृति }  
 प्रसृता जांव रान  
 प्रसेव धैलीकपडाकी  
 प्रसेवक बीणाआदिकारोंवा -  
 प्रस्तर पत्थर कुशकीमूठी कुशकीशय्या  
 प्रस्ताव अवसर प्रसंग मौका  
 प्रस्थ बराबरपहाडकीधरती ? सेर पहा  
 प्रस्थपुष्प मरुवा जंवीर. [ इकाअगाड़ी. ]  
 प्रस्थमान पसरसेप्रमाण  
 प्रस्थान यात्राकरना प्रस्थानधरना  
 प्रस्फोटन मूपअन्नपडोरनेका  
 प्रश्रावण पटाडमेपानीगिरकरजहांफैलै  
 प्रस्राव मूत्र पेशाव  
 प्रहर पहरभर दिनरातमेंआठप्रहर  
 प्रहरण आयुध हाथियार [ मंत्री  
 प्रहस्त अंगुरीफैलायाहाथ रावणका  
 महारण महादान तुलादानादि  
 प्रदि कुआँ कूप  
 प्रहेलिका पहेली छिपेअर्थकीवात  
 प्रह्लन्न आनंदहुआ खुस  
 प्रांशु उंचापुष्टपुत्रादि  
 प्राक् वीतेसमय पूर्वदिशा  
 प्राकार नगरादिकेआसपासकंठेआ  
 प्राकृत नीच छुद्र. [ दिमेपेराकरना ]  
 प्राग्दक्षिण पूर्वमिलनादक्षिणकादेश

प्रभात	प्रातःकाल सवेरा	प्रयाम	धन धान्यादिमेवहुतआदर व
प्रभाव	राजावोंकीशक्ति खजानाआदि सप्रकृतेज प्रताप	प्रयुद्धार्थ प्रयागार्थ	} बहुतकर सग्रामकाउद्योग
प्रभिन्न	हाथीकामदरहना	प्रलवध्न	बलदेवजिन्होंनेप्रलवासुरमार
प्रभु	स्वामी मालिक	प्रलय	कल्पकामत पसीनाकानाश मृत्यु
प्रभूत	बहुतअधिक [ शिखाकामाला	प्रलाप	परस्परपार्त्ता पतकहाव [ रहा
प्रभृष्टक	जोमालाचोटीमेंलटकताहो	प्रवण	चढाउतारखालीपृथ्वी नर्मचाँ
प्रथम	मातृगण	प्रवयम्	बृद्ध बृद्धा बृद्धा
प्रमथन	मारडालना बध	प्रवर्ह	श्रेष्ठ मुरग्य
प्रमथाधित	महादेव मातृगणकेस्वामी	प्रवह	जलादिवावाहरजाना
प्रपट्ट	हर्ष आनन्द खुसी [ या रानीवाग	प्रवहण	स्त्रियोंकीसवारी बहलआदि
प्रपद्बन	राजावोंकेमहलकेभीतरवणि	प्रवल्लिका	पहेली छिपेअर्थकीबात
प्रमदा	स्त्री आनन्ददेनवाली	प्रवारण	तुलादानादि
प्रमनस	प्रमन्नमन खुशीहोना	प्रवाल	शीलाकादण्डा भूगा कामलपत्ता
प्रमा	यथार्थजानना ठीक २ जानना	प्रवाह	जलादिकोंकाबहना
प्रमाण	ध्रुवांआदि सीमा हद्द इतनाही प्रमाणकरनेवाला नित्य मर्यादा शास्त्र सत्यसेलनेवाला	प्रवामन	मारडालना परदेशपठेदेना
प्रमाद	योग्यकर्ममेंस्थिरचित्तनहोना	प्रवाहिका	सप्रहणीरोग धारधारभाडा
प्रमापण	} मारण बध हिंसा	प्रविग्न्याति	बहुतप्रसिद्ध [ होना ]
प्रमापन		प्रविदारण	सग्राम लडाई युद्ध
प्रमिति	यथार्थज्ञान ठीक २ जानना	प्रविश्रेप	बहुतवियोग बहुतदिनमुना
प्रमीत	यथार्थशुक्रामारना मरा	प्रवीण	निपुण चतुर [ जाननहोना ]
प्रमीला	आंखीमिलामिलाना सोनेके पहिले औरपीछेअमआदिसेसबई दियोंकीशिथिलता	प्रवृत्ति	ठीक २ लोककीयाँनैरहना ज लादिकीहमेशःकीवाल
प्रमुख	मुख्य श्रेष्ठ उत्तम	प्रवृद्ध	बडा बढ़ना फैलना बढ़नेचले आना ऊचाहोना
प्रमुदित	प्रसन्नहुआ खुशीहोना	प्रवेक	मुख्य श्रेष्ठ [ हाथीकीभल
प्रमाद	मानद खुशी प्रमन्नता	प्रवेणी	मर्पतेमपानरयोगियोंनेरान
प्रपन	परिभ्र शुद्ध	प्रवेष्ट	भुना चाह
प्रपन्न	पकानधीसेपकाअन्नकाठ [ रना	प्रव्यक्त	स्पष्ट पकट
		प्रपन्न	पक्ष करना पृच्छा
		प्रप्रय	प्रम नम्रता

प्रश्रित नम्र शीलस्वभाव  
 प्रष्ट आगेचलनेवाला। [ कोबंधाबैल.  
 प्रष्टवाह गाड़ीआदिकेजुवाकेपासजोतने  
 प्रष्टौही नईगाभिनिगौ कलोरिगाभिनि  
 प्रसन्न निर्मलजल खुस  
 प्रसन्नता, प्रसन्नहोना खुसहोना निर्मलता  
 प्रसन्ना मदिरा जिसेपीकरमनुष्यप्रसन्न  
 होतेहैं  
 प्रसभ बलात्कार बेगसेवलकरना  
 प्रसर प्रेम बेग घावआदिकाफैलना  
 प्रसरण } सेनाकोसवतरफव्याप्तहोना  
 प्रसरण } घेरलेना  
 प्रसरणी }  
 प्रसव गर्भसेछूटना पैदाहोना बशहोना  
 प्रसवबंधन बांदा जिसकेहोनेसेवृक्षका  
 फूलनाफलनाबंधहोताहै  
 प्रसव्य उलटा विपरीत  
 प्रसन्न हठ जिदि  
 प्रसाद् प्रसन्नहोना निर्मलहोना [ हिरना  
 प्रसादन शोभाकरना गहेनाआदि प  
 प्रसाधनी हाथीदांतआदिकीकंधीककई  
 प्रसाधित सिगारकिया गहेनाआदि  
 पहिराया  
 प्रसाधिणी गंधपसारिणीऔंपधि  
 प्रसारिन् फैलानेफैलनेकास्वभाव  
 प्रसित अपनेतात्पर्यमेंयुक्तरहना मत-  
 लवकेकाममेंरहना  
 प्रसिद्ध शोभित मशहूर  
 प्रसु माता महतारी पोड़ी वृषभेद  
 प्रसूता जिसस्त्रीकेपुत्रादिहुयेहों  
 प्रसूति गर्भसेपैदाहोना गर्भसेछूटना

प्रसूतिका लडकेआदिकीमहतारी  
 प्रसूतिज, कष्ट दुःख जीवकोजो जन्मादिमें  
 प्रसून फूल फल पैदाहोना। [ कष्ट. ]  
 प्रसूजनयितारौ मातापिता महतारीवाप  
 प्रसृत } हाथमेंपसरकरना पसर  
 प्रसृति }  
 प्रसृता जांच रान  
 प्रसेव थैलीकपड़ाकी  
 प्रसेवक वीणाआदिकातोंवा -  
 प्रस्तर पत्थर कुशकीमूठी कुशकीशय्या  
 प्रस्ताव अवसर प्रसंग मौका  
 प्रस्थ बराबरपहाड़कीधरती १ सेर पहा  
 प्रस्थपुष्प मरुवा जंवीर [ इकाअगाड़ी ]  
 प्रस्थमान पसरसेप्रमाण  
 प्रस्थान यात्राकरना प्रस्थानधरना  
 प्रस्फोटन सूपअन्नपछोरनेका  
 प्रश्रावण पहाड़सेपानीगिरकरजहाँफैले  
 प्रस्ताव सूत्र पेशाव  
 प्रहर पहरभर दिनरातमेंआठप्रहर  
 प्रहरण आयुध हथियार [ मंत्री  
 प्रहस्त अगुरीफैलायाहाथ रावणका  
 प्रहारण महादान तुलादानादि  
 प्रहि कुआँ कूप  
 प्रहेलिका पहेली छिपेअर्थकीवात  
 प्रह्वन्न आनंदहुआ खुस  
 प्रांशु ऊंचापुरुपआदि  
 प्राक् वीतेसमय पूर्वदिशा  
 प्राकार नगरादिकेआसपासकाँटेआ  
 प्राकृत नीच लुद्र. [ दिसेपेराकरना ]  
 प्राग्दक्षिण पूर्वमिलनादक्षिणकादेश

प्राग्वंश होमकेघरसेपूर्वहोमकरानेकरने  
 वालोंकेघर  
 प्राग्भव पूर्वदिशाकाहुआ  
 प्राग्रहर } प्रधान श्रेष्ठ मुख्य  
 प्राश्य }  
 प्रवार -धीआदिकावहना  
 प्रायुष्क } अभ्यागत भित्तारीआ-  
 प्रायार्थिक } दिकाओंकस्मातयाना  
 प्राचिका वनकीमक्खी  
 प्राची पूर्वदिशा पूर्व  
 प्राचीन शहरयाँरकेचारोंओरवाँस बट्ट  
 रआदिकीबँटि पूर्वदिशाकाहुआ  
 प्राचीना पाठा पहाडमूल. [पुराना.]  
 प्राचीनावीत धामहायडठाकरजनेऊ  
 पहिरना अपसव्यहोना [कीबँटि  
 प्राचीर शहरआदिकेवाहरवाँसआदि  
 प्राचेतस वाल्मीक  
 प्राच्य पूर्वदक्षिणमिलादेश  
 प्राजन आँगी चातुक  
 प्राजिपट्ट सारथी रथवान  
 प्राञ्ज पडित बुद्धिमान  
 प्राञ्जा }  
 प्राञ्जी } पण्डिता बुद्धिमानखी  
 प्राज्य, रहुत अधिरु. [ फैमलकरनेवाले.  
 प्राडविशक न्यायाधीश मुकदिमा  
 प्राण हृदयकीवायु पगक्रम प्राण गंध  
 रस मिमियाट  
 प्राणिन् जीव देही मनुष्यादि  
 प्रातर भोग सवेग  
 प्रातिहारक मायायी इंद्रनाली  
 प्राथमकीचिक पदनेमँलगनेवालेलडके  
 प्रथमपढ़नेवाले

प्राहुस् नाम प्रगट प्रकाशहोना  
 प्रादेश अंगूठाअंगुरीफैलाकरवित्ताभर  
 दशअंगुल  
 प्रादेशन ढान देना  
 प्राध्वम् प्रसन्नताई खुसी. [शून्यमार्ग.  
 प्रांतर दूररास्ताछायापानीकेबिना  
 प्राप्त प्राप्त लाभ आजाना  
 प्राप्तपंचच भरजाना मरना  
 प्राप्तरूप पण्डित मनोहर मनजानने  
 वाला स्वरूप  
 प्राप्ति उत्पत्ति लाभ  
 प्राप्य प्राप्तहोनेयोग्य जानेयोग्य  
 प्राभृत वायन नजर भेंट  
 प्राय संन्यासीहोभोजनकात्याग  
 वहुतकर जिससेमरजाय  
 प्रायस बहुतकर प्रायःनईखीमुँडरहोतीहै  
 प्राथित मांगा मांगलिया  
 प्रालंब सृधालटकना जेमेगलेमेमाला  
 प्रालंबिका सोनेकीनाभितकवीमाला  
 पालेय पाला जाडा. [ जंत्रीर. ]  
 पावर }  
 प्राशन } स्पटा मियोंकालुगराआदि.  
 पावरण रजाई दुलाई लिहाफ  
 प्राशृत नीचेवायम धोनीआदि  
 प्राशृप् वर्षा परमात  
 प्राशृपायणी वंरांच. [ फेरनेवानुवाँ  
 प्रासंग गाड़ीकेनुवाँसेदूमगलुवाँ त्रैदि  
 प्रासग्य फेरनेजानेवल  
 प्रासाद देवताआँरगाढाकाभट्टि  
 प्रासिक भालावाँधनेवाला

प्राह पूर्वान्ह दिनकाप्रथमतिहाई  
 प्रिय पति प्यारा दुलहा  
 प्रियक कटंब असना हिरनकीजाति  
 कालाविधारा  
 प्रियगु कालाविधारा कांकुनि  
 प्रियता प्रेम स्नेह प्यार  
 प्रियवद प्यारीवातबोलनेवाला  
 प्रियाल चार चिराँजी  
 प्रीणन वृष्टि किसीकामसेतृप्तहोना  
 प्रीति प्रमन्नहोना आनंद खुसी  
 प्रीति हर्ष आनंद  
 प्रष्ट जरा जलगया  
 प्रेक्षा बुद्धि अकिल नाचदेखना  
 प्रेक्षा दिडोला झूला डोली  
 प्रेक्षित कुडकांपना  
 प्रेत मरा भूत  
 प्रेता नरककेजीव मरीखी  
 प्रेत्य दूसराजन्म मरनेकेबाद  
 प्रेमन् प्रेम स्नेह प्रीति  
 प्रेपण भेजना पठवना  
 प्रेप्य नौकर सेवक टहलुवा  
 प्रेष्ठ धहुतप्यारा अतिप्रिय  
 प्रैप क्लेश पीडा उन्माद  
 प्रैप्य दास नौकर सेवक  
 प्रोक्षण यज्ञपशुक्रामारना  
 प्रोक्षित यहकेलियेपशुक्रामाराजाना  
 प्रोथ,कमरक्रामांसपिड कूल घोडेकीनाक  
 प्रोद्यत बढ़नेवाला  
 प्रोप टाह भस्महोना  
 प्रोष्ठपदा पूर्वभाद्रपदउत्तरभाद्रपदनक्षत्र

प्रोष्ठी सहरीमन्त्री  
 प्रौष्ठपद भाद्रपद भाद्रौमहीना  
 प्रौढ बहुतबढ़ना  
 प्रौढा चतुराखी  
 पुत्त पकरिया गंठी लाखीपिपरी  
 पुव छोटनीवाव डोंगी मेहुक मँझुका के-  
 वटिआमोथा उलरना वानर शब्द  
 कोरंडवपत्ती म्लेच्छजाति चांडाल  
 पुवग वानर मँझुका  
 पुवंग वानर  
 पुवंगम वानर मँझुका मेहुक  
 पुत्त पकरियाकाफल  
 पुीहन् चांडतरफपेटमेमांसपिड पिलही  
 प्लीहशुत्र औपधि रक्तरोहिडा  
 प्लुत घोड़ेकीचौकचाल स्वरभेद  
 प्लुष्ट जरा जलना  
 प्लोप टाह भस्महोना  
 प्लात भोजन खाना

( फ )

फंजिका भारंगी ब्राह्मीऔषधि  
 फट्ट } सांपकाफन  
 फला }  
 फणाधर सांप  
 फण्जिक सपेदमरुवा जंवीर  
 फण्ण सांप  
 फल ढाल जिसकाठमेंढलकरफाललग  
 ताहै फल कैयाआदि कारणसे  
 किया जैसेपशुकाफलस्वर्ग  
 फलरु ढाल  
 फलरुपाणि\* ढालवांधनेवाला ढलइत

फलत्रिक अंवरारहरवहेरा  
 फलपांकाता औषधि धानजवादि  
 फलपूर विजौरानिवृ  
 फलवत् फलावृत्त फरापेंड  
 फलस कटहर  
 फलाध्यक्ष खिन्नीकापेंड  
 फलिन् } सफलवृत्त फरापेंड फललगा  
 फलिन } दरस्त. [ शागभेद.  
 फलिनी कालाविधारा अभिशिखा  
 फली मियंगु कालाविधारा  
 फलेग्रहि अपनेसमयमेंफलनेवालावृत्त  
 फलेरटा पांडरि. [ तीर्थभेद.  
 फल्गु कटुंवरि निर्बल जिसकेवलनहो  
 फांणित राव पोटरी असादा  
 फाराट मीसलियाकाड़ा. [काकाटफार.  
 फाल कपासकावस्त्र सूतीकपड़ा हल  
 फाल्गुण } फागुनमहीना  
 फाल्गुणिक }  
 फाल्गुनी दंडपान दंडपावनफाल्गुनी  
 को फागुनकीपूर्णिमामी  
 फुल फूलनाफूलका  
 फेन समुद्रफेन पानीकाफेना  
 फेनिल रीठा बेर  
 फेरव } सिपाय  
 फेरु }  
 फेला } भोजनवर्गिकेद्धोइना  
 फेली }

( व )

वक वकुलवाएल वकामुग् गृमाग्द  
 मदार मुला  
 वकुल मानमिरी बकुल .

वडिश }  
 वडिशा } वंशीमछरीमारनेकी  
 वडिशी }  
 वत खेद दया संतोष आश्चर्य सलाह  
 कोबुलाना इनपांचअर्थोंमेंवतकहा  
 जाताहै  
 वदर बेर बेरीकाफल  
 वदरा कपास बाराहीकंद  
 वदरी बेरी  
 वद्व रस्सीआदिसेबंधा  
 वधिर बहिरा जोमुननसके  
 वंदिन् राजावोंकीस्तुतिकरनेवालेभाट  
 वंदी कंद जेहल  
 वंधकी सरावखी  
 वंधन बांधना बंधन  
 वंधनालय कारागृह कैदखाना  
 वंधनी जिसरस्सीमेंबहुतपगुबंधजांय  
 वंधस्तंभ बांधनेकारभाराथीवा  
 वंधु गोत्रभर कुटुंबी  
 वंधुक }  
 वंधुनीवक } दुपहरीकेफलकापेंड  
 वंरुता कुटुंबियोंकाभुंड  
 वंधुर उंचेकाकुद्धचलना  
 वंधुल कुलत्यागकरनेवालीध्वीवापुत्र  
 वंधुक दुपहरीकापेंड  
 वंधुवपुष्प अमना  
 वंधूर उंचेकालचना  
 वन्तु भारीनेडरा विष्णु पीनंग अग्नि  
 वरीवर्त वेल  
 ववेग भारंगी रात्री  
 ववण मार्दी

बबरा बबई कानफोडी. [ कोपंख पत्ता. ]  
 बई कुकुरौथा भटोरा मोरपत्त पुद्धारि  
 बईपुष्प कुकुरौथा  
 बई अग्नि  
 बईः कुकुरौथा  
 बईण } मोरइला पुद्धार मोर  
 बईन् }  
 बईपुष्प कुकुरौथा  
 बईमुख देवता जिनकाअग्निहीमुखहै  
 बईष्ठ सुगंधवाला  
 बल बलदेव सेना फौज पराक्रम सा-  
 मर्थ्यता मोटाई गंधरस सरूप वली  
 कौवा बल दैत्य  
 बलदेव } कृष्णकेवडेभाई, जिनकीमूर्तिके  
 बलभद्र } दर्शनकोमथुराजीकोसबजाते हैं  
 बलभद्रिका त्रायमाणाऔपधि  
 बलवत् बलवान् बली अतिशय बहुत  
 बलविन्यास सेनाकोसंग्रामकेलियेस्था  
 बला बरिपारी [ पनकरना ]  
 बलाका लंबीधींचकीवकुलीपत्ती  
 बलात्कार हठ बलकर बहादुरीसे  
 बलाराति इंद्र बलदैत्यकेमारनेवाले  
 बलाहक मेघ वादरगर्जतेहुये कृष्ण-  
 कायोडा  
 बलि, बैश्वदेव भूतयज्ञ राजावोंकावसूल  
 जिमीदारोंकापोत नजर भेंट बलि-  
 दैत्य देहकीखालसमिटना  
 बलिध्वंसिन् श्रीवामनजी जिन्होंने ३  
 पैरपृथ्वीमांगबलिकोबलपातालप-  
 टाया विष्णु

बलिन } जिसकेबुड़ापासेखाललेटकीही  
 बलिभ }  
 बलिपुष्ट } कौवा  
 बलिमुख }  
 बलिमुख वानर.  
 बलिर काना कंजा पेंचाठाना केंचा.  
 बलिशा }  
 बलिश } वंशीमद्धरीमारनेकी  
 बलिशी }  
 बलिसन्न पाताल रसातल  
 बलीमुख वानर  
 बलीवर्द बैल. [ हीर गोपाल-  
 बल्लव } रोटीकरनेवाला रसोईदार अ-  
 बल्वज बागलवाकासकेभेद  
 बल्कयणी } बहुतदिनकीवियाईगौभा-  
 बल्कयिणी } दि बकरनि  
 बस्त वांकरा  
 वंस्ति नाभीकेनीचेमूत्रकास्थान  
 वहिद्वार दरवाजेकेवाहिर  
 वहिष्ठ बहुत अधिक  
 वहिस् वाहर  
 बहु बहुत अधिक. [ भाइवाला.  
 बहुकर बहारनाआदिकामकरनेवाला  
 बहुगर्हवाक्, बहुतखराबरेवातेंकहनेवाला  
 बहुपाद् बरगदबृत्त  
 बहुमद् दानशूर बड़ादानी बलिआदि  
 बहुमूल्य बहुतमोलकावस्त्रआदि  
 बहुरूप धूप रार  
 बहुल अधिक बहुत अग्नि कालारंग  
 बहुला इलाची कृचिकानधन्न गौ  
 बहुलीकृत वसाईपर्वारीधान्य

बहुवारक	लसोहरकापेंड शलट्वृत्त	बाहुज्	क्षत्री जोधिराट्कीवांहेसेहवा
बहुविध	बहुतमकार अनेकरूप	बाहुदा	सहस्राबाहुकीनदी
बहुवेतस	जहांपरबहुतपेंतहों	बाहुमल	कांख कखरी
बहुमुता	शतावरि द्वातावरि	बाहुयुद्ध	वांढकायुद्ध कुस्ती
बहुसूति	बहुतवारकीवियाईगौआदि	बाहुल	कातिकमहीना
बारुची	बचुकी [ देहमेंनहीलगते.	बाहुलेप	स्वामिकार्तिक
बाणवार	बखतर जिसकेपट्टिरनेसेबाण	बाढक	} बल्हुदेशकाहुवा सिंधकेदेशका हुवा. [ रमीरकेघोडा
बाढ	अतिशय स्त्रीकार अंगीकार	बाढव	
बाण	तीर बाण बाणासुर	बाढिक	कुंजुम केशर हीगकावृत्त का
बाणा	करसेला कालीभिंठी	बाढीक	कुंजुम केशर हींग घोड़ेकीजाति
बादर	कवासकावस्त्र सूतीकपड़ा	बाढ	बाहर
बाधा	दुःख कष्ट [ कापुत्र.	विद्	विद्वियानमक
बांधकिनेय	मुलत्यागकरनेवालीस्त्री	विडाल	विलारि
बांधव	कुटुंबी गोत्रभर	विडांजस्	इद्र
बाईत	भट्टकटैयाकाफल	विदु	पानीकेवृंद [ विन्दुसेहोतेंद
वाल	सुग गगला बालरु पूर्ण घोड़ा	विदुजालक	पञ्चक हांथीकेद्वेहमेंभायः
	हांथीकीपूंछ बाल. [ भिनिकलोरि.	विं	सूर्यचंद्रमाकाविं
बालगभिणी	नईगाभिनिगौआदि गा-	विंजिरा	कुदुरु
बालतनय	खैर	विन	छेट मिल
बालवृण	घास	विनेगय	सांप
बालभूषिना	ठाटीभूमकीजाति मुमरिया	विन्व	बेलकापेंड
बाला	कुमारी कन्या	विम	रमलकीनइ भैसांर
बालिग	सूर्य देवसूफ बालक	विमरटिरा	बकुली
बालेथ	गद्दा	विममगून	कमल [ कमलरौ
बालेथशाक	भारगी प्राप्तीशौपधि	विमिनी	रमलिनी जिसदेश्चादिमें
बाल्य	बालापन लडकाई	विम्व	अम्मीरचीभग्गोना [ नार
बाप्य	मांजू आंम्वकापानी	वीन	कारण धीननिममेमवपेडांगे
बाप्यिका	तेजपान	वीनकोश	कमलनट्टीकास्थान
बाप्यिका	तेजपान	वीनपू	विजोगनिर् [ ग्ना
बाह	} भुजा बांहे घोड़ेनामबाह	वीनाट्टन	खेत्रसोयकरनातना बाहव
बाहु			



वीज्य - कुलमंडपन्नमान [ जुनकानाम  
 वीभत्स रसभेद हँसी भयंकर मूर अ  
 वुक गुमा रुई मदार  
 वुका } हृदयकामांम क्लेजा  
 वुमाग्रमांस }  
 वुद्ध वौद्धप्राप्तहोना जानना  
 बुद्धि अकिल  
 बुद्बुद् पानीकावेकार बुल्ला  
 बुभ बुभग्रह पण्डित बढना उत्तरकेग्रह  
 बुधित जानना प्राप्त  
 बुध्न वृत्तादिकांकीजड  
 बुभुत्ता लुधा भूख  
 बुभुत्तित भंग्ना जैसेकालीशत्रुमारनेको  
 बुप } भूसा पयार  
 बुस }  
 बुस्त भूजांमांस कटहरआदिकासार  
 बूका कलेजा  
 बृहित हाथियोंकागर्जना  
 बृषी } व्रतवालोंकाआसन कुशा  
 बृसी } सनआदि  
 बृहत् फैला चौड़ा बहुत  
 बृहतिका रपटा लुमराआदि  
 बृहती भटकटैया जुद्रवार्त्ता नव  
 अक्षरकाछन्द भारी  
 बृहत्कुत्ति तोंदारा वडपेटा  
 बृहद्भानु अग्नि  
 बृहद्वरति इन्द्रकेगुरु ईशान्यके ग्रह  
 बोधकर राजाचौकोस्तुतिमेजगानेवाले  
 बोभिट्टम पीपरकापेंड  
 बोल गयरस मिमियाई  
 बन सूर्य वृत्तादिकीजड

ब्रह्मचारिन् आश्रम ब्रह्मचारी  
 ब्रह्मण्य पार्श्वपिप्यली तृतवृत्त  
 ब्रह्मत्व ब्राह्मणत्व ब्राह्मणहोना  
 ब्रह्मदर्भा अजवाइनि  
 ब्रह्मदारु पार्श्वपिप्यली तृत  
 ब्रह्मन् ब्रह्मा ब्राह्मण  
 ब्रह्मपुत्र नद - स्थावरविपजडआदिक  
 ब्रह्मवादिन् वेदांती  
 ब्रह्मबंधु, निदामें जैसेतुब्रह्मबंधुदुष्टहै. [ गिरं.  
 ब्रह्मविट्ट वेदपाठकरनेमेंमुखसेजोबूट  
 ब्रह्मभूप ब्राह्मणकार्मु ब्राह्मणता  
 ब्रह्मयज्ञ पढावना वेदकीपाठ [ भ्यास  
 ब्रह्मवर्चस ब्राह्मणकातेज आचारवेदा  
 ब्रह्मसायुज्य ब्राह्मणत्व ब्राह्मणता ब्रा-  
 ह्मणहोना  
 ब्रह्मम् अनिरुद्ध कृष्णकापौत  
 ब्रह्मस्त्र यज्ञोपवीत जनेऊ  
 ब्रह्मांजली वेदपढनेमेंहाथजोडना  
 ब्रह्मामन ध्यानयोगकरनेकाआसन  
 ब्राह्म मनुष्योंके ८ हजारयुगका १दिन  
 रातब्रह्माका अगुठाकेनीचे ब्राह्मतीर्थ  
 ब्राह्मण सबवर्णोंकाआदि सबसेश्रेष्ठ  
 ब्राह्मणायष्टिका } भारगी ब्राह्मीऔंपधि  
 ब्राह्मणी }  
 ब्राह्मण्य ब्राह्मणोंकासमूह [ मखेडी  
 ब्राह्मी मातृगणमेंप्रथममाता औंपधि  
 ( भ )  
 भ नन्न तारा राशि  
 भक्त अन्न भात  
 भक्तक गानेवाला भोजनकरनेवाला

भक्षकार भोजनपदार्थवनानेवालातैल  
 पकादिकरनेवाला  
 भक्षित भोजनकिया  
 भक्ष्यकार } भोजनवनानेवाला वरा  
 भक्ष्यकार } पकौड़ाआदिकरनेवाला  
 भग योनि स्त्रीकाचिन्ह शोभा लक्ष्मी  
 यत्र सूर्य कामकीइच्छा माहात्म्य  
 ऐश्वर्य कीर्त्ति यश भगवान ज्ञान  
 वैराग्य धर्म मोक्ष  
 भगदर रोग गुदाकेपासकाफोडा  
 भगवत बौद्ध विष्णुइत्यादि  
 भगिनी वहिनि  
 भग जलकीलहरी टुकड़ा  
 भगा भांगजोनशेकोघोटपीतेई  
 भंगी टेढ़ाईकीरचना  
 भग्य भांगकाखेत  
 भजमान न्यायसेमात्तद्रव्यादि  
 भट योद्धा वीर  
 भट्टि लोहकेशूलसेपकायामांसादि  
 भट्टारक राजा  
 भट्टिनी महारानीकोछोड़औरसबरानी  
 भट्टाकी भांटा वेगन  
 भंडिल शिरसाकापेंड  
 भंडी मंजीठ  
 भंडीर } शिरसाकापेंड  
 भंडील }  
 भणित मैथुनकाशब्द  
 भद्र कल्याण शुभ सुंदर तैल  
 भद्रकुंभ पूर्णकुंभ भरावड़ा  
 भद्रदार देवदार

भद्रपर्णी खंभारिकापेंड  
 भद्रवला गंधपसारिणि औषधि  
 भद्रपुस्तक नागरमोथा  
 भद्रयव इंद्रयव  
 भद्रश्री चंदनसुगंधयुतमलयपहाडका  
 भद्राकरण बालवनवाना मुद्दाना  
 भद्रासन राजावोंकासिंहासन मणिसु  
 भय डर खौफ. [ वर्णआदिसेवना  
 भयंकर भयानक डरावनी रसभेद  
 भयद्रुत डरसेभागनेवाला  
 भयानक रसभेद डरावनी खौफनाक  
 भर अतिशय बहुत  
 भरण } मोल दाम तनखाह  
 भरण्य }  
 भरण्यभुज् तनखाहलेनेवालानौकर  
 भरण्या मोल तनखाह  
 भरत, मायावी नट श्रीरामकेभाई दुष्यंत  
 राजाकेपुत्र श्रीऋषभदेवके पुत्र  
 भरद्वाज अपि भरद्वापत्नी  
 भर्ग } महादेवजी  
 भर्ग्य }  
 भर्तृ भतार पति राखनेवाला पालने  
 वाला मालिक [ पुत्र.  
 भर्तृदारक युरराज राजाकाअधिकारी  
 भर्तृदारिका राजाकीलड़की  
 भर्तृमन निंदागालीदेकर जैमेचार है  
 तुम्हकोमाग्डालूगा  
 भर्मन सुवर्ण सोनाधानु तनखाह मोल  
 भल्ल गीद भल्लक पुष्पगीदकेसमान  
 भट्टातकी मिलांवा

भल्लूक } रीळ भाल्लू  
 भव शिवजी महादेव जन्महोना  
 भवन घर माकान  
 भवानी श्रीपार्वतीजी  
 भविक कल्याण शुभ अच्छा  
 भवित् } होनेवाला  
 भविष्यु }  
 भव्य शुभ अच्छा  
 भपक कुत्ता कुरुर  
 भसित राख भस्म  
 भस्त्रा लोहारआदिकीचमडाकीधौकनी  
 भस्मन् राख  
 भस्मगधिनी रेणुकागंधद्रव्य  
 भस्मगर्भा शिसवा शिरसई  
 भा प्रभा उजेरा प्रकाश  
 भाग वांटातौलके हिस्सा  
 भागधेय भाग्य पूर्वजन्मकेकर्म  
 भागिनेय वहिनीकालढका मानजा  
 भागीरथी गंगा जिनकोभाग्गीरथनाये  
 भाग्य दैव पूर्वकेकर्म भलेबुरेकर्म  
 भांगीन भांगकाखेत  
 भाजन पात्र लोटाआदि  
 भाड पात्र लोटागिलासआदि घोडे  
 कागहन जमाकीजमा खरीदकेदाप  
 भाद्र } भाद्रोमहीना  
 भाद्रपद }  
 भाद्रपदा, पूर्वभाद्रपदउत्तरभाद्रपदनक्षत्र  
 भानु सूर्य सूर्यकीकिरण  
 भातुज शनैश्वरपश्चिमकेग्रह

भामिनी प्यारी स्त्री पत्नी  
 भार बोझा २००० टकाभर  
 भारत, जंबूद्वीपका १ खण्ड समुद्रसेउत्तर  
 हिमालयकादक्षिणभरतखण्डमट  
 भारती भाषा बोली वात सरस्वती  
 भारद्वाजी वनकपास मनवाकपास  
 भारयष्टि स्त्रीआदिटांगनेकी  
 भारवाह } पल्लेदार बोझालैजानेवाला  
 भारिक }  
 भार्गव शुक्रग्रहपरशुराम  
 भार्गवी दूर्वा दूब लक्ष्मी  
 भार्गी भारंगी ब्राह्मी. [ रानेवाली.  
 भार्या व्याहीस्त्री भाइयोकोविरांधक-  
 भार्यापती स्त्रीपुरुष, पद औरत  
 भाल्लूक } रीळ  
 भाल्लूक }  
 भाव विद्वान् विद्यापढनेवाला मनका  
 विकार सत्ता जैसेचडाहै स्वभाव  
 अभिप्राय आत्मा मैथुनादि जन्म  
 भावदाशिन् कामनकरसकनेसेजोनौकर  
 मालिककोदेखाकरै  
 भावना, विचार. [ त्तकारिकारप्रगटकरै.  
 भावबोधक, रसादिभावकोप्रकाशकरैचि  
 भावित सुगंधवस्तुसेवासना चमेली  
 वेलाआदिकाअतरतेल प्राप्त आय  
 जाना  
 भावुक कुशल क्षेम राजीखुसी  
 भाषा बोली वात  
 भाषित वात कहाहुवा  
 भाष्य पदकाअर्थ महाभाष्यादि  
 भास् छवि प्रभा उजेरा

भास पक्षीभेद एकचिदिया  
 भास्कर } सूर्य  
 भास्वत् }  
 भिक्षा मांगना भीखमांगना सेवातन-  
 भिक्षु संन्यासी भिखियारी. [स्वाह.]  
 भित्त खंड दुकड़ा  
 भिनी दीवार भीति  
 भिद्रा फूटना दोहोजाना  
 भिदिर } वज्र इंद्रकाथायुध  
 भिदुर }  
 भिद्रिपाल गोफना जिससेपत्थरआदि  
 फेंकेजातेहैं  
 भिन्न पृथक अलग विदारा काटा  
 भिया डर खौफ भय  
 भिपञ् वैश्र दवादेनेवाला  
 भिस्तटा जलाशय  
 भिस्ता अन्न भातआदि  
 भी डर खौफ भय  
 भीत डरनेवाला डरपोक  
 भीति डर खौफ. [युधिष्ठिरकेभार्ये.  
 भीम शिवजी भयानक-रसभेद राजा  
 भीर डरपोकवाली डरपोक डरनेवाला  
 भीरुक डरनेवाला भयवानेवाला  
 भीरु } डरभुनखी डरनेवाली  
 भीरु }  
 भीलू डरनेवाला डरपोक  
 भीलू डरपोकवाली  
 भीपण भयंकर डरारनी रसभेद  
 भीष्म भयंकर गंगाकेपुत्र  
 भीष्मग. गंगाजी तिनकेपुत्रभीष्मजीकेपुत्र  
 भुक्त भोजनकिया गाना

भुक्तसमुज्झित भोजनकरछोड़ा जूंग  
 भुम देहा रुटिल पीड़ित  
 भुज बाँह भुजा  
 भुजग } साँप  
 भुजंग }  
 भुजंगभुज मोर मुरइला पुद्धार गरुड  
 भुजंगम साँप  
 भुजगाक्षी सर्पाक्षीआँपधि  
 भुजशिर कंधा  
 भुजांतर छाती बाहोंकाबीच  
 भुजिष्य दास नाँकर सेवक  
 भुवन लोक पानी पृथ्वीतल  
 भू पृथ्वी भूलोक व्याहृति  
 भूत देवयोनि प्राप्तहुवा होगया पंच-  
 भूत पृथ्वीजलअग्नि वायुआकाश  
 सत्य न्याय  
 भूतेश जटामासी  
 भूतधारी पृथ्वी  
 भूतयज्ञ बलिबंधदेव  
 भूतवेशी सपेठ म्याँदी  
 भूतात्मन् देह आत्मा  
 भूताराम बहेगुणावृत्त. [पनि राम.  
 भूति ऐश्वर्य अणिमादिभूति मस्म सं  
 भूतिक निगडता  
 भूतेश महादेव भूतोंकेमानिक  
 भूदार सुधर  
 भूदेव आत्मा पृथ्वीकेदेवता  
 भूनिव चिगडना  
 भूष राजा  
 भूपटी मोंगगरेला  
 भूभृत् पदाड राजा

भूमन् प्रायः बहुत  
 भूमि पृथ्वी धरती  
 भूमिजंबुका भुंजमुनी नारंगी  
 भूमिधर पर्वत पहाड़  
 भूमिस्पृक् वैश्य वनियां  
 भूयस् } बहुत अधिक  
 भूयिष्ठ }  
 भूरि बहुत सुवर्ण  
 भूरिफेना थूहर  
 भूरिमाय सियार  
 भूखंडी सिरिहस्तिनी घुडयां  
 भूर्य भोजपत्रकापेंड  
 भूपण गहनापहिरना  
 भूपित गहनापहिरे शोभाक्रिये  
 भूष्ण होनेवाला  
 भूस्तृण तृणभेद तिन  
 भृकुटी भौह [ कानाम  
 भृगु परतसेजलगिरनेकास्थान ऋपि  
 भृग,दालचीनी तज भृजयलपत्ती भंवर  
 भृगराज } वमिरा  
 भृगराजम् }  
 भृगार सोनेकीभारी  
 भृगारी भौंगुरु  
 भृगी नदी शिवगण  
 भृतक चाकर भैरु सेवक  
 भृति तनख्वाह मोल  
 भृतिभुज् तनखाहखानेवाला नौकर  
 भृत्य दास सेवक  
 भृत्या नौकरी दासी  
 भृशम् अतिशय बारबार

भेक वर्षातीमेंभुका  
 भेकी वर्षातीमेंभुकी छोटीमेंभुकी  
 भेद फर्क मिलेकोअलग करना  
 भेदित फोडाहुआ भेदकोप्राप्त  
 भेरि }  
 भेरी } दुदुभि नगाडा  
 भेपज औषध दवा  
 भैक्ष बहुतभीष  
 भैरव भयंकर डरावनी  
 भैषज्य औषध दवा  
 भोग सुख स्त्री हाथी घोडा नौकर  
 आदि मोललैपालना  
 भोगधर सांप सापकीदेह  
 भोगवती सांपोंकीपुरी सांपोंकीनदी  
 भोगिन् सांप  
 भोगिनी पटरानीकोबोड्यारसवरानी  
 भोजन जेमना खाना  
 भोम संवोधनार्थ  
 भौम मगलग्रह  
 भौरिक सोनेकागालिक  
 भ्रंश अपनेस्वरूपकाविगडना  
 भ्रकुस हिजर पुरुपजोखीवने  
 भ्रकुटि भौह  
 भ्रम भ्राति सदेहहोना भंवरपानीकी  
 भ्रमर भौरा  
 भ्रमरक टेडेवालमायेमेलटकतेहों  
 भ्रमि भ्राति यथार्थज्ञाननहोना  
 भ्रष्ट गिरना गिरजाना  
 भ्रष्टयव भुजेजव  
 भ्राजिष्णु बहुतशोभित

भ्रातरो भाईवहिन  
 भ्रातृज भाईकालङ्का भतीजा  
 भ्रातृजाया भाईकीस्त्री भोजाई  
 भ्रातृभगिन्यौ भाईवहिन  
 भ्रातृव्य } भतीजा  
 भ्रातीय }  
 भ्राति भूठासदेह  
 भ्राष्ट्र चनाआदिभूजनेकापात्र खपरी  
 भ्रुस } हिजरा स्त्रीवेशकापुरूप  
 भ्रुस }  
 भ्रुकुटी } खोधाधिसे भोंहटेडीकरना  
 भ्रुकुटि }  
 भ्र भौंह [ कोपि कटहरकाकाट  
 भ्रूण गर्भकाजीव स्त्रीकागर्भ बालक  
 भ्रप अपनास्वरूपप्रिगङ्गा

## ( म )

मकर मगर राशि  
 मकर राज, कामदेव प्रयुञ्ज कृष्णकापुत्र  
 मकरद फूलकीभिटाई फूलकारस  
 मकुट मुकुट किरीट [ काडडा  
 मङ्गर दर्पण सीसा बकुलवृक्ष कुम्हार  
 मकुष्टक } धनभूग  
 मकुष्टक }  
 मकूलक दती दाती  
 मन्त्रिक } मास्त्री मन्त्री  
 मन्त्रीका }  
 मग यज्ञ राजमूयादि  
 मगध राजावोंकेपणवहनेवाले देश  
 मगधन् इद्र स्वर्गकामहागजाधिराज  
 मङ्गर दर्पण सीसा

मञ्जु शीघ्र जल्दी  
 मगल कल्याण शुभ अच्छा ग्रह  
 मगल्यक ममूर  
 मगल्या कालागुरु सुगधितअगर  
 मर्चाचका शुभवाचक सुदरवात  
 मज्जा वृत्तादिकोंकागाभा चरबी  
 मच पलगवडाँ मचानावैठनेका  
 मजरि } तुलसीआदिकीमजरी  
 मजरी }  
 मजिष्टा मजीठ  
 मंजीर } तूपुर पैजनिया  
 मजील }  
 मञ्जु } मनोहर सुन्दर  
 मञ्जुल }  
 मजृषा पैटारा पेरिया  
 मठ विद्याधियोंकास्थान  
 महदु बडाडमरु [ आदि  
 मणि पत्थरमरवतहीराआदि मोती  
 मणिक बडाप्रडा मटुकाआदि  
 मणित मैथुनकीआवाज  
 मणिवध हाथकापहुँचा कलाई  
 मणी हीराआदिपत्थर मोतीआदि  
 मड थैँडावापेइ सरसोंकेऊपरका  
 पतला [ भृपण  
 मडन गहनापहिरनेवाला गहनाभा  
 महप मडफ गिवालयादि  
 महल मेघोंकामण्डल चन्द्रमाकाधिव  
 सूर्यकेआसपासजोचभीयेगमाहों  
 मण्डलक कुप्र वाड गोलपत्राग  
 मण्डलाग्र चन्द्र तननाग

मंडलेश्वर बहुतराजाबोंकाराजा  
 मंडहारक कलार मदिराबेचनेवाला  
 मंडित गहेनाआदिपहिराया शोभित  
 मंडीरी मंजीठ  
 मंडूक मँभुका मेहुक  
 मंडूकपर्णा शोनापाड़ा औपधि  
 मंडूकपर्णी मंजीठ  
 मंडूर लोहेकाकीट लोहसार  
 मतंगज हाथी  
 मतल्लिका शुभवाचक सुंदरवात  
 मति दुद्धि अकिल  
 मत्त जिसहांथीकेमदबहताहो मतवाला  
 मदिराआदिपीकर आनन्द खुस  
 मत्तकासिनी उच्चमगुणकीस्त्री मतवा-  
 मत्तकाशिनी लीनहोसुखदेनेकोमत-  
 वालीसीदेखपड़े  
 मत्सर औरकीसंपत्तिनसहना ईर्ष्या  
 मत्स्य मछली  
 मत्स्यही राव असाढ़ा पोठरी  
 मत्स्यपिप्ता कुटकी  
 मत्स्यवेधन मछरीमारनेकीवंसी  
 मत्स्याक्षी सोमलता मछेछी ब्राह्मी  
 मत्स्यात्खग मछरीखानेवालापक्षी  
 मत्स्याधानी मछरीबांधनेकापिटारा  
 मथित मथादही विनापानीकामाठा  
 मद् हाथीकामद् आनंद खुशी अहंकार  
 मद्कल मनवालाहाथी. [ मद्. ]  
 मदन कामदेव मनफलकावृत्त धनूर  
 मद्स्थान मदिराकास्थान कलवारवी  
 दुकान

मदिरा शराव दारू  
 मदिरागृह मदिराबनानेकाघर  
 मदोत्कट मतवालाहाथी  
 मद्गु पानीकाकौवा पक्षीभेद मछरी  
 मद्गुर मगरा  
 मद्य मदिरा शराव  
 मधु चैत्रमहीना सहत महुवाकीमदिरा  
 दाखकारस दैत्य वसंत ? वृत्तका  
 नामजीवनीऔपधि.  
 मधुक जेठीमधु राजाओंके वंशकहने  
 वाले महुवा  
 मधुकर भर्वेरा  
 मधुकम मदिरापिनेकीपरिपाटी  
 मधुद्रुम महुवा  
 मधुप भंवरा  
 मधुपर्णिका संभारि नील लील  
 मधुपर्णी गुर्च  
 मधुमत्तिका ममाखी सहतकीमच्छी  
 मधुपट्टिका ज्येठीमधु  
 मधुर पीठापानी मिठाईआदि रस  
 स्वादकीवस्तु मियवस्तु  
 मधुरक जीवक औपधि  
 मधुरसा पुरहरी दास  
 मधुरा सौंफ  
 मधुरिका वनसौंफ  
 मधुरिपु त्रिष्णु जिन्होंनेमधुदैत्यकोपारा  
 मधुलिहू भंवरा  
 मधुवार मदिरापिनेकीचाल  
 मधुव्रत भंवरा  
 मधुशिशु लालसाईजनकापेंड

भ्रातरौ भाईवहिन  
 भ्रातृज भाईकालङ्का भतीजा  
 भ्रातृजाया भाईकीस्त्री भौजाई  
 भ्रातृभगिन्यौ भाईवहिन  
 भ्रातृव्य } भतीजा  
 भ्रातीय }  
 भ्राति भंडासंदेह  
 भ्राष्ट्र चनाआदिभूजनेकापात्र खपरी  
 ब्रुकुंस } हिजरा स्त्रीवेशकापुरुष  
 ब्रुकुंस }  
 भुकुटी } कोधाधिसेभौहटेहीकरना  
 भुकुटि }  
 भू भौह. [ कोषि कटहरकाकांट.  
 भ्रूण गर्भकाजीव स्त्रीकागर्भ बालक  
 भ्रूप अचनास्वरूपविगडना

( म )

भकर मगर राशि  
 मकरध्वज, कामदेव मधुसूक्त कृष्णकापुत्र  
 मकरंद फूलकीमिठाई फूलकारस  
 मकुट मुकुट किरिट. [ कांडा.  
 मकुर दर्पण सीसा घकुलवृत्त कुम्हार  
 मकुष्टक } वनभूंग  
 मकुष्टक }  
 मकूलक दंती दाती  
 मक्षिक } माछी मच्छी  
 मक्षीका }  
 मव यज्ञ राजमूयादि  
 मगध राजावोंकेवंशकहनेवाले देश  
 मगधन इंद्र स्वर्गकामहाराजाधिराज  
 मंकुर दर्पण सीसा

मंजु शीघ्र जल्दी  
 मंगल कल्याण शुभ अच्छा ग्रह  
 मंगल्यक ममूर  
 मंगल्या कालागुरु सुगंधितअगर  
 मर्चिका शुभवाचक सुंदरवात  
 मज्जा वृत्तादिकोंकागाभा चरबी  
 मंच पलंगबद्धों मचानावैठनेका  
 मंजरि } तुलसीआदिकीमंजरी  
 मंजरी }  
 मंजिष्ठा मंजीठ  
 मंजीर } तूपुर पैजनिया  
 मंजील }  
 मंजु } मनोहर सुन्दर  
 मंजुल }  
 मंजूषा पेटारा पेटरिया  
 मठ विद्यार्थियोंकास्थान  
 मद्दु बडाडमरु. [ आदि.  
 मण्ड पत्थरमरकतहीराआदि मोती  
 मणिक बडाघड़ा मटुकाआदि  
 मणित मयुनकीआवाज  
 मणिवंध हाथकापहुँचा कलाई  
 मणी हीराआदिपत्थर मोतीआदि  
 मंड अँडाकापेंड सवरसोंकेऊपरका  
 पतला. [ भूपग.  
 मंडन गहनापहिरनेवाला गहनाआ  
 मंडप मंडफ शिवालयदि  
 मंडल मेथोंकामण्डल चन्द्रमाकाविष  
 सूर्यकेआसपासजोकभीधैरामाहो  
 मण्डलक कुट्ट कोट्ट गोलदशाग  
 मण्डलाग्र गद्ग तन्वार



मडलेश्वर बहुतराजावोंकाराजा  
 महहारक कलार मदिरावेंचनेवाला  
 मडित गहेनाआडिपहिराया शोभित  
 मडीरी मजीठ  
 मडूक मेंभुका मेटुक  
 मडूकपर्ण शोनापाठा औपधि  
 मडूकपर्णी मजीठ  
 मडूर लोहेकाकीट लोहसार  
 मतगज हाथी  
 मतल्लिका शुभभाचक सुदरवात  
 मति दुद्धि अकिल  
 मत्त जिसहाथीकेमटवहताहो मतवाला  
 मदिराआडिपीकर आनन्द रुस  
 मत्तनाभिनी } उत्तमगुणकीस्त्री मतवा  
 मत्तनाशिनी } लीनहोसुखनेकोमत  
 वालीसीदेखपढे  
 मत्सर आरकीसपतिनसहना ईर्ष्या  
 मत्स्य मछली  
 मत्स्यडी राव असाढा पोठरी  
 मत्स्यपित्ता कुत्की  
 मत्स्यवेधन मछरीमारनेकीवसी  
 मत्स्याक्षी सोमलता मछेछी ब्राह्मी  
 मत्स्यात्सग मछरीखानेवालापक्षी  
 मत्स्याधानी मछरीवाघनेकापिटारा  
 मधित मथाडही मिनापानीरामाडा  
 मद्र हाथीरामद आनन्द खुशी अहकार  
 मद्रकल मतवालाहाथी [ मद्र ]  
 मदन वामदेव मैनफलकापुत्र धतूर  
 मद्रस्थान मदिराचाम्यान नलवारवी  
 द्कान

मदिरा शराव दाख  
 मदिरागृह मदिरापनानेकाघर  
 मदोत्कट मतवालाहाथी  
 मद्गु पानीकाकौरा पक्षीभेद मछरी  
 मद्गुर मगरा  
 मत्र मदिरा शराव  
 मधु चेत्रमहीना सहत महुवाकीमदिरा  
 दाखकारस दैत्य बसत ? वृत्तका  
 नामजीवनीऔपधि  
 मद्रुक जेठीमधु राजाओंके वशकइने  
 वाले महुवा  
 मधुकर भँरा  
 मधुक्रम मदिरापीनेकीपरिपाठी  
 मधुद्रुम महुवा  
 मद्रुप भररा  
 मधुपण्डिता लभारि नील लील  
 मद्रुपर्णी गुर्ध  
 मधुमक्षिका मयाखी सहतकीमच्छी  
 मद्रुपष्टिका ज्येठीमधु  
 मधुर मीठापानी मिठाईआदि रस  
 स्वादकीवस्तु मियरस्तु  
 मधुरक जीवक आपधि  
 मद्रुसा मुरहरी दाख  
 मधुरा साफ  
 मधुरिका उनसाफ  
 मद्रुसिपु विष्णु जिन्होंनेमधुद्रैत्यकोमारा  
 मधुलिह भँरा  
 मधुवार मदिरापीनेकीचाल  
 मद्रुनत भररा  
 मधुशिषु लालसहिजनकापेंद्र

मधुश्रेणी मुरहरीऔपधि  
 मधुश्रील महुवाकापेड  
 मधुस्रवा जीवन्तीऔपधि  
 मधुक महुवाकावृत्त  
 मधुच्छिष्ट मोम सहतकामैल  
 मधुल } महुवाका पेंडमौहा  
 मधूल }  
 ममूलक पहाडवपानीमेंमहुवाकापेंड  
 मधुलिका मुरहरी  
 म य मांभु कपर करिहॉव योग्य  
 मध्यदेश हिमालयविध्याचलकामध्य  
 कुरुक्षेत्रसेपूर्वप्रयागसेपश्चिमइतनेका  
 नामम-यदेश  
 मध्यम स्वरभेद क्रांचपत्नीकाशब्द  
 म-यदेश कपर करिहॉव  
 मध्यमा जिसस्त्रीकाप्रथममासधर्महो  
 वीचकीअगरी  
 म-याह दिनकावीच दुपहर  
 म वासव महुवाऔरदाखकीमदिरा  
 मनःशिल }  
 मनःशिला } मैनाशिल  
 मनस् चित्त मन दिल  
 मनभिज कामदेव जोमनहीसेहोताहै  
 मनस्कार मनकोसुखादिमेंतत्परहोना  
 मनाऊ थोडा छोटा  
 मनित प्राप्तहोना जानना मानना  
 मनीषा बुद्धि अकिल  
 मनीषिन् बुद्धिमान परिष्ठत  
 मनु स्नायभुवमादि १४ मंत्र  
 मनुज }  
 मनुष्य } मनई आदमी

मनुष्यधर्मन् जुवेर. [ कोभीखआदि  
 मनुष्ययज्ञ अतिथिकापूजन भित्तारी  
 मनोगुप्ता मैनाशिल  
 मनोजवस } पिताकेसमान  
 मनोजव }  
 मनोज्ञ मनोहर सुंदर  
 मनोभव इच्छा काम  
 मनोरथ बांधा मनकीवात  
 मनोरम } सुन्दर नीक अच्छा  
 मनोहर }  
 मनोहारिन् मनहरणकरनेवालीधात  
 मनोहत मनकामाराजाना मनोभंग  
 मनोहा मैनाशिल.  
 मंतु अपराध विनाप्रयोजनमारनाआदि  
 मंत्र वात एकांतकेकरनेयोग्य वेदांग  
 देवादिसाधन मंत्र. [ पढ़नेवाला  
 मंत्रव्याख्याकृत् आचार्य वेदपढाने  
 मन्त्रिन् मंत्री सलाही  
 मथ }  
 मथन् } दहीमथनेकीमथानी  
 मथनी मेहडवा दहीमथनेकापात्र  
 मंधर धीराचलनेवाला मठर  
 मंथान मथानी  
 मंद आलस्य आलसी मूर्ख थोडा वे  
 वकफ टारित्री शनिश्चरग्रह कांवा  
 मंदगामिन् धीराचलनेवाला मठर  
 मंदाकिनी, आकाशगगा चित्रकूटमें धारा  
 मद्रात्त लाज शर्म  
 मंदार कल्पवृत्त मदार वकाइनि  
 मदिर घर मकान नगर  
 मदुरा थोडशाला अम्लफल

मंदोष्ण कुष्ठगरम  
 मंद्र गंभीरशब्द गहिरीआवाज  
 गलेकामध्यशब्द  
 मन्मथ कामदेव प्रद्युम्न कैथाकापेंड  
 पन्या गलेकेपीछेकीनसनाडी  
 मन्थु शोक शोच दीनता यज्ञ क्रोध  
 मन्वतर दिव्य७७युगकाजितनेमें १४  
 मपुराज्यकरतेंदें  
 मपष्टक }  
 मयष्टक } वनमंग  
 मयुष्टक }  
 मय ऊट  
 मयु किन्नर देवजाति  
 मयूष सूर्यकीकिरण किरण शोभा  
 मयूर मोरशिखाऔंपधि मोर मुरइला  
 पुद्धार  
 मयूरक लटजीरा तुत्यांजन मोरचूद  
 मरकत कालीमणि पाचमणि  
 मरण मरना नाश  
 मरिच }  
 मरीच } कालीमिर्च  
 मरीचि सर्सापियोंमथमच्छापि किरण  
 मरीचिका मृगजल जोमरुदेशाट्टिकी  
 वाल्मपानीसा सूर्यकीकिरणोंसे  
 देगपड़ताहै [ पर्वत.  
 मरु देश जहांपानीनहींहै मरुदेशका  
 मरुत वायुदेवता  
 मरुत् वायु हवा वायव्यकोणकेस्वामी  
 अस्परकशागभेद पिंडका  
 मरुत्व इंद्र देवताकाराजा  
 मरुमाला शागभेद पिंडका

मरुवक मैनफलकापेंड जंभीर मरुवा  
 मर्कत वानर  
 मर्कटक मकरा मकरी  
 मर्कटी करंजभेद केवांच  
 मर्त्य मनुष्य  
 मर्दन टेंदपलना पैरचापनाआदि  
 मर्दल मृदंगकेसमानवाजा  
 मर्मन् देहकेहड्डियोंकाजोड़. [ शब्द.  
 मर्मर कपड़ाऔरपत्तोंकाखरभरआदि  
 मर्मस्पर्श भर्मभेदनेवाला. [ चलना.  
 मर्यादा सीमा हद अपने २ धर्ममार्गमें  
 मल कानआदिकामल विष्टा गूपसीना  
 आदिसेमैल  
 मलदूषित मैला जोमाफनहो  
 मलपू कटुवरि  
 मलयज सुगंधितसपेदचंदन  
 मलयू कटुवरि  
 मलिन मैला साफनहोना  
 मलिनी रजस्वलास्त्री  
 मलिम्लुच चोर उठाईगीर  
 मलीषस मैला गंधा शुद्धनहो  
 मल्ल बांदोकेयुद्धमेंचतुर पहलवान  
 मल्लक कोईफूलकीगेलि -  
 मल्लिका मोंगरापेला  
 मल्लिकान्न } कुष्ठसँवलारंगचोंचपैरका  
 मल्लिकारय } एसेसपेदहस  
 मल्लिगंधिन् कालागुरु  
 मपि }  
 मपी } जडाभासी काजर स्याही  
 मसि }  
 ममी }

मसुर } मसूर. [ त्रिधारा.  
 मसूर }  
 मसुरविदला कालातेंदूकावृत्त श्याम  
 मसूरा मसूर  
 मसृण चिकना चीकन  
 मस्कर वांस वल्ली  
 मस्करिन् संन्यासी  
 मस्तक शिर मूढ़  
 मस्तिक } मूढकीचरवी शिरकागूढ़  
 मस्तिक }  
 मस्तु दहीकेऊपरकापानी तोर  
 मह उत्सव उच्चाह  
 महत् भारी चौड़ा फैला  
 महती बड़ी नारदजीकीबीणा  
 महला स्त्रीजिससेबडाउत्साहरहै  
 महस् उत्साह तेज प्रताप  
 महाकंद लडशुन  
 महाकुल बड़ेकुलमेंहुवा कुलीन  
 महांग ऊंट  
 महाजाली कहुईतोरई.  
 महादेव शिवजी  
 महाधन बहुतमोलकावस्त्रआदि धनी  
 महानट महादेव. [ बनानेका.  
 महानस पाकघर रसोई रोट्टीआदि  
 महावात वैहरि आंधी  
 महामात्र राजावोंकेमुख्यमाथी  
 महायज्ञ ब्रह्मदेवमनुष्यपितृभूतयेप्रयज्ञ  
 महारजत सुवर्ण सोना  
 महारजन कुसुम  
 महारण्य बड़ावन विकटजंगल  
 महाराजिक देवताकागण

महारौरव नरककानाम  
 महाशय उदारचित्त दयावान दयालु  
 महाशुद्धी गोपालिनि ग्वालिनि  
 अहीरिनि  
 महाश्वेता सपेदकुम्हडा  
 महाविल आकाश [ वन वनउर्द  
 महासहा आवोली अंबिलोना मप-  
 महासेन स्वामिकार्तिक पार्वतीनन्दन  
 महि पृथ्वी धरती  
 महिका पाला जाड़ा  
 महिर सूर्य  
 महिला स्त्री सुखदेनेवाली  
 महिलाद्वया श्यामविधारा  
 महिष अरनाभैंसा भैंसा. [ बंटे भैंस.  
 महिषी पटरानी जोराजाकेसंगइंदीपर  
 मही पृथ्वी धरती  
 महीक्षित राजा पृथ्वीकामालिक  
 महीध्र पर्वत पहाड़  
 महीरुह वृत्त पेंड जोपृथ्वीमेंहोते हैं  
 महीलता केंचुवा  
 महीसुत मंगलग्रह पृथ्वीकावेदा  
 महीसूनु मंगलदक्षिणकेग्रह  
 महेच्छ उदार दयालु  
 महेरणा } शालज वृत्त  
 महेरण }  
 महेला स्त्री जोभसंनचित्तहोतीहै  
 महेश्वर महादेव सबकेईश्वर  
 महोज्ञ बड़ाभारीदेल शिवजीकार्यल  
 महोत्पल कमल  
 महोत्साह } मुमकिलकामकोभीउत्त-  
 महोद्यम } मनासेकरना

महौषध अतीस लहसुन सोंठि  
 मा लक्ष्मी मनेकरना निषेध  
 मांस मांस गोरत कलिया  
 मांसल पुष्ट बली मोटा  
 मांसात्पशु ब्याघ्र बाघ  
 मांसिक मांसवचनेवाला  
 मांसी जटाभासी  
 माञ्जिक, सइत. [कीकन्यामिवनियंसेहो.  
 मागंध राजावोंकेवेशकहेनेवाले क्षत्री  
 मागधी जूही पीपरि  
 माघ महीना  
 माघ्य कुंदकीबेलि फूलवृत्त  
 माठर सूर्यकेदहिनेतरफयमराज  
 माठि पत्रशिरा टीनता  
 माणवक बालक वीसलरकाभाला  
 माणव्य, गलकोंकाबुद लडकोंकाभुद  
 माणिक्य रत्नभेद. मणिपूरनगरकाहुवा  
 माणिक्य संघवनमक  
 मातंग चांडाल हाथी  
 मातरपितरौ मातापिता महतारीबाप  
 मातरिखन् वायु हवा  
 मातलि इद्रकासारथी  
 मातापितरौ मातापिता महतारीबाप  
 मातामह नाना माताकापिता  
 मातुल मांमा माताकाभाई धरु  
 मातुलपुत्रक, धनूरकाफल मामाकालडका  
 मातुला माई, मामाकीस्त्री  
 मातुलानी माई भांग  
 मातुलाहि चित्रसर्प कौडिल्लाआदि  
 मातुली माई मामी

मातुलुगक विजौरानिधु  
 माठ ब्राह्मीआदिमाठगण माता म-  
 हतारी पैदाकरनेवाली गौ  
 माठुष्येय महतारीकीविहिनकालड-  
 माठुष्येय का मीसीकालडका  
 मातु स्वार्थमें संपूर्णतामें द्रव्यका  
 प्रमाण थोड़ा कानकागहेना समय  
 में वृत्तांत  
 मात्रा थोड़ा बहुतछोटा अक्षरोंमेंमात्रा  
 प्रमाण राजावोंकेमुख्यकामदारोंमें  
 माद आनंद खुसी  
 माधव, लक्ष्मीकेपतिविष्णु वैशाखमहीना  
 माधवक महुवाकीमदिरा  
 माधवी सेवती बसतीबेलि  
 माधवीक महुवाकीमदिरा दाख  
 मान आदर औरसेवडाविचारना त  
 राजकीतौल हाथसेअटककर बरा  
 बरीकरना  
 मानव मनुष्य  
 मानस चित्त मन मानसरोवर  
 मानसोकस हंस मानसरोवरकेवासी  
 मानिनी स्त्री जोइसरीस्त्रीकेस्नेहकोसुन  
 अपनेप्यारसेकोपकरे  
 मानुष मनुष्य आठमी [काभुएड  
 मानुष्यक मनुष्योंकेसमूह आदमियों  
 माया शाबरी इंद्रजाल जिससेसर  
 उत्पन्नहुमाहे  
 मायाकर गारुडी नट जालकरनेवाला  
 मायादेवीसुत शाक्यमुनि बौद्धभेद  
 मायु पित्त  
 मायूर मारफाभुद

मार प्रद्युम्न कामदेव	मानूर , धेलकापेंड
मारजित बुद्ध महादेव	माल्य फूलआदिकीमाला
मारण मारडालना वध घात	माल्यवत् माल्यवान पर्वत दक्षिणमें
मारिष आर्य्य श्रेष्ठ श्वसुर नाना	मापपर्णा वनउर्दी ,
मारुत वायु हवा	मापीण } उर्दोंकाखेत उर्दधरनेकास्थान
मार्कव घमीरा	माष्य }
मार्ग अगहनमहीना रास्ता राह	मास महीना
मार्गण घाण वस्तुओंकाहूँडना याचक	मासर, भातकामाङ्क. [कासूतवतनख्वाह.
मांगनेवाला भिपारी	मासिक महीना कीश्राद्ध महीना
मार्गशीर्ष अगहनमहीना	मास्म मनेकरना निषेध
मार्गित हूँडा खोजकिया	माहिप } वैश्यकीकन्यामेक्षत्रीसेहो
मार्जन लाललोभबृत्त संध्याआदिमें	माहिष्य }
मार्जना पोछनादेहआदिकासफाकरना	मात्रेयी, गौ गाय जोपूजनेकेयोग्यहोती है
मार्जार बिलार बिलौटा	मितपच जोलोभसेद्रव्यकेलियेपमेदेह
मार्जिता दहीमधुशकरआदिसेवनाश्री	पुत्रस्त्रीकोपीडादेताहै
खण्ड मूरनि	मित्र सूर्य मित्र जोशत्रुसेनमिलाहो
मार्तंड } सूर्य	सत्ता साथी सलाही
मार्तांड }	मिथस् परस्पर जैसेवाशिष्ठकौदिल्य
मार्दंगिक मृदगी मिरदंगवाला	मैत्रावरुणइनगोत्रोंकापरस्परविवा
मार्द्विक दाखकीमदिरा दाखकारस	हनहीहोताइत्यादि. [एकांतकीबात
मार्पर्क आर्य्य श्रेष्ठपुरिम्बा	मिथुन जोडा स्त्रीपुरुष मर्दआँरत
मार्ष्टि देहआदिकापोछनाआदि	मिथ्या भूँठ असत्य
मालक नीमकापेंड	मिथ्यादृष्टि नास्तिकता परलोकआदि
मालती चमेली जाईयाँदेशमें	नहीं हैइत्यादिकहेना
माला शिरमेंपहिरनेकोफूलआदिकी	मिथ्याभियोग भूँठकहेना जैसेहमारे
पिंडिकायाँपधि	सौरु० चहतेहोइत्यादि. [मदिरापीताहै
मालाकार माली फूलमालावाला	मिथ्याभिश्सन, भूँठपापलगाना जैसे दृ
मालावृणक पानीकावृण पानीकीघास	मिथ्यामति भूँडाज्ञान
मालिक माली	मिश्र } वनसोंफ जटाभासी
मालुधान चित्रसांप कौदिल्लाआदि	मिथेया वनसोंफ

मिषि } जटामासी  
 मिषी }  
 मिसि } वनसौफ सौफ जटामासी  
 मिसी }  
 मिहिका पाला जाडा  
 मिहिर सूर्य  
 मीठ सूत्रकिया पेसाबकिया  
 मीन मखरी राशि  
 मीनकेतन कामदेव प्रधुम्न  
 मीमांसक मीमांशापढ़नेवाला  
 मुकुट किरिट मुकुट  
 मुकुंद विष्णु कुंदरू पालक  
 मुकुर पेना सीसा दर्पणी  
 मुकुल कुलफूलीकलीफूलकी  
 मुकुष्टक बनभूंग  
 मुकूलक, दांती जिसकाबीजजमालगोटा  
 मुक्तकंचुक जिससापनेकेचुलिखोकीहो  
 मुक्ता मोती  
 मुक्तावली मोतीकामाला मोतीकाहार  
 मुक्तास्फोट मोतीनिकलनेवालीसीपी  
 मुक्ति, मोक्ष जिससेफिरजन्मनहो [आदि.  
 मुख द्वार दरवाज डेउड़ी मुंह आरंभ  
 मुखर बबावतकहा बखी जिसकेमुख  
 कीनिंदाहो  
 मुखवासन पानइलाचीआदि  
 मुख्य आदिविधि श्रेष्ठ प्रधान उत्तम  
 मुग्ध मूर्ख बेबकफ  
 मुंड शिर मूकमुबाना शिरघोटाना  
 मुंडन मुटावना  
 मुटि नाऊ नाई. [ बनवाना.  
 मुंडित मूदमुटाये मुटावना शिरकेवाल

मुंडिन् नाऊ नाई हज्जाम  
 मुद्द ध्यानंद खुसी हर्ष  
 मुदिह मेघ बादर कामीपुरुष  
 मुद्गपर्णी बनभूंग  
 मुद्गर मोगदरलोहेआदिका  
 मुधा वृथा व्यर्थ वेमतलव  
 मुनि बौद्धभेद शाक्यमुनि थोडाबोलने  
 वाला ऋषि  
 मुनीन्द्र शाक्यमुनि वशिष्ठादि  
 मुरज मृदग बाजा  
 मुरमर्दन, विष्णु जिन्होंनेमुरदैत्यकोमारा  
 मुरा मुरहरी तालीसपत्र  
 मुशली छपकी  
 मुषक मूस चूहा  
 मुषा सोनारकीघरिया  
 मुषित चोरीहुई चोराया  
 मुषी सोनारकीघरिया  
 मुष्क अंडकोश पोता  
 मुष्कक मोखबृत्त  
 मुष्टिवंध हाथसेबहुतजोरपकड़ना  
 मुसल मूसर बलदेवनीकाआयुध  
 मुसलिन् बलदेवजी  
 मुसली मूसरि औपधि छपकी  
 मुसल्य मूसलसेमारनेयोग्य  
 मुस्ता } नागरमोथा  
 मुस्तक }  
 मुद्द बारबार फिरफिर  
 मुद्दमाया बहुतबोलना बारबोलना  
 मुद्दत ? २२३एकामुद्दत कबीदोयबी  
 मूक मूंगा जोबोलनमकै

मृदू	मूर्ख वेवकूफ	मृदु	मृगदंशक	कुकुर कुत्ता
मृत्	बंधा बांधाहुवा	मृत्	मृगद्विप	} सिंह
मृत्र	पेसाव	मृत्र	मृगदष्टि	
मृत्रकृच्छ्र	पथरी मृत्रकारुकरजाना	मृत्र	मृगधूर्तक	शियार
मृत्रित	मृता पेशावकिया	मृत्र	मृगनाभि	कस्तूरी. [विकाकरनेवाले]
मूर्ख	वेवकूफ. [होजाती है.	मृत्र	मृगवधाजीव	वहेलिया हनापार २ जी.
मूर्च्छा	जाफ चकर जोसंग्रामादिमे	मृत्र	मृगबंधनी	हिरनोकाजाल
मूर्च्छाल	मूर्च्छित मूर्च्छाआगई	मृत्र	मृगमद	कस्तूरी
मूर्च्छित	मूर्च्छाआना मोहहोना बढना	मृत्र	मृगया	शिकारी शिकार जीवहिसा
मूर्सा	बांधा बंधा	मृत्र	मृगयु	वहेलिया
मूर्त्त	मूर्त्ताआई कठिन मजबूत पोडा	मृत्र	मृगरौपज	हनाकेरोवाकेवलकैवलआदि
मूर्त्ति	देह कठिनता पोडाई प्रतिमा	मृत्र	मृगव्य	शिकार
मूर्त्तमत	कठिन कडा मजबूत	मृत्र	मृगशिरस्	} मृगशिरानक्षत्र
मूर्द्धन	शिर मूढ खोपरी	मृत्र	मृगशीर्ष	
मूर्धाभिषिक्त	ज्ञानी राजा श्रेष्ठ	मृत्र	मृगांक	चंद्रमा जिसमेमृगकाचिन्हहै
मूर्धा	} मुरहरी	मृत्र	मृगादन	नेदुयावाप
मूर्धा		मृत्र	मृगाशन	सिंह
मूल	वृत्तआदिकीजड़ नक्षत्र धन	मृत्र	मृगित	हुंदा पतालगया
मूलक	हिलसाशागभेद [रूप	मृत्र	मृगेंद्र	सिंह दुर्गाजीकापाहन
मूलकर्मन्	अपिधीआदिकोउच्चाटनादि	मृत्र	मृजा	देहकोपोछनाआदिसाफकरना
मूलधन	जमा २ विनानफा खरीदकी	मृत्र	मृज	महादेवजी
मूल्य	मोल तनख्वाह [खरीद	मृत्र	मृदानी	शिवजीकीमियापार्वती
मूपरु	मिस्त चूहा	मृत्र	मृणाल	भसींद कमलनाल
मृषा	सोनारकीघरिया	मृत्र	मृणाली	छोटीकमलनाल
मृषिकपणी	मुसिकनअपि	मृत्र	मृत्	माटी
मृषित	चोरायजाना चोरी. [नक्षत्र	मृत्र	मृत्र	मरा रोजरोजमांगकरखाना भि-
मृग	हिरन हना हुंदा पशु मृगशिर	मृत्र	मृत्र	क्षापृति भीम आधामस्थिरहोना
मृगणा	हुंदा गोजनगाना	मृत्र	मृनस्तान	मरेकेलियेदान मृनकनदाना
मृगतृष्णा	मरुदेशआदिकीवान्जोसूर्य	मृत्र	मृनालक	} तुवरि अरहरि
	कीकिरणोसेपानीमीदेसपडनाई	मृत्र	मृनालक	



मृत्तिका	माटी मिट्टी	मेढक	मदिराकीखली मदिराभेद
मृत्यु	मरना मरजाना	मेदस्	चरबी मासकाधी
मृत्युञ्जय	महादेव मन्त्र	मेदिनी	पृथ्वी धरती
मृत्सा	उत्तममाटी तुघरि अरहरि	मेदुर	यनाचिकनावाटर [ग्रहणकरलेय
मृत्सना		मेधा	युद्धि जिस्सेवहुतजल्दविद्याआदि
मृद्ग	वाजा	मेधि	खूँग पशुवाधनेका
मृदु	कोमल मुलायम	मेय	पवित्र शुद्ध
मृदुत्वच्	भोजपत्रकावृत्त	मेनकात्मजा	पार्वती मेनकाकीपुत्री
मृदुल	कोमल मुलायम	मेरु	सुमेरुपर्वत
मृदीका	दाख	मेलक	सगम मिलाप मिलना
मृध	संग्राम लडाई	मेला	नील लील
मृपा	भूँठ गलत	मेप	राशि लग्न मेढा
मृपार्थक	भूँठअर्थकीबात	मेपकवल	कवल
मृष्ट	साफकरना धोना	मेह	ममेहरोगवहुमकारका
मेकलकन्यका	नर्मदानदी जो मेकल	मेहन	लिंग जिससेपुरुषपेशावकरताहै
मेखलकन्यका		मेनावरुख	वाल्मीकि
मेखला	स्त्रीके मरकागहेना कभरपट्टा	मेनावरुखी	अगस्त्यऋषि
	कन्यनी कब्जावाधनेकीवृद्धी परतला	मेत्री	मित्रकेकाम
मेत्र	वाटर	मेज्य	
मेघज्योतिस्	विजुलीकीज्योति	मेधुन	भोगकरना स्त्रीकासगवसयोग
मेघनादानुलासिन्	मौर पुछार	मेरेय	पौकेफूल मुब्धनिया जलकीमदिरा
मेघनामन्	नागरमोधा	मोक्ष	जिससेफिरजन्मनहो मोक्षवृत्त
मेघनियोप	बादरकागर्जना	मोघ	व्यर्थ बृथा बेमतलब
मेघपुष्प	पानी जल कृष्णकाघोडा	मोघा	पाडरि
मेघमाला	बादरके भुड	मोचक	सहिजनकावृत्त
मेघवाहन	इन्द्र	मोचा	स्थावरकापेड केला
मेघाध्वन्	आकाश	मोटक	लहडू आनद
मेचक	काला नीला मोरकेपूँछकाचिन्ह	मोरट	ऊखकीजर
मेद्र	लिह पुरुषकाचिन्ह मड़ा	मोरदा	मुरहरी
मेधि	खूँग पशुवाधनेका	मोपक	चोर उडाईगीर
		मोह	मूर्छा जाफ चकर

मौकलि } कौवा  
 मौकुलि }  
 मौक्तिक मोती  
 मौद्गीन भूगकाखेत  
 मौन नबोलना  
 मौरजिक मृदंगिक पखावजी  
 मौर्वी धनुषकाढोरा प्रत्यंचा  
 मौलि शिखा मुकुट बांधेवाला  
 मौष्ठा गृहियोंकीमार घुसहाव  
 मौहूर्त } ज्योतिषी जोशी.  
 मौहूर्तिक }  
 म्लिष्ट, जोरातसाफसमभूमनआवै भरर  
 कीवांत. [ रुआदि.

म्लेच्छदेश आचाररहितदेश काम  
 म्लेच्छमुख तांसा म्लेच्छोंकामुंह  
 म्रत्तण जवटनतेलआदि

## ( य )

यकृत् पेटपेटहिनीतरफमांसकापिंडसा  
 यत्न देवजादि फुबेरादि फुबेरजी  
 यत्नकर्दम कपूर भगरु कस्तुरी कंको-  
 ल पेशरि चंदन सबतुल्यमपिलाकरलेप  
 यत्तधूप धूप रात्र  
 यत्तराज यत्तोशिराजा रुबेर  
 यक्ष्मन् क्षयीरोग  
 यजमान यज्ञादिकरनेवाला  
 यजुम् यजुर्वेद [ दिग्भरानमृयादि.  
 यज्ञ निमगंदेवताओंकापूजनहोहवना  
 यज्ञपुरुष विष्णु  
 यज्ञशेष यज्ञमेवासीधन्नआदि  
 यज्ञांग यज्ञकाअंग गुलमिन्वापैड [ प्यादि  
 यद्रिय यज्ञकीवे रोग्यदन्तुगाभरए

यज्वन् जिसनेविधिसेयज्ञकिया  
 यत् } जिसकारणसे जिससे  
 यतम् }  
 यति } इद्रियोंकोजीतनेवाला  
 यतिन् }  
 यथा धरावरीजैसै यथाकृष्णतथाराम  
 यथाज्ञात मूर्ख जैसाहुआतैसाही  
 यथातथम् सत्य यथार्थ जैसीवाततैसेही  
 यथायथम् यथायोग्य जैसाचाहिये  
 यथार्थम् सत्य ठीक सही-  
 यथाईरण चार भेदिहा छिपकरकाम  
 करनेवाला  
 यथास्वम् यथायोग्य जैसाचाहिये  
 यथेप्सित जैसीइच्छा जैसीचांदा  
 यदि दूसरे जो पक्षमे  
 यद्द्वया अपनीइच्छा किमीकेवशनरोना  
 यंतु सारथी रथवान् महाउत  
 यम यमराज देहसेसाधनेयोग्य कर्म  
 हिमानकरना सत्यरोन्नना पोगी  
 आदियुरेकर्मनकरना दानादिका  
 विचारसेलेनादेना संयम योगवा  
 यमानवा परदा वनात. [ अंग ]  
 यमराज. मरौकोट्ट व उचमलोपदेनेवाने  
 यमानिका अमवाइनि  
 यमुना नदी  
 यमुनाभ्रातृ यमराज  
 ययु अश्वमेधयोग्यरोदा  
 ययु नव  
 ययवयु जववापिन जवयमेवाग्ना  
 ययचार मेराभार  
 ययपन्न बांभ शरी

यवागू पतलाभात गोलाथी  
 यवस घास  
 यवाग्रज जवावार  
 यवानिका अजवाइनि  
 यवास जवासा  
 यविष्ट } छोटाभाई  
 यवीथम् }  
 यव्य जवकाखेतधरनेकास्थान  
 यशःपट्टह ढकावाजा यशकावाजा  
 यशम् कीर्ति यश  
 यष्टि लाठी कुवरी  
 यष्टिमधुक } ज्येठीमधु  
 यष्टिमधूक }  
 यष्ट यजमान यज्ञकरनेवाला  
 याग यज्ञ हवनादिकर्म  
 याचक } मांगनेवाला जांचक भित्तारी  
 याचनक }  
 याचना मांगना भित्ताआदि  
 याचित नित्यरयांचा रोजरमांगना  
 याचितक मांगनेसेमिला भित्ताइत्यादि  
 याञ्चा भित्ता मांगना  
 याजक होकमकरनेवालेब्राह्मण  
 यातना नरककीपीडा नरककादुख  
 यातयाम- भोजनसेरचाअन्नआदि  
 खराबअन्नरासीआदि  
 यातु- } राक्षस निशाचर  
 यातुथान }  
 याट्ट परस्परभाइयोंकीस्त्री देवरज्येठ  
 कीस्त्री देवरानीजेठानी  
 यात्रा चलना जाना देवताकीपूजाका  
 उत्साह प्राप्तहोना

यादःपति समुद्र  
 यादस् जलजीव जलकरेहनेवाले  
 यादसांपति बरुण पानीकेस्वामी  
 यान जीतनेवालेकाशत्रुपरजाना सव  
 . सवारीहांथीरथघोडाआदि  
 यानमुख रयादिकाआगेकाभाग रथ  
 काअग्रगाइत्यादि  
 याप्य नीच अधम पापी  
 याप्ययान पालकी मियाना पीनस  
 आदि जिसेनीचमनुष्यलेचलें  
 यामं पहर दिनरातकाअठवांभाग सं  
 मय देहकाधर्म  
 यामि बहिन कुलकीस्त्री कुलवधू  
 यामिनी रात रात्रि  
 यामुन सुरमा तुत्यांजन  
 यायजूक हमेशःयज्ञकरनेवाला  
 याव लाख महाउरु  
 यायक, जवबोदेकरकूटना गुरी. [निश्चयमें.  
 यावत् जबतक संपूर्णता प्रमाण अवधि  
 यावन् लोवान स्लेच्छोंकीशूष  
 याष्टीक लठवाज डंडावांधनेवाला  
 यास जवासा  
 युक्त योग्य जोन्यायसेप्राप्तद्वयादि  
 युक्तरसा रासशाग कोलिंदख  
 युग जोडा दो सतयुगआदि रथआदि  
 रथआदिकाजुवां चारहाय  
 युगकीलक जिमसेजुवामेवेलरंदकिये  
 जांपजमेमम्बल  
 युगंधर जुवांवांधनेकारयआदिमें जिम  
 मेयोदेवेलरयादिकेकाठमेवांधजांय

युगपत् एकसाथ  
 युगपत्रंक कचनारकापेड  
 युगपार्श्वग जुवांकेपासंत्रधाकाट  
 युगल जोडा दो स्त्रीपुरुष  
 युगाद्युग जुवांकेआगेजुवां जूडि  
 युग्म जोडा दो स्त्रीपुरुष मर्द औरत  
 युग्य सवारीरथहांथीआदि जुवांकेलेने  
 वालेवैलआदि  
 युद्ध संग्राम लडाई  
 युष् जवान स्त्री जवान औरत मध्यअ-  
 युवती बस्यावाली  
 युवन् जवान जवान  
 युवराज राजाकाज्येष्ठपुत्र राजकुमार  
 राज्यपानेकेयोग्य  
 यूथ पक्षीपशुआदिकासमूह भुँड  
 यूथनाथ बहुतहाथियोंमेवडाहाथी  
 यूथप जूही  
 यूथिका जूही  
 यूष पार्श्वपिप्यली तूतकावृत्त यज्ञस्तंभ  
 यूषक पानीकाफेना बंडाआदि  
 यूषकंटक यज्ञस्तंभकेऊपरगोलकाठ  
 यूषाग्र यज्ञस्तंभकाआगेकाभाग  
 यूषखंड स्तंभकाटुकडा  
 यूष जूस माइ  
 यूषत्र जुवांवांधनेकीरस्सी  
 यूग कवच सामादिउपाय ध्यान संगम  
 अर्पूकीप्राप्ति युक्ति योगकरना  
 विष्कुंभादियोग विश्वासघात  
 योगेष्ट सीसाधातु जस्ता  
 योग्य ऋद्धि वृद्धि औपशी योग्य

योजन श्कोशका योग  
 योजनपर्णी } मंजीठ  
 योजनवल्ली }  
 योत्र जुवांमेवांधनेकीरस्सी जोता  
 योद्धू } योद्धा वीर  
 योध }  
 योधसराव योद्धावोंकासंग्राममेशब्द  
 योनि स्त्रीकाचिन्ह स्त्रीकाभग  
 योप- }  
 योपित } स्त्री जिसमेधीर्यरुधिरइकठाहो  
 योपिता } गर्भहोताहै  
 यौतक कन्याकेविवाहमेदेना देहज  
 यौतव तौल ओष्टांतवर्ण जैसेव  
 यौवत जवानीस्त्रियोंकाभुंड  
 यौवन जवानी युवावस्था

( र )

रहस् वेग जन्दी [ लगजाना  
 रक्त लालरंग लोह केशरि मिला  
 रक्तक दुपट्टरीकाफूल तांबा  
 रक्तचंदन लालचंदन पतंगलकडी  
 रक्तपा जाँक जोलोहूपीलेतीहै  
 रक्तफला कुंदुरू  
 रक्तमाल करंजवृत्त [ कमल  
 रक्तसंध्यक सामकेफूलनेवालाल  
 रक्तसरोरुह } लालकमल  
 रक्तोत्पल }  
 रक्तांग कंपिला रोचनी औपधि जिस  
 कालालअंगहो  
 रत्नसभ रात्नसोंकीसभा  
 रत्नम् देवजाति रात्नस  
 रत्ना रत्नाकरना शरखलेना रात्न भस्म

रञ्जित	रञ्जाकिया पालाहुआ	रथकार	बड़ई कारीगर वर्णशंकरजाति
रञ्जिर्ग	राज्यकेरञ्जाकरनेवाले	रथगुप्ति	रथकीरञ्जालोहाआदिते
रक्षण	रञ्जा शरण	रथद्रु	तिनिसवृत्त. [ चाक.
रंकु	चितलाहिरन	रथांग	रथकासबसामान पैहा कुम्हारका
रंग	रौंगा रंग	रथांगाडयनामक	चक्रवाक चक्रहा
रंगाजीव	चितेर रंगरेज	रथिक	} महारथीआदि रथकास्वामी
रचना	मालाआदिवनाना	रथिन	
रञ्जक	धोवी बरेठा	रथिन्	रथपरचढ़केसंग्रामकरनेवाला
रञ्जत	चौंदी सपेद		रथकास्वामी
रञ्जनि	} राति चक्रपंतऔंपधि हरदी	रथ्य	रथकेघोडा. [ कासमूह.
रञ्जनी			रथ्या
रञ्जनीमुख	प्रदोष साम सायंकाल	रद	दांत
रजम्	रजोगुण स्त्रीकारजस्वला धूलि	रदनच्छद	नीचेऊपरकेओठ
रजस्वला	गासिकथर्मवालीस्त्री	रंध्र	छेद बिल
रज्जु	जौरी रस्ती	रभम्	आनंद वेग
रंजन	लालचंदन	रमणा	} स्त्री जोसुखसेरमै
रंजनी	नील लील	रमणी	
रण	संग्राम लड़ाई शब्दकरना	रमा	लक्ष्मी
रंडा	मुसकन औपध रांडखी	रंभा	केला अम्भरा बाँस
रत	स्त्रीपुरुषकाभोग पुतहोना	रय	-वेग जल्दी
रतिरुजित	मैथुनकीआवाज	रल्लकै	केवल
रत्तिपति	कामदेव मद्युन्न	रव	शब्द आवाज
रत्र	मणि हीराआदिपत्थर अपनीजाति	रचण	इमेशः शब्दकर
	मेश्रेष्ट जैसेस्त्रीरत्र पुरुपरत्र	रवि	सूर्य पूर्वकाग्रह
रत्रगर्भा	पृथ्वी	रशना,	जीभ स्त्रियोंकेकमरकागहना कपूर-
रत्रसानु	सुमेरुपर्यंत इत्यादि		पटा कंपनीजंजीरआदि
रत्राकर	समुद्र रजोंकीखानि	रश्मि	किरण पौंदेकीनाग
रत्रि	मुंझाहाथ कंधीमुठ्रीकाहाथ	रस	निसकाजीभसाइलेनीह गुजर?
रथ	वेत संग्रामकेलइनेलापकरथ		कपाय २. गुजर ३ लण ४ तदुथ
रथरुथ्या	रथोंकासमूह बहुतरथ		निक ६ शृंगार? गीन ७ कण्ठा ३

अद्भुत ४ हास्य ५ भयानक ६ वी.	राजराज कुबेर १, २, ३
भत्स ७ रौद्र ८ पारा विषतेज गानमें	राजलिग छत्रचामरादि
रसगर्भ अजन [ पतलमें ]	राजवश्य राजावोंकेवशकामनुप्य
रसना जीभ [ जनीरआदि ]	राजवत् जिसदेशमेंराजाहो राजधानी
रसना जीभ स्त्रियोंकेकमरपट्टा कधनी	राजवृत्त किरवारवृत्त
रसवती रसोई	राजसदन राजावोंकेमहल
रसा पृथ्वी पाठाऔपधि शालयऔपधि	राजसभा राजावोंकीसभा
रसाजन अजन -	राजसूय यज्ञकानाम जिसमेसवराजा
रसातल पृथ्वीतल पाताल	जीतनापड़ते हैं [ सपेटहो
रसाल आयकापेंडऊख	राजहस जिसहसकेचोचपैरलालहोंदह
रसाला दहीशकरआदिसेवनाश्रीखड	राजातन } चार चिरौजी खिरनीखित्री
रसित वादरकागर्जना [ मूरनि ]	राजादन } कापेंड
रसोनक लहशुन	राजाई अग्रह
रह } एकात जहाकोईनहो	राजि पाति लकीर
रहसू }	राजिका राई
रहस्य एकातकाहुवाकर्म	राजिल } निर्विपसर्प दुग्हासाप
राका पूर्णचन्द्रमाकीपृष्णिमासी	राजील }
राक्षस निशाचर हेतिमहेतिआदि	राजीव मद्धरीजाति कमल
राक्षसी धनहरीऔपधि	राज्याग राज्यकेअग ७ राजा १ मन्त्र २
राक्षा लाख महाउर	राज्य ३ किला ४ सनाना ५ सेना ६
राकव हिरनकेरोवाकाधस्र कवल	परस्पररोपकारीभित्र ७
राज राजा	रात्रि राति हरदी
राजक राजावोंकासमूह	रात्रिचर } राक्षस
राजकशेरु, नागरमोथा [ यत्त इन्द्र क्षत्री	रात्रिचर }
राजन् राजा मालिक स्वामी चन्द्रमा	राडात सिद्धात सिद्ध टीरुहोजाना
राजन्य क्षत्री	राध वैशाख्यमहिना
राजन्यक क्षत्रियोंकासमूह	राधा विशाखानक्षत्र कृष्णमीमिया
राजन्वत् जिसदेशकाराजाधर्मशीलसे	राम यलदेवनी हिरनकीजाति काला
शोभितहो सुन्दरदेश	मनोहर सुन्दर श्रीमहाराजाधिराज
राजवला प्रसारिणीऔपधि	दशरथनन्दन श्रीराम चन्द्रजिन्होंने
राजवीजिन् राजावेषकामनुप्य	

समुद्रमेसेतुवांधरावणादिमारे परे- शुराम सपेद	रुचक अंडाकापेठ विजौरानिवृ सॉचरु नमक संचलखार
रामठ हीगकापेठ हीग । ७	रुच प्रभा छवि प्रकाश
रामा स्त्री जोरमयमेचतुरहो ७ ८	रुचि छवि प्रकाश किरण तेज शोभा
रांभ ब्रह्मचारीआदिकावांसकाडंडा	रुचिर } सुन्दर मनोहर
राल धूप रार	रुच्य }
राशि मेपादि धान्यादिकीराशि ढेर	रुज्ज } रोम बीमारी
राष्ट्र देश नगर उपद्रव मरणादि	रुजा }
राष्ट्रिका भटकटैया	रुत शब्द
राष्ट्रिय राजाकासाला	रुदित रोना. [सेधिरजाना.
रासभ गर्दभ गदहा	रुद रुकना रॉकना नगस्कीनदीआदि
रास्ना रासनि रासशाक	रुद्र देवतोंकागण श्रीमहादेव
राहु, जोपर्वमेसूर्यचन्द्रमाकोग्रहणकरताहै	रुद्राणी श्रीपार्वती
रिक्तक खाली छुट्टा	रुधिर लोह मंगलग्रह केशरि
रिक्त्य धन द्रव्य	रुमा खारीसमुद्र सुग्रीववानरकीस्त्री
रिखण } अपनाधर्मछूटजाना रंगना वा	रुत हिरनकीजाति
रिंगण } लकोकाहाथपरसेचलना	रुशती बुरीवात दुष्टोंकीवात
रिति नंदी शिवजीकाबैल	रूप मोघ कोप
रिपु शत्रु वैरी	रुहा दूध
रिष्ट कल्याण अमगलकानाश	रूप जोआखसेजानाजाय [करती है.
रिष्टि खड्ग तलवार	रूपाजीवा,वेश्या जोअपनेरूपसेजीविका
रीढा अनादर अपमान	रूप्य चादी सुन्दरता
रीण वहना ढरकना [लोहेकाकीट	रूप्याध्यक्ष रूपयेकामालिक
रीति पीतरिधातु लोकाचार वहना	रूपित धूरिलगना गर्दालागना
रीती पीतल	रेखा लकीर डांडी
रीतिपुष्प जस्ता फूलधातु	रेचनी निशोथ कपिलाऔपधि
रूक्प्रतिक्रिया रोगकीटवाईआटिकरना	रेचित घोडेकोगोलचक्करदेना
रुक्म सोना	रेणु धूरि गर्दा
रुक्मकारक सोनार	रेणुक मटरमोथी
रुक्त स्नेहनहोना रुखा [पैरआदि	रेणुका औपधि
रुग्ण पीडित व्याकुल टूटाकाठ हाथ	रेतम् धातु पुरुपकावीर्य

रेप निद्रित अथम नीच  
 रेफ अथम नीच रअक्षर  
 रेवतीरमण रेवतीकेपतिपलदेवजी  
 रेवा नर्मदानदी  
 रे } धन सुवर्ण  
 राः }  
 रोक छेद पिल  
 रोग बीमारी [ रामकरता है.  
 रोगहारिन् वैद्य जोरोगकीदवाकरआ-  
 रोचन कालीसांवरीकावृत्त  
 रोचनी निशोथ औपधिभेद  
 रोचिष्णु बहुतशोभायमान  
 रोचिस् छवि प्रकाश  
 रोदन आंमूयाना  
 रोदनी जवासा  
 रोदसी } पृथ्वीआकाश  
 रोदसी }  
 रोध } नदीआदिकेकिनारा कगार  
 रोधस् }  
 रोधोवका नदी  
 रोष वाण तीर  
 रोमन् रोवा देहेकेनाल  
 रोमथ पशुवाँकापगुराना पागुरिमारना  
 रोमहर्षण } रोयाँखडेहोना  
 रोमाँच }  
 रोष क्रोध गुस्सा  
 रोहिणी, मुटकी नक्षत्र गौ चन्द्रमाकीस्त्री  
 रोहित लाल रोहूमदरी हिरनकीजाति  
 रोहितक रोहीवृत्त  
 रोहिताश्व अग्नि  
 रोहिन् वृत्त

रोहिप हिरनकीजाति  
 रौद्र रसभेद भयकर  
 रौमक विडचनमक वेडियालाने  
 रौरव नरक  
 रौहिण्य वल्लदेवजी युग्रह  
 रौहिप तृणभेद हिरनकीजाति

( ल )

लकुच बडहर छोटाकटहर  
 लक्तक पुरानेवस्त्रकेटुकडालत्ता  
 लक्ष वहानाकरना अपना रूपछिपाना  
 निशाना  
 लक्षण चिन्ह कलक देसना  
 लक्षणा } सारसपक्षीकीस्त्रीसारसी  
 लक्ष्मणा }  
 लक्ष्मण धनवान शोभायमान श्रीराम  
 चन्द्रकेभाई  
 लक्ष्मन् कलक चिन्ह श्रेष्ठ पुरय  
 लक्ष्मी, विष्णुकीप्रिया औपधि, संपति धन  
 लक्ष्मीवत् धनवान धनी [ छिपाना  
 लक्ष्य निशाना वहाना अपना रूप  
 लगुड थांसआदिकाडंडालाठी  
 लग्न मेपादि  
 लग्नक जामिनीदार जामिनिहा  
 लगु तुरत शीघ्र पिंडवाऔपधि इस्त  
 छोटा मनोहर  
 लगुलय तृणकीजर  
 लंका राजमोंकीपुरी  
 लगोपिका पिंडवाऔपधि  
 लजा शर्म [ वाला  
 लजाशील गर्मोला लंकाजवरने



लज्जित शर्मायगया  
 लट्वा गांवकीगरगैया केजभेद फलभेद  
 लता बेलि बौडनेवालीगुर्चआदि का-  
 लाविधारा सेवतीवसंतीलता पिंड-  
 का मालकांगुनि  
 लतार्क हरीपियाज  
 लपन मुख  
 लापित वचन बात कहाहुवा  
 लब्ध प्राप्त लाभ  
 लब्धवर्ष्य परिडत  
 लब्धानुज्ञ आज्ञालाभहोना  
 लभ्य न्यायसेप्राप्तकीद्रव्य  
 लंरन नाभितकलींरीमाला  
 लंबोदर गणेशजी जिसकालंबापेटहो  
 लय,गानानाचवाजाकासमहोना.[ताहो.  
 ललना स्त्री जिसकापतिवहुतप्यारकर-  
 ललंतिका नाभितकलींरीमाला  
 ललाट मस्तक माथ .  
 ललाटिका माथेकागडेना  
 ललाम घोडोंकेमाथेकीचितता पृंछ  
 घोडोंकेगडेना श्रेष्ठता पताका  
 ललामक,जोमालाशिरमेआगेकोपबाहो  
 ललित द्वियोंकेभ्रंगाररससेक्रिया सब  
 भ्रंगोंकीसुन्दरताकरना  
 लव नाजकाकाटना बहुतथोडा अंश  
 लवंग लौंग  
 लवण संधवनमकआदि  
 लवणाकर } खारीसमुद्र  
 लवणोद }  
 लवन धान्यादिकाटना. [ जातेहैं.  
 लवित्र हंसिया जिससेखेतआदिकाटे

लशुन } लहशुन  
 लशुन }  
 लस्तक धनुषकामध्य कमानकाबीच  
 लान्ना लाख महाउर  
 लाक्षाप्रसादन लाललोअ जिसकेमि-  
 लानेसेलाखमेंउत्तभरंगहोजाताहै  
 लांगल हल  
 लांगलदंड हलकाडंडा  
 लांगलपद्धति हलकीलकार वारु  
 लांगलिकी करियारी  
 लांगलिन,नारियर बलदेवजी हरजोता  
 लांगली जलपीपर नारियर  
 लांगुल } पृंछरोमयुत पृंछ  
 लांगुल }  
 लाजा लार्ड स्त्रील भूजेशान  
 लाञ्छन कलंक चिन्ह दाग  
 लावू } बोंबी  
 लावू }  
 लाभ नफा फायदा  
 लामञ्जक तृणजाति  
 लालसा बहुततृष्णा मांगना उत्कंठा  
 लाला लार मुंदकापानी  
 लालाटिक जोनाकरकोपप्रसन्नता  
 जाननेकोमालिककासुंददेखे जोना-  
 करकामनकरमर्क  
 लाव लारापत्नी बटेर  
 लासक नाचनेवाला  
 लासिका नाचनेवाली. [ जाय.  
 लास्कोटनी सुलाखीजिसमेमण्डेदी-  
 लास्य नाचना  
 लिरुच बड़हर घोटाकटहर

लिङ्गा	जुवोंकाअंडा लीख	लेश	बहुतथोडा
लिखित	लिसाहुवा. [ आदिकरना.	लेष्ट	मटीकादुकडा ढेल
लिंगवृत्ति	जीविकाकेअर्थजटातिलक	लेह	जेंवना भोजनकरना
लिपि	लिखा	लेलिहान	सांप
लिपिकर	लेखक लिखनेवाला	लोक,	पृथ्वीतलआदि मनुष्यादि स्वर्गादि
लिपिकार		लोकवधु	} सूर्य
लिपिकर		लोकवांधव	
लिपी	लिखा	लोकजननी	छक्ष्मीजी
लिप्त	लीपना लेपा	लोकजित्	बुद्ध विष्णुआदि
लिप्तक	धिपकाबुझायावाण	लोकमातृ	लक्ष्मी
लिप्सा	बांझा लाभहीइच्छा	लोकायत	हरिताल जैनिर्मतकाशास्त्र
लिवि	लिखा	लोकालोक	एकपरंतकानाम
लिविकर	लेखक लिखनेवाला	लोकेश	ब्रह्मा
लिविकर		लोचन	नेत्र आँस
लीढ	भोजन खाना	लोचमर्कट	} मोरशिखाआँपधि
लीला	स्त्रियोंकीशृंगारचेष्टा हँसी केलि विलासकाखेल खेल. [ लोटना.	लोचमस्तक	
लुठित	परिश्रमकेनाशार्थघोड़ेकोलोटना	लोत्र	चोरीकामाल आंसु
लुब्ध	बांझाकरनेवाला लोभी	लोध्र	लाललोध्र
लुब्धक	बहेलिया आर्द्रानक्षत्र	लोपामुद्रा	अगस्त्यऋषिकीपत्री
लुलाप	} भैसा	लोप्त्र	चोरीकामाल
लुलाय		लोमन्	रोवां देहकेपाल
लूता	मकरी	लोमशा	जटामासी
लून	काटा खडित	लोल	चंचल नास्थिरनरेंद
लूम	पूछ दुम	लोलुप	} बहुततृप्यायान्ना अतिलोभी
लैस	देवता	लोलुभ	
लैष्यक	लिखनेवाळा	लोष्ट	मटीकादुकडा ढेल
लैष्यर्षभ	इंद्र देवतांमैश्रेष्ठ	लोष्टभेदन	ढेलफोरनेवामुगटर मोंगरा
लैष्या	पांति रेप्या	लोष्ट	ढेल
		लोढ	अगह लोढा मरधातुसोनाआदि

लोहल जोवातप्रकटनकहे	वज्रपुष्प तिलकाफूल
लोहाभिसार महानवमीवविजयदशमी	वज्रिन् इंद्र जोवज्रआयुधराम्वतेहे
कोशसुस्थापनकरराजाचौकानीरां	वंचक धूर्त ठग सियार
जनादिकर्म	वंचित ठगागया
लोहित लाल लोहू लालरंगकाहिरन	वंचुक सियार
लोहितक पद्मरागमणि	वंजुल तिनिसवृत्त वेंत अशोक वृक्ष
लोहितचंदन लालचंदन	वट वरगदकापेड
लोहितांग मंगलग्रह	वटक वडापिष्टीआदिका
लौकायतिक चार्वाक जैनमती	वटी रस्ती जौरी वैथोंकीदवाईकीवटी
लौह सोनाआदिसवधातु	वडवा ब्राह्मणी घोड़ी
( व )	वडवानल जोअग्रिकारूपसमुद्रमेंहे
व तुल्यता समता	वडू चौडा फैला
वंश वाम कुल गोत्र समूह पीठि	वणिक वनियों मोललेनेटेनेवाला
वंशक अग्ररु	वणिकरूपथ वनियोंकीराह वाजार
वंशरोचना वंशलोचन	वणिक्या वनियोंकाकर्म वनियई
वंशिक अग्ररु	वंटक तालकेवांट भाग
वक्तव्य निदित हीन कहनेलागक	वत खेट दया संतोप विस्मय बुलावना
वक्तृ वक्ता कयाआदिकहनेवाला	वत्स हृदय छाती वडवा गुनादि वर्ष
वक्त्र मुख	वत्सक कुरैया
वक्र टेढा मंगलग्रह	वत्सतर नयाबैल कलोर
वक्त्र हृदय छाती	वत्सनाभ विपभेद सिंहायाभेद
वंक्षण जांघोकाजोडगाली	वत्सर टोअयनकाएकवर्ष साल
वंग रांगा वंगरस	वत्सल स्नेहकरनेवाला
वचन वात वाणी	वत्साडनी गुर्च
वचनेस्थित वातकामाननेवाला	वट वक्ता कहनेवाला
वचम् वाणी	वदन मुख
वचा वच	वदन्य दानशूर वडादानी वलिआदि
वज्र इंद्रकाआयुध सेहडकावृत्त हीरा	वदान्य वडादानी सुंदरवाणीमोलने
वज्रनिर्घोष } वक्ताशब्द	वटावद वक्ता कहनेवाला. [ वाला. ]
वज्रनिष्पेप }	वध माग्दालना

वध्य मारनेयोग्य शिरकाटनेलायक  
 वंध्य जिसवृक्षमेफलनहो वॉभ्रवृक्ष  
 वंध्या वॉभ्र जिसस्त्रीआदिकेगर्भभीनहो  
 वध्री चमडाकीवद्धी वाधी  
 वधू पिढकाऔपधि स्त्री पुत्रादिकीस्त्री  
 वद्ध अपनीस्त्री  
 वन पानी वन जंगल भिरना घर  
 वनतिक्रिका पाठाऔपधि  
 वनप्रिय कोकिला  
 वनमत्तिका वनकीमक्खी डांस  
 वनमालिन् कृष्ण विष्णु  
 वनमुद्ग वनमूँग  
 वनशृगाट गुखुळ  
 वनसमूह, वडाजंगल. [कटहरआदिवृक्ष.  
 वनस्पति जिसवृक्षमेफूलकिनाफलहो  
 वनहुताशन वनकीअग्नि  
 वनायु हिरन  
 वनायुज, वनायुदेशकेबोडे. [अनुरागहो.  
 वनिता स्त्री जिसमेअपनाआपअधिक  
 वनीपक } याचक भित्तारी  
 वनीयक }  
 वनोकम् वानर  
 वंदा वृक्षोंकावांटा  
 वंदाळ नमस्कारनित्यरकरनेवाला  
 वन्धा वनकासमूह वडाजंगल  
 वपा छेद विल चरवी  
 वपन भुंडनकावना  
 वपुस् देह शरीर  
 वम वॉवॉआदिकीमाटीउंचाई खेत म  
 हल नदीकाकिनारा पिता ढेर धूरि  
 सीसाधातु

वम } वांतहोना कय मुत्तसेमलगिरना  
 वमधु } हाथीकीसुंडकेपानीकेवृंद  
 वमि } उद्धार कय  
 वमी }  
 वयस् वान्यादिअवस्था पत्नी  
 वयस्थ युवा जवानी. [ काकोली.  
 वयस्था हर्र अँवरा मझेही सोमलता-  
 वयस्य जवान तुल्यअवस्थाकासाथी  
 वयस्या खसी साथिनि  
 वर केशर लपेटना सुंदरभक्ति दमाद  
 देवताआदिसेवर व्याहमेंपुरुष श्रेष्ठ  
 वरटां हंसिनी वरैया  
 वरटी हंसिनी  
 वरण वरुण शहरपनाह वॉसआदिकी  
 वेंटि गांवकेचारोंपास वरुणवृक्ष  
 सेतु पुल किसीकार्यकावरण  
 वरंड मुखकीपीडा भीतरकीपीडा  
 वरना चमडाकीरस्मीटांथीआदिकसने-  
 वरट वरटेनेवाला. [ कीवाधी.]  
 वरवाणिनी स्त्री जोपतिकीभक्तहो दरदी  
 वरांग माथ मस्तक योनि  
 वरांगक टालचीनी तज  
 वराटक रम्मी जौरी कौंदी  
 वरारोहा, स्त्री जिमकापीछेकाधरउत्तमहो  
 वराशि } मोटावरा मजीगाडाआदि  
 वरामि }  
 वराह शूकर  
 वरिवसित मेवाकिया  
 वरिवस्य मेवा  
 वरिवस्यन मेवाकिया

वरिष्ठ	१. तौवा	वर्धमान	अंडाकापेढ वदना
वरिष्ठ	श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ	वर्धमानक	माटीकासेरवा
वरी	शतावरी	वर्धिष्णु	वदनेवाला
वरीयस्	बहुतश्रेष्ठ. [ वरुणवृक्ष.	वर्मन्	कचच वस्तर
वरुण	पानीकेमालिक पश्चिमकेस्वामी	वर्धरो	वर्द्ध
वरुणात्मजा	मदिरा सराव	वर्मित	कचचपहिरं
वरुथ	रथकीरक्षा	वर्ष	मुख्य श्रेष्ठ
वरुथिनी	सेना	वर्षा	स्वयंवरकीस्त्री
वरेश्य	मुख्य श्रेष्ठ	वर्षणा	माझी
वर्कर	बकरा युवापश. [ समूह.	वर्षरी	वर्द्ध
वर्ग	जीवचरवजंगमविविनभाणइनका	वर्ष	मेघवर्षना भारतवर्षआदिदेशसाल
वर्षस्	रूप तेज विष्टा चंद्रमाकापुत्र	वर्षवर	वादशाहीसोजा
वर्षस्क	विष्टा	वर्षा	बरसातकीऋतु
वर्षा	ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र हाथीकी भूल	वर्षाभू	वर्षाकेभूका
	रंग स्तुति अक्षर यशगुणकीकथा	वर्षाभ्वी	वर्षातीमेभूकी
वर्षाक	सुगंधितउवदन चन्दनादिकालेप	वर्षीयस्	बहुतवर्षका अतिवृद्ध
वर्षाणत	स्तुति बडाई	वर्षोपल	आकस्मात्प्रथममेघकेबड़ेबूट
वर्षाणन्	ब्रह्मचारी	वर्षमन्	देंह ममाण अतिसुंदर मूरति
वर्षक	बटईपक्षी बोडेकीटाप	वलक्ष	सपेट
वर्तन	जीयिका बरताव	वलज	खेत शहरकाफाटक अनाज संग्राम
वर्तनि	} मार्ग रास्ता	वलजा	सुंदरी उत्तमस्त्री
वर्तनी		वलभि	चन्द्रशाला घरकामध्य महलके
वर्त	सुगंधितउवदन बडी	वलभी	ऊपर
वर्तिका	बटईपक्षी बाती	वल्य	पहुंचाकागहना पहुंचीआदि
वर्तिष्णु	बरतावकरनेवाला	वल्यित	नगरादिनदीआदिसेधिरना
वर्तुल	गोल	वलीक	घरकेबाइरकीभीतिकीदानी-
वर्त्मन्	रास्ता आँखिकापुट	वलीमुख	वानर. [ यादि.
वर्ष	सीसाधातु	वलक	} घृत्नादिकावलकला
वर्षक	भारंगी	वलकल	
वर्षकि	काठबनानेवाला बटई	वल्लिगत	घोषेनीचौकचाल
वर्धन	वदनेवाला वठरना	वल्यु	सुन्दर

वल्मीक	वैवौरि वाल्मीकऋषि	वस्ति	नाभिकेनीचेमूत्रकास्थान	
वल्मिक	} वाल्मीक	वस्त्य	घर माकान ।	
वल्मिकि		वस्त्र	कपडा	
वल्मीकी	वीणा	वस्त्रयोनि	कपडावननेकेकारण ४ छाल १	
वल्मीक	कुलीनघोडा प्यारा मालिक		- फल २ किरवा ३ रोमा ४	
वल्मीक	} तुलसीआदिकीमजरी	वस्त्रवेश्मन्	हेरा तबू कपडेकाघर	
वल्मीकी		वस्त्र	मौल दाम	
वल्मीकी	वेलि	वस्त्रसा	नसँ जिनसेअगसवधेहे	
वल्मीक	} सूखामास	वह	वैलकाकांध	
वल्मीक		वल्मीक	वहिसिद्धक	चीत
वल्मीक	काति इच्छा	वहिसि	अग्नि आग्नेयकेस्वामी	
वल्मीक	मणिमन्त्रादिसेवशीकरण	वहिसिख	कुसुम	
वल्मीक	हथिनी वाफ स्री गौ लडकी	वा	उपमामे विकल्पमे बराबरी निश्चय	
वल्मीक	खाली छूटा	वारूपति	उत्तमवार्तामिचतुर बृहस्पति	
वल्मीक	वहीपीपरि समुद्रकानमक	वाक्य	तिढतमुचतपदसमूह वाणी	
वल्मीक	वशमेप्राप्त	वागीश	उत्तमवार्तामिचतुर बृहस्पति	
वल्मीक	देवतोंकेहविदेनेमें यथावपट्टद्राय	वागुनी	वचुकी	
वल्मीक	अग्निमेंहोम	वागुरा	हिरनफासनेकाजाल	
वल्मीक	राति घर	वागुरिक	हिरनफासनेवाला	
वल्मीक	वस्त्र कपडा	वाग्निमन्	पतकहा वातमेचतुर नैयापित्र	
वल्मीक	अतु	वाङ्मुख	वाणीकाआरभ	
वल्मीक	चरयी	वाङ्	वात वाणी	
वल्मीक	छूटा खाली [ अग्नि किरण	वाचयम	मुनि जोमौनप्रतकरै	
वल्मीक	देवगण गुमा रुई मदार द्रव्य रत्न	वाचक	गोश्र्वेश्वर	
वल्मीक	मदार सौंभरनमक	वाचस्पति	बृहस्पति	
वल्मीक	कृष्णकेपिता	वाचाल	वहावनवहा वशी	
वल्मीक	} पू ३	वाचाट	निंदितवातकरनेवाला	
वल्मीक		वल्मीक	वाचिक	मदगकीवात
वल्मीक		मदार सौंभरनमक	वाचोयुक्तिपटु	नैयायिक वार्तामिचतुर
वल्मीक	चीज गोईरस्तु	वाच	माणकेपाय	

वाजपेयः यज्ञ  
 वाजिदंतक रूसार रूस  
 वाजिन् पत्नी घोडा बाण  
 वाजिशाला घोडशाला  
 बांझा इच्छा  
 वाटी शृङ्खला वाटिका कमर  
 वाट्यालका वरियारी  
 वाढव वडवानल ब्राह्मण बहुतप्रोडी  
 वाढवानल समुद्रकीअग्नि  
 वाढव्य ब्राह्मणोंकासमूह  
 बाणि सूतकाविनना  
 बाणिज वनियां रोजगारी  
 बाणिज्य वनियांकेकर्म वनियांपना  
 बाणिनी नाचनेवाली दूती मतवाली-  
 बाणी, भापा बोली सरस्वती. [चतुरस्त्री.  
 वात वायु हवा  
 वातक शनपर्णीश्रौषधि  
 वातकिन् वादी वातरोगवाला  
 वातपोथ छूल हांख. [भिद.  
 वातममी } वायुकेसमानभागनेवाला मृग  
 वातमृग }  
 वातरोगिन वादी वाईकारोगी  
 वातायन भरोखा खिरकी  
 वातायु हिरन  
 वाति वायु हवा  
 वातुल } वाईसेबहुतपीडितमनुष्यादि  
 वातुल }  
 वात्या वातकासमूह बहुतवाई  
 वात्सक यद्धरोंकासमूह  
 वादित्र } वाजा  
 वायु }

वान शूखाफल. [स्त्रीदोनोब्रम्हचारी.  
 वानप्रस्थ महुवा आश्रम जिसमेपुरुष-  
 वानर बंदर  
 वानस्पत्य जोबृत्तफूलकरफले  
 वानायु हिरन हन्ना  
 वानीर बेंत  
 वानेय केवटियामोथा  
 वापदंड वस्त्रविननेकादंडा  
 वापि } वावली  
 वापी }  
 वाप्य कूट  
 वाम मनोहर उलटा कामवांया मेय  
 स्त्री केरुच श्रीमहादेव विगडाशु  
 वामदेव महादेव एकऋषि  
 वामन दिग्गजकानाम छोटा वरुना  
 विष्णुकाअवतारवल्लिहलनेवाला  
 वामलूर बेंबौरि जिसमेवहुघासर्परहतै  
 वामलोचना स्त्रीसुंदरनेवाली  
 वामा मनहरनेवालीस्त्री  
 वामी घोड़ी  
 वायदंड कपड़ाविननेकादंडा  
 वायस कौवा  
 वायसाराति उल्लू गुडुग  
 वायसी काकमाची केवटिया  
 वायसोली वाकोली  
 वायु हवा  
 वायुमस अग्नि आगि.  
 वार पानी समूह अबसर दिन  
 वार जल  
 वारण हाथी

वारण्युपा } कैला  
 वारण्युसा }  
 वारवाण सग्रामके वस्त्रवस्त्ररआदि  
 वारमुख्या, जिसवेश्याकागुणसेआदरहो  
 वारस्त्री वेश्या  
 वाराही वाराहीकद देवी  
 वारि जल पानी  
 वारिद मेघ पानीदेनेवाले  
 वारिपर्णी जलकुभी पुरइनि  
 वारिप्रवाह, पहाड़ोंके भरना पानीकाबहना  
 वारिवाह मेघ वादर  
 वारी हाथीबंधनेकीशाला पीलखाना  
 वारणी मंदिरा पश्चिम गडदूर्वा  
 वार्त रोगनाशहोना निर्वलता यथार्थ  
 लोककीवार्तकहना  
 वार्ता जीविका वृत्तात वतकहाव  
 वार्ताक }  
 वार्ताकी } भौंटा बंगन  
 वार्तावह कामारधी कौवरिलियेधान्य  
 लकरचलना  
 वार्धक बुढ़ापा वृद्धोंकासमूह बुढ़ाना  
 वार्धक्य बुढ़ापा वृद्धोंकासमूह  
 वार्धुपि }  
 वार्धुपिक } व्याजघानेवालेमहाजन  
 वार्मण कवचोंकासमूह वस्त्ररंजीरोंकी  
 वार्पिक प्रायमाणाध्यापक रामाकाम  
 हसूलवर्षका  
 वाल शिक्केवाल लडका  
 वालधि रोबोंसहितपूछ

वालपत्र, खैर कत्था [दिया वेनीपानआदि  
 वालपारया वालोंकागहेना कटिया बँ  
 वालहस्त रोवादारपूछें  
 वालुक मुसधरझोंपधि सुगंधद्रव्य  
 वालुका बालू  
 वालक चौमरस्र बकलाआदिकेबस्र  
 वाल्मीक ऋषिकानाम  
 वावदूक बहुतबोलनेवाला  
 वावृत्त वरणकरना  
 वाशिका रुस रुसाह  
 वाशित पक्षियोंकाशब्द  
 वाशिता स्त्री हथिनी  
 वास सभाकास्थान निवास  
 वासक रुसाह  
 वासगृह घरकामध्य माँभयर  
 वासती कुदभेद सेवती घमतकीबेल  
 वासना विचार भावना  
 वासयोग सुगंधकरनेकायत्र छानाचूर्ण  
 वासर दिन यतवारआदि ७  
 वासव धनिष्ठानक्षत्र इद्र  
 वासस वस्त्र कपडा  
 वासिका रुस रुसाह [ वासित  
 वासित सुगंधितसेवसाईबस्तु पुष्पादिसे  
 वासिता स्त्री हथिनी  
 वासुकि नागराज  
 वासुदेव वसुदेवके पुत्रश्रीकृष्णजी  
 वासु कुमारग  
 वास्तु घरकीपृथ्वी  
 वास्तुक }  
 वास्तुक } वधुग



वास्तोष्पति	विक्रयिक	वेंचनेवाला
वास्तु	विक्रांत	शूर वीर
वाह	विक्रिया	विकार
वाहद्विपत्	विक्रेतु	वेंचनेवाला
वाहन	विक्रव	शोकादिसंख्याकुल
वाहस	वित्ताव	द्वोक
वाहित्य	विरय	
वाहिनी	विस्त	नकटा जिसकीनाककटीहो
वाहिनीपति	विस्तु	
वि	विगत	तेजकानाश तेजहीन
विपत्नी	विगतार्त्वा	जिसस्त्रीकारजस्वलाबंदहो
विशति	विग्र	नकटा [लड़ाई जौं लड़ाई विरुद्ध
विकंतक	विग्रह	शरीर पराईराज्यकोपीड़ादेना
विकच	विग्रस	वैश्वदेवसेवचाअन्नकाभोजन
विकर्तन	विघ्न	विघ्न अच्छेमेडुराईहोना
विकलांग	विघ्नराज	गणेशजी जिनकेपूजनसे
विकस्वर		विघ्ननाशहो
विकषा	विचक्षण	परिणत
विकसा	विचयन	इठना खोजना पतालगाना
विकसित	विचर्चिका	खानु
विकस्वर	विचारणा	प्रमाणोंसेनिश्चयकरना
विकार	विचारित	विचाररहुआ
विकासी	विचिकित्सा	संशय सदेह
विकासिन्	विच्छेदक	सुदरघर राजावाँकामाकान
विकिर	विच्छेदक	
विकिरण	विच्छाय	पक्षियोंकीछाया
विकीरण	विजय	एकांत जहाँकोईनहो
विकुर्बाण	विजय	जीतना
विकृत	विजिल	
विकृति	विज्जन	चिकना साहीसहितटहीआदि
विक्रय	विज्जल	
विक्रय		वेंचना

विज्ञ चतुर प्रवीण  
 विज्ञात प्रसिद्ध  
 विज्ञान मोक्षविनाश्रौरशास्त्रमेवान  
 विज्ञानिक चतुर प्रवीण  
 विद् विष्ट वनियौ  
 विट धूर्त नमकभेद मूस खैर [कावुक.  
 विटंक, महल आदियोंमें पत्तियोंके काठके घर  
 विटप वृक्षकी फौलाई डार पत्ता धूर्तों-  
 विटपिन् वृक्ष पेंड [ कामालिक. ]  
 विटिका फोड़ा फुरिया  
 विट्खदिर दुर्गधित खैर  
 विट्चर गोंवकामूकर  
 विड लवण  
 विडंग वायविडंग  
 विडाल बिलार बिलौटा  
 वितस मृगपत्तीके जाल  
 वितडा यातोंका भगडा  
 वितथ भूठबोलना  
 वितरण दान देना  
 वितर्दि } वेदी आगनेमें बैठनेका स्थान  
 वितर्दी }  
 वितस्ति वित्ता बारह आंगुर  
 वितान चढ़ोवा यज्ञ शून्य धीरा  
 वितुञ्ज विसखपरियाशाग  
 वितुञ्जक भूम्यामलकी विसखपरिया  
 धनिया आँसुका प्रजन  
 वित्त द्रव्य प्रसिद्ध विचारकिया  
 विदर दुइहोना फटना  
 विदल रॉसके पत्ताका बना पात्र  
 विदारक सूयेनटी तालमें जोगहटाकिया  
 जाय चूडागहडा

विदारी कालाविदारीकद  
 विदारिगंधा } सरिवन आँपधि  
 विदारीगंधा }  
 विदित प्रसिद्ध अंगीकारकिया प्राप्त  
 विदिश दिशावोंकामध्य विदिश  
 विदु हाथीके कुभकामध्य [ केंभाई  
 विदुर वैत जाननेवाला राजाधृतराष्ट्र  
 विदुल जलवैत  
 विद्ध छेदना छेदागया  
 विद्धकर्णा पाठा आँपधि  
 विद्याधर देवजाति  
 विद्युत् विजुली [ प्रमेहकीपिटिका  
 विद्रधि पेटआदिमें फुनसी शिरकर्ण  
 विद्रव भागना पलायजाना  
 विद्रुत यीआदिका पतला होना  
 विद्रुम मूगा [ मालकांकुनि  
 विद्रुमलता नलीनामगधद्रव्य पर्वारी  
 विद्रुम् पण्डित आत्मज्ञानी बुद्धिमान  
 विद्रुप वैर  
 विधवा रांडखी जिसका पति मर गया हो  
 विधा मोल तनखाइ विधान प्रकार  
 ऋद्धि हाथीका अन्न  
 विधातृ ब्रह्मा [ विधान करनेयोग्य  
 विधि ब्रह्मा पूर्वकैरुम भाग्य धर्मशास्त्र  
 विधिदर्शिन् यज्ञकर्मके देखनेवाले जिस  
 सेविगडैनहीं [ कपूर राक्षस  
 विधु विष्णु चन्द्रमा वायव्यकाग्रह  
 विधुत त्यागकिया  
 विधुतुद राहु जो चन्द्रमाको दुखदेता है  
 विधुर अत्यतविद्योग

विभुवन	काँपना	विपुल	विस्तीर्ण चौड़ा
विभूजन		विपुला	पृथ्वी
विधेय	वातमाननेवाला	विप्र	ब्राह्मण चारौवर्णमेप्रथम
विनयग्राहिन्		विप्रकार	अपकीर निदा
विना	वर्जना मनाकरना	विप्रकृत	अपमानकिया विवर्णकिया
विनायक	श्रीगणेश बुद्ध गरुड	विप्रकृष्टक	दूर
विनाश	नदेखपड़ना मरना	विप्रतीसार	पश्चात्ताप पछिताना
विनाशोन्मुख	पका मरनेकेसमीप	विप्रयोग	अपनेप्यारेकाअलगहोना
विनीत	जोघोड़ासुंदरतनेसेचलै नम्र	विप्रलब्ध	जोठगाजाय [ वियोग ]
शिक्षित		विप्रलंभ	अलकीवातै वियोग
विनीतक	परम्पराकीसवारी पीनसआदि	विप्रलाप	परस्परविरोधकीवात
विदु	बुंद छिटकी	विप्रश्रिका	शुभाशुभजाननेवालीस्त्री
विध्य	विध्याचलपहाड़	विमुष्	पानीकेबुंद [ प्रलय ]
विन्न	विचारकिया प्राप्त	विप्लव	मनुष्यकालोटनाआदि उपद्रव
विन्यस्त	धरना मिला भौटा	विप्लुष्	पानीकेबुंद
विपन्न	शत्रु बैरी	विबुध	देवता
विपंची	वीणा जिसमे७तारहोते है	विभव	धन द्रव्य
विपण	वेंचना मोलदेना	विभाकर	सूर्य जोप्रकाशकरते है
विपणि	दुकान बाजार बनियोंकीराह	विभावरी	रात्रि
विपणी	सराफा बजाजा इत्यादि	विभावसु	अग्नि सूर्य
विपत्ति	आफत परेशानी	विभीतक	बहेर
विपय	कुराह खरावरास्ता	विभृति	ऐश्वर्य भस्म
विपद्	आफत	विभूषण	गहेना [ लास भ्रांति शोभा ]
विपर्यय		विभ्रम	स्त्रियोंकीशुंगारादिचेष्टा वि-
विपर्याय	उलटाहोना	विभ्रांज	अतिशोभित
विपर्यास		विमनस्	प्याकुलचित्त
विपश्चित्	परिहृत विद्वान	विमय	बदला व्यरहार
विपाट	पाशमोचिनीनदीवशिष्टजीकी	विमर्दन	केशरिआदिमलना
विपादिका	बेबाई पैरफटनेकारोग	विमला	गूहर
विपाशा	पाशमोचिनीनदी	विमर्श	विचार भावना वासना
विपिन	वन		

विस्तार } फैलनेवाला	वीणा वाजा
विस्तर } शब्दकरते फैलना	वीणादंड वीणाकादंडा
विस्तार } चौड़ा फैला ; वृत्तकीशाखा	वीणावाद वीणावजानेवाला
पत्तोंकासमूह	वीत संग्रामादिकेअयोग्यहाथीघोडा
विस्तृत फैला चौड़ा	वीतंस मृगपक्षियोंकाजाल
विस्फार धनुषकाशब्द	वीति घोड़ा
विस्फोट } फोड़ा फुरिया	वीतिहोत्र-अग्नि
विस्फोट }	वीथी पॉति मार्ग
विस्मय, आश्चर्य ताज्जुब, अद्भुतरस	वीध्र स्वभावसेनिर्मल
विस्मयान्वित परायेधर्मादिमेआश्चर्य	वीनाह कुपोंकेमोहराकापत्थरआदि
प्राप्तहोना	वीर रसभेद जिसमेउत्साहयुद्ध, शूर
विस्मृत, भूलना	वीररु- } वृत्तभेद
विस्त विनापकेमांस आदिकीदुर्गंध	वीरतर } अर्जुनवृत्त
विस्त्रंभ विश्वास	वीरपत्नी वीरकीस्त्री
विस्तसा जरा बुढ़ापा	वीरपाण } संग्राममेवीरोंकामयपीना
विस्तार भातकामाह बुढ़ेना	वीरपान }
विहग } पत्नी चिड़िया	वीरभार्या वीरकीस्त्री
विहग }	वीरमातृ वीरपैदाकरनेवाली
विहगमा } विहंगा खेटी	वीरवृक्ष भिलांवाँ [ आदिकटेपड़ेहों
विहगिका }	वीराशसन जिससंग्रामभूमिमेहाथी
विहसित मध्यहँसी सहारेमेहँसना	वीरसू वीरकीमाता
विहस्त शोकादिसेव्याकुलहोना	वीरदन् जिसकाअग्निहोत्रनाशहो
विहापित त्याग दान	वीरिण ऊसर शुन्यदेश
विहायस आकाश	वीरुधू, फैलीहुईवेलि
विहायस् आकाश-पक्षी-	वीर्य बहुतसमर्थतासेउत्साह पुष्पका
विहार पैरजीचाल	वीर्य तेज-प्रभाव समर्थता बल
विहल व्याकुलतासेमात्रभग	वीर्य ध्यानआदि, रास्वा योभा
वीनाश एककात प्रकाश	वृक मेढ़हा मेंडिया मूस चटा
वीचि लहरी	वृक रूप अनेकपदार्थकीधूप धूपमर
	वृण कटा स्थित-

वृत्त पेंड १ ३ ना  
 वृत्तमैदिन कुन्दार १ १ १  
 वृत्तरुहा वादा कोई वृत्तपरकीरेलि १  
 वृत्तवाटिका मन्त्री वेण्याकेघरकेपासकी  
 वाटिका [नाताह कुन्दारि  
 वृत्तादनी वादा जिससेवृत्तखराब १  
 वृत्ताम्ल चूक १ १  
 वृत्तिन पापकुटिल देहा केश खून खाल  
 वृत्त परराकरना १ १ १  
 वृत्ति मलपेदना उत्तमभक्ति जिससेदेवता  
 प्रसन्नहोवरदेय नगराद्रिकेआस  
 पास वासआदिकीवेदि [पीढा  
 वृत्त गोल वरण श्लोक चरित्र व्यतीत  
 वृत्त वातीलोककी प्रकरण प्रकार  
 सपूर्णता  
 वृत्ति जीविका आचरण सूत्रकाविवरण  
 वृत्त अधिकार वृत्तासुर शत्रु मेघ इद्र पर्वत  
 वृत्त इद्र जिन्होंनेवृत्तासुरमारा  
 वृत्ता निरर्थक अविधि व्यर्थ  
 वृत्त शिलाजीत वृत्ता पण्डित  
 वृत्तव बुढापा  
 वृत्तदारक विधारा औषधि [नाभि  
 वृत्तनाभि तादारा वातआदिसेनाड़ी  
 वृत्तयनस् इद्र  
 वृत्तमघ वृत्तारासुह  
 वृत्ता पत्तेवालदीसी बुद्धिया  
 वृत्ति वदना वृत्ति  
 वृत्तिजीविका विराजमाना उगही  
 वृत्तिमन् वृत्ता उत्पन्न वडा  
 वृत्तव बुढापन

वृद्धाजीव ऋणदेव्याजलेतेवाला  
 वृत्त फलफूलनहोनापेंडमें  
 वृत्त समूह भुङ्ग  
 वृत्तभेद समूहकेभेद  
 वृत्तदारक देवता रूपवान श्रेष्ठ  
 वृत्तिष्ठ, वृत्तवृत्त  
 वृत्तिक कर्कट वृत्तभेद वृत्तिकराशि  
 ऊनखानेवालाकिरवा विच्छ  
 वृत्त - राशि-लग्न, धर्म सुकृत क्रम  
 रुसाह ऋषभऔपधि बैल बली-  
 बैल मूस श्रेष्ठ  
 वृत्तण अण्डकोश पोता  
 वृत्तदशक विलार  
 वृत्तध्वज श्रीमहादेवनी  
 वृत्तन-इद्र  
 वृत्तम बैल  
 वृत्तल शूद्र [कीइच्छाकर  
 वृत्तस्यती जोस्त्रीघोडेवलसेसमानभोग  
 वृत्ता इद्र मुसकनऔपधि [पार्वती  
 वृत्ताकपापी जीवती गतापरि लम्बी  
 वृत्ताकपि, विष्णु महादेव  
 वृत्ती ब्रह्मचारीआदितपस्वीकाआसन  
 वृत्ति मेघनरतना  
 वृत्ति किरण पेश रगभेद  
 वेग, जोग विद्याआदिसेनिफलना रत्ना  
 वेगिन तुर्त जन्दी गुटे  
 वेणु नागिनमेलनेवाला  
 वेणी श्रीदेवतालवृत्त निरखी नागि  
 नमवैधवान  
 वेणु वाम

वेणुकनाचातुकाकोडा...  
 वेणुधम वंशीवजानेवाले...  
 वेतन तनखाद मोल...  
 वेतस वेत...  
 वेतस्वत् जहांबहुतवेतहो...  
 वेताल भूतवैठाहोजिसमुदमे वेताली...  
 वेत्रवती जंदी वेतवानदी...  
 वेद अंग यजु साम अथर्वख...  
 वेदांतिन वेदांती ब्रह्मजानेवाला...  
 वेदना अत्रनुभव...  
 वेदि यज्ञकेलियेपृथ्वी...  
 वेदिका अंगिनमेवैठको वेदी...  
 वेदी यज्ञकीपृथ्वी...  
 वेध वेधना घुसेदने...  
 वेधनिका सुम्मी मणिआदिछेदनेकी...  
 वेधमुख्यक कचूर...  
 वेधंस अह्मा विष्णु परिदत्त...  
 वेधित छेदना...  
 वेपथु कांपना...  
 वेमने कपडाविननेकाडंडा...  
 वेला समुद्रकीवाढ़ि समये दिनाकेश...  
 वेरना रोग सीमा बाणी...  
 वेह चायविडंग...  
 वेहज मिर्च...  
 वेह्लि घेलि...  
 वेह्लित टेढ़ा कुडकांपना...  
 वेर वेरयोका मुहल्ला घर भेपवनाना...  
 वेशत छोटातालात्र...  
 वेशवार शागतरकारीआदिपनोनेका  
 मसालाहरतरडकापीसा

वेशमन् घर माकान...  
 वेशमभू घरकीपृथ्वी...  
 वेरयो अपतुरिया...  
 वेरयाजनेसमाश्रय अपतुरियोकाटोला...  
 वेप भेपवनाना...  
 वेपवार मसाला...  
 वेष्टित लपेटा...  
 वेप्या अपतुरिया...  
 वेसचार मसाला...  
 वेहत्त जिसगाकाबेलकेसदनेसेगर्भ गिरे...  
 वे पादपूरण तिथ्यार्थ अलगकहनेमे  
 वैकलक } तिरछाछातीमेपडामाला  
 वैकालिक }  
 वैककित सुवावृत्त  
 वैकुण्ठ विष्णु विष्णुलोक  
 वैकृत वीभत्सरस  
 वैजनन गभसेनकलवालादश्यामर्दाना  
 वैजयंत इन्द्रकाघर  
 वैजयंतिक निशानवाला पताकाघर  
 वैजयंतिका जतिवृत्त  
 वैजयंती ध्वजा पताका  
 वैज्ञानिक चतुर मधीण  
 वैश्य वांसकाफल वांसकासांटी  
 वैश्विक वंशीवजानेवाला वांसुरीवाला  
 वैशिक वीणावजानेवाला  
 वैष्णक चायुक कोडा  
 वैतसिक भृगपत्नीवांधनेकांसनेवाले  
 मांसवेचनेवाले चिड़ीमार  
 वैतनिक चाकर मँनूर तनखाट्टेदार  
 वैतरणी नरककीनदी [ चनेवाले  
 वैतालिक राजावाको मनुतिकरकभगा

वैदेहक ब्राह्मणीमेवनियांसंपैदाहो  
 वनियों रोजगारी  
 वैदेही पीपरि श्रीरामकीप्यारीजानकी  
 वैद्य दवाकरनेवाला  
 वैद्यमातृ कूस रुसाह  
 वैधात्र सनत्कुमारइत्यादिब्रह्माकेवेदा  
 वैधेय मूर्ख वैवकूफ  
 वैनतेय , गरुडजी  
 वैनीतक - परम्पराकीसचारी  
 वैमात्रेय, वैमात्रभाई माताकीसौतिकपुत्र  
 वैमेय - बदला व्यवहार लेनदेन  
 वैयात्र बायकेचमझासेमदारथ  
 वैर विरोध दुश्मनी  
 वैरनिर्यातन } वैरनिकारना दुश्मनी  
 वैरशुद्धि } छोड़ना  
 वैरिन् शत्रु दुश्मन  
 वैवधिक कामारथी कैवरिहा  
 वैवस्वत यमराज  
 वैशाख महीना मयानीदहीमयनेकी  
 वैशेषिक सप्तपदार्थवादी -  
 वैश्य वनियां  
 वैश्रवण कुवेर  
 वैश्वानर ऋषि  
 वैसारिण मद्यरी  
 वैषट् देवताकोहव्यदेनेमे  
 व्यक्त प्रकट बुद्धिमान  
 व्यक्ति अलग-विचारना  
 व्यग्र आकुल बहुतकाममेचित  
 व्यंगा जिसकीकाअंगकुद्धकमहो  
 व्यजन पग्या घेना  
 व्यजक हांयआदिमेमनकीजातकहना

व्यंजन - चिन्ह दाडीआदिपुरुपकी स्त्री  
 कैकुचआदि गोद ककारादि भो  
 जनपदार्थ

व्यडंबक } अंडकापेंड  
 व्यडंबन }

व्यत्यय } उलटा विपरीत  
 व्यत्यास }

व्यथा पीड़ा वाधा

व्यथ वेधना छेदना

व्यथ्व कुराह बुरीरास्ता

व्यय - स्वर्च. [ लक्षण पीड़ा.

व्यलीक बुरीजात विनमयोजन वि-

व्यवधा धायजाना

व्यवसाय बहुतउल

व्यवहार विवाद अणलेनेदेनेकीवार्ता

व्यवाय मैधुन स्त्रीपुरुपकासंयोग

व्यसन - विपत्ति नाशकोईवस्तुका गि-

रना अमगल किसीकाममेलगना

मदिरापीनायादियुरेकर्म कड़ीवात

अभाग्य पाप

व्यसनार्त व्यसनसेदुग्धी

व्यस्त व्याकुल उलटा

व्याकुल, शोकादिसेअपनेकामकोभूलना

व्याकोश } फूलाफूल

व्याकोप } फूलाफूल

व्याम्र वात्र उत्तरपदमेअर्थार्थ जेमे

रामपुरुषव्याम्र

व्याम्रनरा सुगधरन्नुसावनरा

व्याम्रपाद वृत्तनिरेश

व्याम्रबुन्द अडाकापेंड

व्याम्राट भरदापत्ती

व्याघ्री भटकटैया. [ छिपाना  
 व्याज कपट वहाना शठता अपनारूप  
 व्याड साप वाघ  
 व्याडायुध वाघनखसुगंधद्रव्य  
 व्याध बहेलिया मृगामारनेवाले  
 व्याधि कूट रोग बीमारी  
 व्याधिघात किरवारवृत्त  
 व्याधित रोगी बीमार  
 व्यान वायु सवदेहमेंचलनेवाली  
 व्यापाद परायणवैरविचारना  
 व्याप्य कूट [ वावा  
 व्याम तिरछेफैलायेभजाहाथोंकाबीच  
 व्याल साप शठ दुष्टहाथी सिंह धाघ  
 व्यालश्राहिन सापपकडनेवाला  
 व्यालायुध वाघनखनामसुगंधद्रव्य  
 व्यावृत्त बरखकरना बुलावना  
 व्यास विस्तार एकऋषि जिन्होंने १ =  
 पुराणऔरमहाभारतकी  
 व्याहार वाणी वात  
 व्युत्थान तिरस्कार मनमेंआवैसोकरना  
 व्युष्ट प्रातःकाल सवेरा  
 व्युष्टि फल संपत्ति साधनेवाली  
 व्यूढ मिलाहुवा धरदेना मोटाहोना  
 व्यूढककट कवचपहिरे बखतरधारी  
 व्यूति सूतपिनना  
 व्यूह समूह भुड सेनाकायथार्थस्थापना  
 व्यूहपाण्डि सेनाकापिछाड़ी  
 व्योकार लोहार  
 व्योमहेश महादेवजी  
 व्योमन् आकाश  
 व्योमयान विमान आकाशकीमयागी

व्योप सोंठिमिर्चपीपरि  
 वृज समूह गोशाला रास्ता  
 वृज्या धर्मना यात्राकरना  
 वृण घाव  
 वृणकार्य भिलाँवा  
 वृत उपवास वृतकरना  
 वृतति लता बेलि  
 वृतिन, वृतकरनेवाला यज्ञकावतावनेवाला  
 वृश्चन, वसुला वसुली काटनेकाहथियार  
 व्रात समूह भुड  
 व्रात्य सस्कारशून्य जिसकीअवस्था  
 अधिकहो जनेऊनहींहुवा  
 व्रीडो लज्जा शर्म  
 व्रीहि धान सवधान्य जेठुवासावा  
 व्रीहिभेद सावों  
 व्रीहेय सावाँकाखेत

( श )

शव इद्रकावज  
 शवर हिरनकीजाति दंत्य  
 शकट गाड़ी लडिया  
 शकल दुकडा  
 शकुलिन मधरी  
 शकुन } पक्षी चिडिया  
 शकुनि }  
 शकुत पक्षी भासपक्षी गावकामुर्गा  
 शकुति चिडिया  
 शकुल माँगमछली  
 शकुलान्तका सपेटद्व  
 शकुलाढनी कुटनी जलपीपरि  
 शकुलार्थ मछलीभेद



शकृत् विष्ठा -  
 शकृत्करि चङ्गवा  
 शक्त प्यारीवातकहनेवाला समर्थ  
 शक्ति गुराजावोंकीशक्तिप्रभावउत्साह  
 भंत्रसे पराक्रम सामर्थ्य बरझी  
 शक्तिधर स्वाभिकार्तिक  
 शक्तिहेतिक बरझीबांधनेवाला  
 शक्त : प्यारीवातकहनेवाला  
 शक्र इंद्र कुरैया  
 शक्रधनुस् इंद्रकाधनुष  
 शक्रपादप - देवदारु  
 शक्रपुष्पिका अग्निशिक्षाशागभेद  
 शकृ प्यारीवातकहनेवाला  
 शंकर श्रीमहादेवजी  
 शंकु जलजीवशफुनाम कटेवृत्तकावृत्त  
 मोटीडार बाणकाआगेकाभाग  
 शंस निधिभेद शंस नखसुगंधिद्रच्य  
 माथेकीहड्डी  
 शंसनक } छांटे=शंस शंसिनी  
 शंसनस }  
 शंसिनी शंसौली -  
 शंची इंद्राणी  
 शचीपति इंद्र  
 शदी कचूर  
 शठ जिसकाअंतःकरणकपटीहो  
 शणपणी शागभेद  
 शणपुष्पिका धनियारी  
 शणमूत्र ननकेसूतफाजाल  
 शंड कमलवाडेर महेलनेजोजा  
 शद, नामर्त वादशाहीजोजा सांड बेल

शत - सौ. - [ जोअन्नाफिरै. ]  
 शतकोटि वृज इंद्रकाआयुष सौकरोड  
 शतद्रु सतलजनदी  
 शतपत्र कमल  
 शतपत्रक कठफोरवापत्ती  
 शतपदी कंसरैयाकिरवा  
 शतपर्णिका दूब  
 शतपर्बन् वांस  
 शतपर्बिका दूब वच  
 शतपुष्पा सौंक  
 शतपास कनैरकापेंड  
 शतभीरु बेला  
 शतमन्यु इंद्र जिन्होनेसौपत्तकिपेहें  
 शतमान सौकेममाण  
 शतमूली शतावरि  
 शतयाष्टिका सौलरकीमाला  
 शतवीर्या सपेददूब  
 शतवेधिन अमिलवेंत  
 शतहृदा विजुलीकीचमक  
 शतांग संग्रामकोतयाररथ  
 शतावरी, शतावरि. [ मिलाराजादूसरा.  
 शत्रु वीर दुश्मन आरदेशकेराजासे-  
 शनधर ग्रह सूर्यकेपुत्र  
 शनैस् धीरा= सदारसे आश्रय  
 शपय । कसम जैसेदमशपथरुतेहेंकिटैर  
 शपन । द्रोहीनाशहोने  
 शफ मुम गुर  
 शफरी सदरी मद्यरी  
 शरग म्नेन्दजाति चांडालभेद  
 शररान्य भिद्धरचांडालोंनिगांव

शबल विचित्ररंग चुनरीआदि कवरारंग  
 शबला } विचित्ररंगकीगौ कवरीगाय  
 शबला }  
 शब्द विषय कानका व्याकरणादिमे-  
 जोवाचक आवाज जैसे विनेसूतका  
 वाचकवस्त्र  
 शब्दग्रह कान जिनसे शब्द जाना जाता है  
 शब्दन शब्द करने का स्वभाव  
 शम चित्तकी शांति हांथ  
 शमथ शांति शांत होना  
 शमन यमराज यज्ञपशुके मारने मे  
 शमनस्वस्त्र यमुनाजी यमकी बहिनी  
 शमल विष्ट  
 शमित शांतिको प्राप्त शांत  
 शमी उर्दुआदिकी छियां छीशुरिकापेंड  
 शमीधान्य उर्दुमूंगआदि जिनमें छियां-  
 शमीर छोटी छीशुरि. [ होती हैं. ]  
 शंषा विजुलीकी चपक  
 शपाक किरवारवृत्त  
 शंष वस्त्र  
 शंषर पानी हिरनकी जाति  
 शवरारि मयूझ जिन्होंने शंषर देत्यमारा  
 शवरी मुमकन औपधि  
 शवल रंगभेद विचित्ररंग  
 शशाकृत दुसारासे तनोतना दूमरा राह  
 शशुक } पानीकी सीपी सूती  
 शशुक }  
 शभली रुटिनी जो पराई आरत दूमेरे-  
 पुरुषको मिलाने  
 शभु श्रीमहादेव प्रथा  
 शम्या जुवांकी नील शवल

शम्याक किरवारवृत्त  
 शय हाथ  
 शयन सोरहना शय्या  
 शयनीय शय्या सोरहनेका स्थान  
 शयालु नीदलगना बहुत सोनेवाला  
 शयित सो गया  
 शयु अजगरसांप  
 शय्या सोरहनेका स्थान बिछौना विद्या  
 शर शरपत मुंजसर बाण तीर  
 शरजन्मन् स्वामिकार्तिक  
 शरण घर रक्षा करना मारनेसे बचाना  
 शरणि रास्ता राह  
 शरद् अंतु वर्ष  
 शरभ मृगभेद  
 शरव्य निशाना  
 शराटि }  
 शराटि } आदिपत्ती जलमुर्गा  
 शरात्ति }  
 शराभ्यास बाणफेंकनेका अभ्यास  
 शरारि आदिपत्ती जलमुर्गा  
 शरारु हिंसा करनेवाला जीव हत्यारा  
 शरालि }  
 शराली } आदिपत्ती जलमुर्गा  
 शराव सेरपापट्टे  
 शरावती नदी  
 शरासन धनुष बमान  
 शरीर देह अंग  
 शरीरान्य देहकी हट्टी दाढ़का पिजग  
 शरीरिन माखी देहपारी  
 शर्वंग जिमदेशमें शालवृत्त हो भूददेश  
 शवर्ग गिटवी रंगभेद दुकड़ा

शर्करावत् । सुहृद्देश बालू अधिकरोवा  
 शर्करिल । निसदेशमें  
 शर्मन सुख आनंद  
 शर्व महादेवजी  
 शर्वरी शक्ति  
 शर्वाणी श्रीपार्वतीजी  
 शल स्याहीकेरोवां स्याहीकांड  
 शलभ पतंग जोदियामेजुलताहै  
 शलल स्याहीकेरोवां स्याहीकांड  
 शलली  
 शलाडु कच्चाफल  
 शल्क टुकड़ा बकला खाल  
 शल्य मैनफलकीवृत्त जंगलीजीव  
 स्याही बाणकांअगाडी  
 शलकी शालय  
 शव मुर्दा विनाजीवकीदेह  
 शश मृगभेदनाम  
 शशधर लखनद्रमांजिसमेमृगचिन्हहै  
 शशलोमन शशकेरोवां  
 शशादन शशाजपुत्री शिकरा  
 शशोर्ण शशकेरोवां प्रणामे मंगले  
 शश्वत् निरंतर बारंबार सहाय्य अपनी  
 शण्य कोमलतृण  
 शसन शङ्खशुकुमारनेमै  
 शस्त कल्याण शुभ नमस्कारार्थ  
 शस्त्र आयुध लोह हथियार  
 शस्त्रक लोही [करनेवाला  
 शस्त्रमार्ज शकलीगर हथियारसाफ  
 शस्त्राजीव हथियारसेजीविकाकरनेवाला  
 सिपाहीसवारआदि  
 शस्त्री कटारी

शस्य वृत्तादिकाफल  
 शस्यसंवर, शांखोकापेंड [लांकीआदि  
 शाक पत्ताफलखानेकेयस्य वधुईपत्र  
 शाकट गाडीकेवैल  
 शाकशाकट  
 शाकशाकिन शाककेखेत  
 शाकुनिक चिडीमार  
 शाक्तीकु  
 शाक्यमुनि बौद्धभेद  
 शाक्यसिंह  
 शाखा डार कनेया [तहसील  
 शाखानगर बिनराजाकादेश परगना  
 शाखाभृग वानर [वृत्तम  
 शाखाशिका, डारके निकलनेकी जगह  
 शाखिन वृत्त पेंड [बुनानेवाला  
 शांखिक कांसार शंखकीचुडीआदि  
 शाटक वृत्तभेद साडी  
 शाटी  
 शाठ्य शठता बेवकूफी  
 शाइवल जूहपरहरीश्यांसहो  
 शाण कंसोटीसोनाआदिपरखनेकी  
 शाणी शनकावख पाखरीयाट  
 शांडिल्य बेलवृत्त  
 शात दुवस सुख आनंद निर्वल शान्त  
 चढ़ायापैनाया  
 शातकुंभ  
 शातकभि सुवर्ण सोनाघातु  
 शातला धूहर  
 शात्रव वैरी दुश्मन  
 शाद चहला कीचड़ झाडीरघास  
 शादहरित जहांहरीश्यांसहो  
 शाइल

शांत	शांतहोना	शांती	शांति	शांतलीवेष्ट	स्वैवरकागोंद मोचरस
शांति	चिचकोशांतहोना	शाप	गाली शराप	शावक	वालक विचारा
शावर	लोध्रवृत्त	शावरी	इंद्रजाल शंवरदैत्यकीमाया	शावर	लोध्रवृत्त
शार	कवरारंग हवा	शारंग	पपीहा चोतक कवररहना	शाश्वत	नित्य हमेशः
शारद	छतवती नया थोडीचतुरई	शारद	वर्ष जलपीपरि	शाष्कलक	मखलीमांसखानेवाला
शारदी	जलपीपरि छतवती	शारदी	जलपीपरि छतवती	शाष्कुलिक	बहुतीपूरी
शारिफल	कोठेदारसाडी	शारिवा	कारीसांड गौरीसांड	शासन	आज्ञा हुकम
शारिकर	भुइदेश	शारि	विष्णुकाधनुष	शास्त्र	बौद्ध
शारि	विष्णु	शारि	वांघ उत्तरपदमेश्रेष्ठार्थ	शास्त्र	आज्ञा न्याकरेणोदिकेग्रंथ
शारि	हिंसाकरनेवाला हाथी	शारि	राति	शास्त्रविद्	शास्त्रपढ़नेवाला शास्त्री
शाल	चक्रांकितमछरी वृत्त राजा	शाल	शहरपनाह शहरकेचारीओरवास-	शिशपा	शिसवावृत्त
शालपर्णी	शरिवन. [ यमकीबैटि. ]	शाला	सभा मोटीदार	शिक्य	शिकहर छीके
शाला	शरिवन. [ यमकीबैटि. ]	शाला	सभा मोटीदार	शिक्यत	शिकहरमेपरीवस्तु
शालाशुक	धानर सियार फुकुर	शालाशुक	धानर सियार फुकुर	शिक्षा	वेदकाअंग
शालि	व्याडधानकी धान	शालि	व्याडधानकी धान	शिक्षित	प्रवीण चतुर
शालीन	शर्मदार भलामानुम	शालीन	शर्मदार भलामानुम	शिक्षंड	मोरकीपूँछ मोरपुच्छ
शालुक	घरालाकोकापेलिकीजर	शालुक	घरालाकोकापेलिकीजर	शिक्षंडक	पालकोकिभंडोलेवालकीचूडा
शालूर	मेढुक मेंभुका	शालूर	मेढुक मेंभुका	शिक्षर	पर्वतकाकंगूरातुला वृत्तकाशिरा
शालेय	वनसीफ चडीसीफ धानकापेत	शालेय	वनसीफ चडीसीफ धानकापेत	शिक्षरिन	पर्वत वृत्त. [ भोटई किरण.
शाल्मल	स्वैवरकापेंड इमकीआयु	शाल्मल	स्वैवरकापेंड इमकीआयु	शिक्षा	आगिकीलपट मोरकीचोटी.
शाल्मलि	६००००वर्षकी ई	शाल्मलि	६००००वर्षकी ई	शिक्षांडक	धानकोकीचोटी
				शिक्षावन्	अग्नि
				शिक्षावल	मोर मुरइला पुन्दार
				शिक्षिग्रीव	अंजन आम्बकेगोपपर
				शिक्षिन्	मोर अग्नि. [ मोर वाहन.
				शिक्षिवाहन	स्यामिकातिक जिनका-
				शिक्षु	बगुईधादिनाग महिजनकापेंड
				शिक्षुज	महिजनकोबीज मपेदपिच
				शिक्षिन	गहनाकीआवाज
				शिक्षिनी	धनुषकीमल्लेचा कामानकाडोग

शितशुक जब म... शित  
 शिति कालारंग सपेद. [गलाकालाहै  
 शितिकंठ महदेव जिनका विषपीनेसे  
 शितिसारक तैदूका वृत्त...  
 शिषविष्ट रोगसे जिसके शिरमें बालनहो  
 शिषिविष्ट सफानहुवा जमडा श्रीमहेश्वर  
 शिफा वृत्तादिकोजर  
 शिफाकद कमलकोजर  
 शिविका पालकीपीनसडाली  
 शिविर सनाकास्थान फानका मुकाम  
 शिवा उद्रेआदिकी द्विपा गगदी  
 शिरस मस्तक मूह. [घावनहो.  
 शिरस्त्र टोप जिससे सत्रामेशिरपर  
 शिरस्प साफवाल. [जानलेते हैं.  
 शिरा नाडी जिसके देखनेसे वैद्यरोग  
 शिरीष शिरसे सीसम.  
 शिरोग्र वृत्तकी दुनुग दुभा  
 शिरोग्रह धरकाशिरा  
 शिरोधि गला धीन  
 शिरोरत्र चूडामणि शिरकी मणि  
 शिरोरुह बाल जो शिरमे जगते हैं  
 शिरोस्थि करोटि शिरकी हड्डी खोपरी  
 शिल खेतमें गिरा अन्न शिला  
 शिला देहलीके तरेका काठ देहलीका  
 दासा पत्थर  
 शिलानतु शिलाजीत. [काकाठ.  
 शिली छोटेके केंचुवा देहलीके नीचे  
 शिलीमुख भौरा पाण  
 शिलोचय, पर्वत पत्थरोंका समूह. [काकर्म.  
 शिल्प गानानाचनाआदि चढ़ईआदि  
 शिल्पशाला कारीगरोंका मकान

शिल्पिन... चित्तों। तसबीर आदि चनाने-  
 वाला बढईकोरी नाऊ पोबीचमार  
 शिल्पशाला सोनार आदिकारीगरो  
 कास्थान  
 शिव श्रीमहादेव। कल्प्याण मंगल  
 शिवक... खंडा गौआदियां प्रनेका  
 शिवमल्ली... शूमा रुई मदार  
 शिवाला श्रीपार्वती छीकुरिकापेंड। हरर  
 पृथ्वीका आवलासियार। सियारी  
 अंबरा... निहुईखाल श्रीमहेश्वर  
 शिविविष्ट शिरमें रोगसे बालनहो सफा-  
 शिवी श्रीपार्वती  
 शिशिर ऋतु जाड़ा  
 शिशुक बालके बची  
 शिशुक शिशुमारके समान मछलीमेद  
 शिशुत्व बालापने लंडकाई  
 शिशुमार मिलजनीन चक्र विष्णु  
 शिश्र लिंग पुरुषका चिन्ह  
 शिशिवदान पुण्यात्मा पुण्यकरनेवाला  
 शिष्टि आज्ञादेना हुक्म  
 शिष्य चला सागिद  
 शिकर पानीकी छिटकी छिट्टी  
 शीघ्र तुर्त जलदी  
 शीत जाड़ा ठंडा घेत लसोहरकापेंड  
 शीतक, आलसी तौदपर हांफकरनेवाला  
 शीतभीरु बेला नेयारि  
 शीतल ठंडा रागभेद. [नोन  
 शीतशिव चढ़ीसांफ शिलाजीत संधी  
 शीता हलकीलकीर पेंड  
 शीत्य जांतालेत

शीघ्रः - ऊँखशांगश्चादिसेवतीमदिरातोषी  
 शीफालिका - सपेदस्यैवाङ्गी  
 शीरानेहलाभ्यमाणाः - कलाभ्योषी  
 शीर्ष - शिर मूँह  
 शीर्षक - संग्रामकाटोपहारणी  
 शीर्षच्छेद्यमारनेलायके मूँहकाटनेयोरर्थ  
 शीर्षराय साफवाल संग्रामकाटोपार्षी  
 शील - सुंदरचाले अच्छास्त्रभावाहाती  
 शुक्ल - शुद्ध शोच  
 शुक्र - कुकरोँधा व्यासकेपुत्र शुवा रावण  
 कामंत्रीशिरसैकापेडपी  
 शुक्रनास श्योनापाहा  
 शुक्रवर्ध - कुकरोँधा [कडा  
 शुक्र चूक तीनरातिकासिरका कठोर-  
 शुक्ति - सीपी नखनामगंधद्रव्य  
 शुक्र अग्नि आग्नेयदिशाकेग्रह शुक्रग्रह  
 ज्येठमहीना पुरुषकावीर्य  
 शुक्ल वृषण अंडकोश पोता  
 शुक्रशिष्य अश्वसुर दैत्य  
 शुक पक्ष सपेद  
 शुच - शुद्ध शोक  
 शुचि अग्नि आपादमहीना सपेदः मूँह  
 शूँठि } सौँठि  
 शूँठी }  
 शूँडापान मदिराकाचर  
 शूनुद्रि नदीभेद शतलज  
 शूद्रांत रानियोंकेमाकान अंतःपुर  
 मूतकसेशूद्रहोना  
 शुनक - कुकुर कुत्ता  
 शुनाशीर - इंद्र  
 शुनासीर - इंद्र

शुनी कुतिया कूकुरि  
 शून्य - खाली छँडा  
 शुभनी कल्याणमंगल-बोकरा कुशलनी  
 शुभंयु शुभयुक्त मंगलसहित  
 शुभदृती - दिग्गजकीपत्नी  
 शुभान्वित - मंगलसहित कुशलमय  
 शुभ्र सपेद अश्रक प्रकाशमान  
 शुभ्रदंती - दिग्गजकीपत्नी  
 शुभ्रांशु चन्द्रमा जिसकोसपेदकिरणह  
 शुक्क - राजाकामहमूलआदिस्त्रीकाधन  
 स्त्रीकामोल  
 शुक्ल - तांब्रा जौरी रस्सी यज्ञकेकर्म  
 आचरण जलकासमीप  
 शुक्ला } रस्सी, जौरी  
 शुक्वी }  
 शुधूपा उपासना शुक्रकीसेवा  
 शुषि छेद विल  
 शुषिर बाँपुरीशेंखआदि छेद विल  
 शुष्कमांस शुखमाम  
 शुष्म - पराक्रम  
 शुष्मन् - अग्नि  
 शूक - जवकामुनोयमशीकुर  
 शूककीट लयाहरी जनकोशेडा  
 शूकधान्य जव गोहृआदि  
 शूकर सुअर  
 शूकशिवा } केवांच  
 शूकशिबि }  
 शूद्र - श्वरणी शूद्र  
 शूद्रा } शूद्रकीस्त्री  
 शूद्री }  
 शून्य - खाली छँडा

शब्दार्थप्रकाश

शून्यवादिन् नास्तिक जैनिमती ।  
 शूर शूरसूयोधीरुवहादुर ।  
 शूरण जिमीकंदग्राह ।  
 शूर्प सूय धानपद्योरनेका ।  
 शूल रोग हथियार मृत्यु ।  
 शूलाकृत लोहकीकालिसंपकायामिसं ।  
 शूलिन, महादेव जिनकीत्रिशूलआमुधहै ।  
 शून्य लोहकीकालिसंपकायामिसं ।  
 शृगाल सियोर ।  
 शृंखल पुरुषकीकर्मकागहनीं करमतां ।  
 शृंखलक जिसजटकपरमकाठवधाहा ।  
 शृंग पहाडकेकंगरी जिवकीऔपया ।  
 शृंगिचिन्ह फाहिरि ।  
 शृंगवेर अंदरखो ।  
 शृंगाटक चौरहा चौहडा ।  
 शृंगार ऊँरसभेदकनजा ।  
 शृंगिलीपतगौ ।  
 शृंगी लजदीश्वर शिवनाबैल मद्गुरम-  
 च्चकीखी अतीसभ्यपभौषधि ।  
 शृंगीकनकु सोनेकागहेना ।  
 शृण्णि आंगुश ।  
 शृत पकादूधआदि ।  
 शेखर शिखामेपहेमाला ।  
 शेषम् ।  
 शेषम् ।  
 शेफालिका ।  
 शेमुपी ।  
 शेलु ।  
 शेवधि ।

शेषाल शेवासि ।  
 शेष शेषनाग जिनकेहजारफनहै वाकी ।  
 शैल मथमविधापिढेनालेवालकेनी ।  
 शैखरिक लटजीरा ।  
 शैल पर्वत पहासि ।  
 शैलालिन ।  
 शैलूप नट बेलकापेड ।  
 शैलेय शिलाजीत ।  
 शैवंल ।  
 शैवलिनी नदी जिसमे शैवारहो ।  
 शैव्यनाकुण्णकीघोडा ।  
 शैवाल शैवासांगी ।  
 शैव ] वालापनलडेके ।  
 शोक शोच मोह ।  
 शोचिष्केश अघिनार्जुन ।  
 शोचिष्केश प्रभा ।  
 शोणना ।  
 शोणभद्रनदना ।  
 शोणक सोनाप्रांहाऔपधि ।  
 शोणरवे ।  
 शोणाकरं ।  
 शोणिते ।  
 शोय ।  
 शोधनी ।  
 शोधनी ।  
 शोधित ।  
 शोनक ।  
 शोफ ।  
 शोभन ।  
 शोभा ।

शोष यक्ष्मारोग क्षयीरोग  
 शौक तोतोंका झुंड बहुतशुवा  
 शौकिकेयान्स्यावरविप  
 शौक्य सपेदी  
 शौह मतवाला प्रसिद्ध  
 शौहिक मदिराबेचनेवाला कुलार  
 शौही पीपरि  
 शौहौदनि बुद्धभेद  
 शौरि, विष्णु शनैश्चग्रहःशूरसेनकावंश  
 शौर्य पराक्रम ऐश्वर्य  
 शौल्विक तांवाकाकामबनानेवाला  
 शौष्कुल, मञ्जलीभांसखानेवाला शूखा  
 श्च्योत धीआदिकावहना [मांस]  
 श्मशान मरघटा प्रेतभूमि  
 श्मशु दाढ़ीकेवाल  
 श्याम कालारंग हरा भेध प्रयागका  
 श्चयवट पिक मिर्च सेंधौनमक  
 श्यामक वृणवधान्यभेद  
 श्यामल काला सांबला  
 श्यामा कालाविधारा सपेदनिशोय  
 कालीसांड गोरीसांड सांबलीस्त्री  
 सोरहवर्षकीस्त्री जिसकेपुत्रादिनहुवा  
 हो मीठीर धातैबोलनेवाली  
 श्यामाक वृणवधान्यभेद  
 श्याल शांखोकापेंड साला स्त्रीकामार्ह  
 श्या धूसरलालारंग  
 श्येत सपेद  
 श्येन शिकरा बाज  
 श्येनपाता शिकार  
 श्योनाक सोनापाड़ाशौपधि

श्रद्धा तंत्रांक्षा कांक्षा [श्रद्धायुत  
 श्रद्धालु गर्भकेकारणस्त्रीकीविशेषरुचि  
 श्रयण सेवा आशरा  
 श्रवण कान  
 श्रवण [श्रवण  
 श्रवण धनिष्ठानचक्र  
 श्राणा पतलाभात गोलापी  
 श्राद्ध शास्त्रोक्तपितृकर्म  
 श्राद्धदेव यमराज श्राद्धकेदेवता  
 श्रावण सेवा आशरा  
 श्रावण सावेनुमहीनी  
 श्रावणिक  
 श्राव्य सुननेयोग्यसुंदरवाक्य  
 श्री लक्ष्मीजी संपत्ति शोभा मून  
 श्रीकण्ठ महादेवजी जिनका अंगगौर  
 श्यामकण्ठसेशोभितहै  
 श्रीघन बुद्ध  
 श्रीद कुबेर जोघनकेमालिकहै  
 श्रीपति विष्णु जोलक्ष्मीकेपतिहै  
 श्रीपर्ण, अगेयुवृत्त जैतिवृत्त नरबेल कर्मल  
 श्रीपर्णिका कार्यफल कैफरा  
 श्रीपर्णी खंभारी [कागोद  
 श्रीपिष्ट घूपसर विशेषघूप किसीवृष्ट  
 श्रीफल धेलकावृत्त  
 श्रीफली नील लीला  
 श्रीमत् लक्ष्मीवान् घनवान्  
 श्रीमान् तिलकवृत्त मनोहर धनी  
 श्रील लक्ष्मीवान् धनी  
 श्रीवत्स विष्णुकेहृदयमेविन्द  
 श्रीवत्सलार्चन विष्णु



श्रीवासः धूपसर किसीवृत्तकागोद  
 श्रीवेष्टः लौग. [समानपत्ता.  
 श्रीहस्तिनी- सुईया हांथीकेकानके  
 भुत शास्त्र धारणकरना सुनना  
 भुति काल-वेद वात सुननेमे  
 भ्रेणि पांति एकक्रमसे  
 भ्रेणी, पांति कमर एकजातिकाइकठाइनेना  
 श्रेयस् सुकृत धर्म मोक्ष अतिसुन्दर  
 श्रेयसी हर पाठाऔपधिगजपीपरि  
 भ्रेष्ठ अतिसुन्दर  
 भ्रोग पँगुवा जिसकीजांघैअच्छीनहो  
 भ्रोगि, कमर करिहांव. [कास्थान कमर  
 भ्रोगिफलक कमरमेंधोतीआदिपहिरने  
 भ्रोतस्, सोता जहांआपहीआपपानीबदे  
 भ्रोज कान  
 भ्रोजिय वेदपाठी  
 भ्रौषट् देवताकोहव्यदेनेमें  
 भ्रूक्ष्य योडा सुन्दर  
 भ्रूषा सरहना प्रेमसेभूंडीबात  
 भ्रूपद हांथीपांवरोग  
 भ्रूल लक्ष्मीवृान् घनी  
 भ्रूषा मिलाए, संधि  
 भ्रूष्ण कफरोगी  
 भ्रूष्ण कफ  
 भ्रूष्णल कफी  
 भ्रूष्णातक लसोहरकापेड  
 भ्रोक पद्यअनुष्टुप्आदि यशकीर्ति  
 भ्रःश्रेयस् आवनेनाजा शुभ कन्याए  
 भ्रदंष्ट्रा गुग्गुलु

श्वन् कुत्ता कुकुर  
 श्वनिश दिनरात शब्दभेद  
 श्वपच चाण्डाल निपाद  
 श्वपाक गडहा खंधक छेद-दराज  
 श्वभ्र गडहा खंधक छेद-दराज  
 श्वयथू सृजनि फूलना  
 श्ववृत्ति कुत्तेकीसीजीविका नीचसेवा  
 श्वशुर ससुर-स्त्रीकापिता  
 श्वशुरी सासुससुर, स्त्रीकेमातापिता  
 श्वगुर्य समुरकापुत्रादि स्त्रीकेदेवरादि  
 पुरुषकेसालाआदि  
 श्वशू सासु स्त्रीकीमाता  
 श्वशूरश्वशुरी सासुससुर  
 श्वस आवनेवालादिन कान्हि  
 श्वसन वायु हवा मनफलकावृत्त  
 श्वस्त भूजाभांस  
 श्वविध, स्याही जिसकीदेहेमेकादेहोतेह  
 श्वित्र सपेददागकाकुपूरोग  
 श्वेत सपेद चांदी दीप पर्वत  
 श्वेतगरुत् हंस मानसरोवरकेवासी  
 श्वेतच्छद साहिजनकेबीज  
 श्वेतमरिच साहिजनकेबीज  
 श्वेतरक्त सपेदलालमिलारंग  
 श्वेतमुरसा सपेदम्योडी

( प )

पट्टकर्मन् ब्राह्मण जोयजनादिछाकर्म-  
 पटपद मंत्रा. [करताहो.]  
 पटभिश् बुद्ध  
 पटानन स्वाभिकार्तिक जिनकेछामुसह  
 पटग्रंथ कनकेभेद

पद्ग्रंथा वच  
 पद्ग्रथिका शंकचूर आवाहरदी  
 पद्म शब्दभेद मोरकी आवाज  
 पण्ड कमलाकांडर अतःपुरचारीखोजा  
 साइ अन्नविल  
 पद्म नपुंसक नामदे वैदिशाहीखोजा  
 पाण्डिक, ईरतकेपीकेनेवाल्लो अन्न धानादि  
 पाण्डिक्य, धानआदिकाखेतवेषरनेकास्थान  
 पाण्ड्यातुर स्त्रोभिकार्तिकजिनके  
 कृत्तिकोमतिहुई  
 संपाक किरवारकोवृत्त  
 संभली कठिना जापरायखिदूसरेको  
 सयत संग्राम लडाई मिलाव  
 सयत रस्सीआदिसंरथा कदी  
 सयम योगकीअंगनिसम  
 सयाम  
 संयुग संग्राम लडाई  
 सयोगित संयुतहुवा मिला  
 सयोजित संयुतहुवा मिला  
 सराव शब्द आवाज  
 संलाप परस्परकीवाते  
 सवत वर्ष साल  
 सवत्सर वर्ष साल  
 सवदन वशकरलेनामशिमंत्रादिसे  
 सवनन वशीकरण  
 संपर श्रेय जातिभेद  
 संपती मलय केल्पात  
 सवतिका कमलादिकेनेपेपता  
 सैषसथ गावे मौजा  
 सवाहन देहमलना धांपना

संविद बुद्धि अगीकार सुदरवांलना  
 ज्ञान समय नाम प्रसन्नकरना संग्राम  
 कर्मकोनियम संकेत धांचार प्रतिभा  
 संविदित जानलेना अगीकारकरेना  
 सवीत लपेटाहुआ जेसनदीसेग्रामी  
 सवेग खुसीआदिसेकोमपेशीग्रतो  
 संवेद अनुभव आपहीआपशेन  
 सवेश्मनिद्रा सोरहेना  
 सव्वान लुगरो फेरियो रूपटा  
 सशक्त जोवीरकशमखायकेरसंग्राम  
 संशय हासदेह ] हांसपीत  
 संशयापन्नेमानसंगनिसकोसदेहहोजेय  
 संश्रवणाधार्मिकारना  
 संश्रुत अगीकारकरना  
 सश्लेष लपटाना लिपटजाना  
 ससक्त मिलाहुआ  
 ससद सभा समाज  
 संसरण सइकादंशधनुषभरवां दीमहा  
 सेसेनाउत्तमकारसेनिकरजाप्रशि  
 संसिद्ध प्रकृतिस्वभाव  
 सस्कार, किसीमेकुछमिलावनायेशोपनीत  
 जन्मसेप्रेतकर्मपर्यंत  
 संस्कारहीन जिसकासस्कारनहो  
 संस्कृत, वनायेघटादि शास्त्रकेलक्षणेयुत  
 संस्तर पत्थर  
 सस्तव पहिचान मुलाकात  
 संस्तोय यज्ञमेवदपाठियोंकीस्तुति  
 सस्त्याय समूह स्थानमेद विस्तार

संस्था ] मयादा सीमा  
 संस्थाने, अंगभेदस्थान रूप मरना औरहा  
 संस्थित ] मरतीया  
 संस्पर्श ] चक्रवत् औपधि  
 संस्फोट } संग्राम लड़ाई  
 संस्फोट }  
 संहृत ] पुष्टसंधानयुत  
 संहृतजानुक ] जिसकीगांठीमिलीही  
 संहृतल ] मिलेदोनीफैलहाथ  
 संहृति ] समूह झुंड  
 संहनन ] देह अंग  
 संहृति ] बहुतमनुष्याकाबुलावना  
 सकल ] पूर्ण संपूर्ण सब  
 सकृत् ] साथ एकवार  
 सकृत्प्रज ] कोवा  
 सकृत्फली }  
 सकृत्फली } बीकुरि  
 सक्थि ] योदीजाय  
 सखि ] मित्र सखा स्नेही साथी  
 सखी ] साथिनि स्त्रियोंकीमित्र  
 सख्य ] मैत्री मित्रता  
 सगर्भ ] एकपेटकेभाई  
 सगोत्र ] एकगोत्रके कुटुंबी  
 सगिय ] साथभाजनकरना एकप्रातिमेक  
 सङ्ग ] योहीमार्ग कोलिया  
 सङ्ग ] कर्कट कूड़ा  
 सङ्गपण ] बलदेवजी  
 सङ्गलित ] जोदेहुपेथरुआदि  
 सङ्गन्य ] मनकाकर्म  
 सङ्गमुक्त ] चंचलमरुति चलनेकास्वभाव

सङ्कार ] कर्कट कूड़ा  
 सङ्काश ] उपमा बराबर  
 सङ्कीर्ण ] धारवर्णसङ्करजाति मनुष्यादिको  
 -द्विक्रमोहोना सङ्कट व्याप्त  
 संकुल ] पूर्वसेविरुद्धसरीवात जैसेविन  
 -निश्चायदेवै मनुष्यादिकोबहुतईकहा  
 संक्षोच ] लालचन्दन संचुक [होना]  
 संकंदन ] इंद्र  
 संक्रम ] कठिनरास्ता किलेकीराह  
 संक्षेपण ] गीन्धाविस्तार सूक्ष्म साकिरा  
 संख्य ] संग्राम लड़ाई  
 संख्या ] प्रमाणोंसिंपरीक्षाकरना एकादि  
 संख्यात ] गिन्तीकिया  
 संख्यावत् ] अपण्डित संख्याकरनेवाला  
 संख्येय ] गिन्तीकरनेमें जैसे२१ वख्त  
 सङ्गा ] मेल मिलान  
 सङ्गत ] सुन्दरचातएकतार  
 सङ्गम ] मेल मिलान संयोग  
 सङ्गर ] संग्राम लड़ाई  
 संगीर्ण ] अंगीकारकिया  
 संग्रह ] संग्रहकियेग्रंथ इकट्ठाकरना  
 संग्राम ] लड़ाई  
 संग्राह ] डालपकड़नेकीमूठ मूठसेमनवृत्  
 संघ ] प्राणियोंकामसूह  
 संघात ] नरकभेद समूह  
 सखि ] मैत्री महायुक्त सलाही  
 सखी ] इन्द्राणी  
 सज्जवाल ] जरापइलाहीनपहो

सज्ज, कवचादिपहिरसंग्रामको तैयारहोना	सत्यवतीसुत व्यास. ॥ [ करना.
सज्जन साधु कुलीन पहरा गस्त	सत्याकृति - इसकामको हमकरेंगे सही-
सेनारक्षक. [ तैयारकरना.	सत्यावृत, भूठसांचकारोजिगार बनियई
सज्जना कामदारोंकेचढनेकोहांथी-	सत्यापन } सहीकरना सचाईकरना
संचय समूह इकट्ठा	सत्यापना }
संचारिका दूती सदेशपहुंचानेवाली	सत्र यज्ञ बध्न. [ करताहै.
सजमन चारोंतरफआमनेसामनेदालानै	सत्रा साथ जैसेस्त्रीकेसाधमुखभोग-
दुरुस्तचौक	सत्रिन्, गृहपति जोहमेशःअन्नादिदानकरै
संज्वर अग्निकीआंचवर्गी	सस्वर शीघ्र जल्दी
सङ्ग जिसकेपैरकीगांठिणकमेमिलतीहो	सद्भ्याज्य दहीमिलायी
संज्ञपन मारना प्रसन्नकरना जनावना	सदन घर माकान -
संज्ञा चेतना नाम हांथआदिसेसंज्ञा	सदस् सभा बैठक
गायत्री सूर्यकीस्त्री	सदस्य यज्ञकेदेखनेवालेवेदपाठी
संज्ञु पैरकीगांठीलगनेवाला	सदा सर्वदा रावकाल
सटा ब्रह्मचारीआदिकीजटा	सदागति वायु जोहमेशःचलती, है
संडीन पक्षियोंकेउड़नेकाभेद. [ साधु	सदातन नित्य सनातन हमेशः
सत्, परिणत अच्छा सुन्दर पूजित योग्य	सटानीरा नदीभेद
सतत नित्य हमेशः	सदानंद ब्रह्मा हमेशःआनंद
सती पतिव्रता पतिकीसेवामेतत्पर	सदरू } समान बराबर
सतीनक मटर मोथी	सदश } समान
सतीर्थ्य गुरुभाई एकगुरुकेचेला	सदत्त } समान
सत्तम अतिसुंदर	सदेश समीप निकट
सत्य सतोगुण द्रव्य चित्त विचार	सन्न घर माकान स्थान
स्वभाव पिशाचादि अपनाभाव	सद्यस् तत्काल तिसीसमय
बल माण जंतु	सधर्मिणी पत्नी स्त्री
सत्यथ सुन्दररास्ता	सध्यञ्च् साथचलैवपूजनकरै
सत्य सच कश्म सत्यता	सनत्कुमार ब्रह्माकेपुत्र
सत्यक ब्रह्माजी. [ जरूरकरेंगे	सनपर्णी गोकर्णीआंपधि
सत्यंकार सहीकरना इसकामको हम	सना नित्य जैसेसनातन
सत्यवचस् ऋषि सत्यबोलनेवाला	सनातन नित्य हमेशः सदा
	सनात्कुमार ब्रह्माकापुत्र

सनाभि सातपुरिखाकेभीतरकेकुटुबी  
 सनि गुरूआदिकेलियेभिन्नामांगना  
 सनिष्टीव } लारवढतेधातकरना वातमे  
 सनिष्टेव } थूंकआना  
 सनीड समीप निकट पास  
 संततं, नित्य हमेशः  
 संतति गोत्र कुल  
 संतप्त संतापित गरमाया  
 संतमस सबतरफअधकार  
 संतान कल्पवृक्ष वश कुल  
 संताप अग्निसेगर्म  
 संतापित संतप्त गरमाया  
 संदान बांधनेकीरस्ती  
 संदानित बांधा बाधा  
 संदाव संग्रामादिसेभागना  
 संदित बांधा बांधा गुहा पिरोहा  
 सदेशवाच दूतआदिकेकहेसंदेश  
 सदेशहर दूत हरकारा  
 संदेह संशयहोना  
 संदोह समूह भुंड  
 संद्राव भागना पलायना  
 संघा प्रतिष्ठा मर्यादा [ एकमेमिलाना.  
 संघान मदिरादिवनानेकीवस्तुवाँको  
 संधि मिलाप मेल मिलावना  
 संधिनी गर्भवती गर्भिणी  
 संघ्या मायंकाल पितरोंकीमाता  
 सन्नकट्टु चार चिरौंजी. [ होना  
 सन्नद्ध, रत्नरआदिपहिरसंग्रामकांतयार  
 सक्षय पीढेकीसेनावासमूह  
 सन्निध समीपता निकटता  
 सन्निरूपण }

सन्निकृष्ट समीप पास निकट  
 सन्निधि समीपता  
 सन्निवेश सुन्दररहनेकास्थान  
 सपत्र शत्रु वैरी  
 सपदि शीघ्र तत्काल  
 सपर्या अन्नादिदेना पूजा  
 सपिंड सातपुरिखाकेभीतरकावंश  
 सपीति साथपीना जलआदि  
 सप्तकी स्त्रियोंकेकमरकागहना कमर  
 पट्टाकंधनीआदि  
 सप्ततंतु यज्ञ राजसूयादि  
 सप्तपर्ण छतवतीवृक्ष  
 सप्तर्षि मरीचि १ अत्रि २ अङ्गिरा ३  
 पुलस्त्य ४ पुलह ५ क्रतु ६ वशिष्ठ ७  
 सप्तला नेवारि धूहर  
 सप्तार्चिस अग्नि काली १ कराली २  
 मनोजवा ३ सुलोहिता ४ सुधूम्रवर्णा ५  
 स्फुलिगिनी ६ विरवदासा ७ अग्नि  
 केजिडाहें  
 सप्तारव सूर्य  
 सप्ति घोडा  
 सप्तर्षचारिन, एकवेदपढ़नेवालेब्रह्मचारी  
 सभर्तृका मोहागिल सौभाग्यवती  
 सभा सभा सभाकास्थान समाज जुवां  
 कास्थान  
 सभाजन थावनेवालेकीजातिरवरना  
 सभासद् } सभाकरनेवाले समाजी  
 सभास्तर }  
 सभिक जुवांगिलावनेवाले  
 सभ्य साधु समाजी सभावाने

सज्ज, कवचादिपहिरसग्रामको तैयारहोना  
 सज्जन साधु कुलीन पहरा गस्त  
 सेनारक्षक. [ तैयारकरना  
 सज्जना कामदारोंकेचढनेकाहाथी  
 सचय समूह इकट्ठा  
 सचारिका दूती सदेशपहुचानेवाली  
 सज्जन चारोंतरफआमनसामनेदालानै  
 दुरुस्तचौक  
 सज्वर अधिकीआचवर्गी  
 सज्ज जिसकेपैरकीगाठिणकमेमिलतीहो  
 सज्ञपन मारना प्रसन्नकरना जनावना  
 सज्ञा चेतना नाम हाथआदिसेसज्ञा  
 गायत्री सूर्यकीस्त्री  
 सनु पैरकीगाठीलगनेवाला  
 सटा ब्रह्मचारीआदिकीजटा  
 सडीन पक्षियोंकेउड़नेकाभेद. [ साधु  
 सत्, परिष्कृत अच्छा सुन्दर पूजित योग्य  
 सतत नित्य हमेशः  
 सती पतिव्रता पतिकीसेवामेतत्पर  
 सतीनक मटर मोथी  
 सतीर्थ्य गुरुभाई एकगुरुकेचेला  
 सत्तम अतिसुन्दर  
 सत्त्व सतोगुण द्रव्य चित्त विचार  
 स्वभाव विशाचादि थपनाभाय  
 बल प्राण जतु  
 सत्पथ सुन्दररास्ता  
 सत्य सच कगम सत्यता  
 सत्यक ब्रह्माजी [ जम्बरकरैगे  
 सत्यकार सहीकरना इसकामको हम  
 सत्यवचस् ऋषि सत्यबोलनेवाला

सत्यवतीसुत व्यास ॥ [ करना  
 सत्याकृति - इसकामकोहमकरैगे सही  
 सत्यावृत, भूँउठांचकारोजिगार बनियई  
 सत्यापन } सहीकरना सचाईकरना  
 सत्यापना }  
 सत्र यज्ञ वस्त्र [ करताहै  
 सत्रा साथ जैसेस्त्रीकेसाथसुखभोग  
 सत्रिन्, गृहपति जोहमेशःअन्नादिदानकरै  
 सत्वर शीघ्र जल्दी  
 सदभ्याज्य दहीमिलायी  
 सदन घर माकान  
 सदस् सभा बैठक  
 सदस्य यज्ञकेदेखनेवालेवेदपाठी  
 सदा सर्वदा सबकाल  
 सदागति वायु जोहमेशःचलती है  
 सदातन नित्य सनातन हमेशः  
 सदानीरा नदीभेद  
 सदानन्द ब्रह्मा हमेशःआनन्द  
 सदरू }  
 सदश } समान घरावर  
 सदत्त }  
 सदेश समीप निकट  
 सन्नन् घर माकान स्थान  
 सथस् तत्काल तिसीसमय  
 सधर्मिणी पत्नी स्त्री  
 सध्वञ्च् साथचलैवपूजनकरै  
 सनत्तुमार ब्रह्माकपुत्र  
 सनपर्णी गोकर्णीआँपधि  
 सना नित्य जैसेसनातन  
 सनातन नित्य हमेशः सटा  
 सनात्तुमार ब्रह्मावापुत्र

सनाभि सातपुरिखाकेभीतरकेकुटुबी  
 सनि गुरुआदिकेलियेभित्तामांगना  
 सनिष्ठीव । लारवहतेवातकरना वातमे  
 सनिष्ठेव । धुकआना  
 सनीड समीप निकट पास  
 संततं, नित्य हमेशः  
 संतति गोत्र कुल  
 संतप्त संतापित गरमाया  
 संतप्तस सबतरफअंधकार  
 संतान कल्पवृक्ष वंश कुल  
 संताप अग्निसेगर्म  
 संतापित संतप्त गरमाया  
 संदान, बांधनेकीरस्सी  
 संदानित बांधा बांधा  
 संदाव संग्रामादिसेभागना  
 संदित बांधा बांधा गुहा पिराहा  
 संदेशवाच् दूतआदिकेकहेसंदेश  
 संदेशहर दूत हरकारा  
 संदेह संशयहोना  
 संदोह समूह भुंड  
 संद्राव भागना पलायना  
 संधा प्रतिघ्ना मर्यादा, [ एकमेमिलाना  
 संधान मदिरादिवनानेकीवस्तुवाँको  
 संधि मिलाप मेल मिलावना  
 संधिनी गर्भवती गर्भिणी  
 संध्या सायंकाल पितरोंकीमाता  
 सन्नकट्टु चार चिरौजी, [ होना  
 सन्नद्ध, वस्त्रआदिपहिरसंग्रामकोतैयार  
 सन्नय पीछेकीसेनाकासमूह  
 सन्निध समीपता निकटता  
 सन्निकर्षण }

सन्निकृष्ट समीप पास निकट  
 सन्निधि समीपता  
 सन्निवेश सुन्दररहनेकास्थान  
 सपत्र शत्रु बैरी  
 सपदि शीघ्र तत्काल  
 सपर्या अन्नादिदेना पूजा  
 सपिड सातपुरिखाकेभीतरकावंश  
 सपीति साधपीना जलआदि  
 सप्तकी स्त्रियोंकेकमरकागहना कमर-  
 पटाकंधनीआदि  
 सप्ततंतु यज्ञ राजसूयादि  
 सप्तपर्ण छतवतीवृक्ष  
 सप्तर्षि मरीचि १ अत्रि २ अङ्गिरा ३  
 पुलस्त्य ४ पुलह ५ क्रतु ६ विशिष्ठ ७  
 सप्तला नेवारि थूहर  
 सप्तार्चिस अग्नि काली १ कराली २  
 मनोजवा ३ सुलोहिता ४ सुधूम्रवर्णा ५  
 स्फुलिगिनी ६ विश्वदामा ७ अग्नि  
 कौजिडाहै  
 सप्तारव सूर्य  
 सप्ति घोडा  
 सप्तैह्यचारिन, एकवेदपढनेवालेब्रह्मचारी  
 सभर्तृका मोहागिल सौभाग्यवती  
 सभा सभा सभाकास्थान समाज जुवाँ  
 कास्थान  
 सभाजन आवनेवालेकीखातिरकरना  
 सभासद् } सभाकरनेवाले समाजी  
 सभास्तर }  
 सभिक जुवाँखिलावनेवाले  
 सभ्य साधु समाजी सभावाले

सम वरावर तुल्य सपूर्ण	समाकर्षिन् दूरहीसुगंध
समक्ष प्रत्यक्ष सामने देखाआदि	समाघात सग्राम लड़ाई
समग्र सब सपूर्ण	समाज एकजातिवालोंकासमूहसभा
समगा मजीठ लजारू लाजवंती	समाज्ञा कीर्ति यश प्रसन्नता
समज पशुओंकेभुङ	समाधान समझाना [ रहना
समज्ञा } कीर्ति यश प्रसन्नता	समाधि अंगीकार चित्तकोरोंकनामौन
समज्या } कीर्ति यश प्रसन्नता	समान, नाभिकीवायु धरावर पण्डित एक
समजस नीति सुचाल	समानोदर्य एकपटकेभाई सगेभाई
समधिक बहुतहुवा अधिकता	समालभ कुरुमादिकालेप
समततस् सवतरफ सवते	समावृत्त जोब्रह्मचारीगुरुसेनेदपठगृह-
समतदुग्धा सेंहुङ	स्थीकोआज्ञापावै
समतभद्र बुद्ध जैनमतकेदेवता	समासाद्य प्राप्तहोनेयोग्य प्राप्तहोना
समन्वितलय सुदरगीतनाचकीलय	समासार्थ, मभिच्छा जिसेकविपूर्णकरतेहैं
समम् साथ वरावर	समाहार इकट्ठाकरना
समय काल वरत कश्म आचार नियम	समाहित अंगीकारकिया स्थिरचित्त
म अवसर आज्ञा	समाहित सग्रहग्रंथ [ आदिकायुद्ध
समया समीप मय निकटता	समाह्वय प्राणियोंकोजुवा भेडातीतुर
समर सग्राम लड़ाई. [ अनुकूल	समिति सभा सग्राम संग
समर्थ शक्तिमान सुदरवधपदईत्यादि	समित् सग्राम लड़ाई
समर्थन योग्यअयोग्यकीपरीक्षामें	समिष् शुपावृणकाठ
समर्थक परदेनेसाला बरदाता	समीक लड़ाई युद्ध
समर्थादि समीप निकट [ र्थदण्डदेते हैं	समीप निकट पास
समर्तित् यमराज जोप्राणियोंकोयया	समीर वायु हवा
समवाय समूह भुङ	समीरण वायु मंत्रा जंत्री
समष्टिला कहुवामूरन	समुचय इकट्ठाकरना ढेरलंगाना
समसन सन्नेप थोडा विस्तारनहो	समुच्छ्रय रर उचाई
समस्त सपूर्ण सब [ यक	समुज्झित त्याग लौडना
समस्या समिच्छा अर्थपूर्णकरनेला	समुत्पिज बहुतरया कुलसेनाआदि
समाः वर्ष साल [ आदि	समुत्कृत निकालना जैसेरुमामजल
समासमीना माल २ बियानेवालीगाँ	समुत्थय समूह भुङ [ निकाला ]



समुदाय समूह संग्राम  
 समुद्रग } समुद्रक चौघडा इलाचीआ  
 समुद्रगक } दिभरनेका  
 समुद्रगीर्ण जलपात्रादिकोऊपरनिका-  
 रना उखारना  
 समुद्रत गह्वरी जिसकाकडास्वभावहो  
 समुद्र सागर  
 समुद्रांत कपास रुईकापेढ  
 समुद्राता जवासा पिंडकाओपधि  
 समंदने ओदाहोना भीजा  
 समुन्न ओदा गीला. [अहंकारी  
 समुन्नद पण्डितअपनाकोमाननेवाला  
 समुपजोषम् आनंद खुसी  
 समूह हिरनभेद  
 समूह झुंड गरोह  
 समूह्य अधिकेप्रयोग  
 समृद्ध धनी तालेवर उत्तम  
 समृद्धि बढ़ना बढ़ती  
 समृष्ट सफाबिना अन्नादि  
 संपति } सोभा लक्ष्मी धन  
 संपद् }  
 संपराय युद्ध आवनेवालासमय  
 संपरायिक युद्ध संग्राम  
 संपिधान छिपना बह्नादिसेमूंदना  
 समुद्रक चौघडा इलाचीआदिभरनेका  
 संप्रति इससमय इसीकाल  
 संप्रदाय पुरानीचाल परम्परा  
 संप्रधारण विचार  
 संप्रधारणा योग्यअयोग्यकीपरीक्षा  
 संप्रहार लड़ाई संग्राम  
 संफुल्ल फूलाफूल

संब वज्र इन्द्रकाआयुध  
 संवर जल पानी  
 संवरारि मद्युम्न कृष्णकेपुत्र  
 संवाकृत दुवाराजोताखेत वाहकियां  
 संवाध थोड़ीरास्ति  
 संबोधन प्याद पाद अंग हे है भो येद  
 संभेद नदियोंकामिलाप संगम  
 संभ्रम हर्षसेकामपेशीघरा जल्दी  
 संमद खुसी आनन्द  
 संमार्जनी बढ़नी बुहारी  
 संमूर्द्धन सवतरफज्याप्तहोना  
 सम्यञ्च् सुन्दरतना  
 सम्राज् राजसूययज्ञकरनेवालावारह  
 मण्डलकामालिकजिसकीआज्ञा  
 सवराजाकरैपेसामहाराजाधिराज  
 सर मुंजसर सरपत  
 सरक मदिरापीना  
 सरधा ममाखीमच्छी  
 सरट गिरदान. [पत्याणि.  
 सरणा निशोय सपेदत्रिधारा गंध-  
 सराणे मार्ग रास्ता  
 सरणी गन्धपसारिणी  
 सरत्रि मुण्डाहांथसे बंधीमूंडकाहाय  
 सरमा कुतिया कूकुरि  
 सरल सरला देवदार उदार सूधा  
 सरलद्रव धूपविशेष  
 सरला निशोय सपेदत्रिधारा  
 सरस } तालाव ताल  
 सरसी }  
 सरसीरुठ कमल

सरस्वत् समुद्र नद [ नदीभेद नदी.	सर्वलिङ्गिन् पाखण्डी बौद्धादिशास्त्र
सरस्वती ब्रह्माकीर्त्ती वाणी वात	पढनेवाला
सराव सरवा परई	सर्ववेदस् जिसनेविश्वजित नामयज्ञमे
सरित् नदी	सर्वस्वदैदिया जैसेराजारघुनेयज्ञके
सरित्पति समुद्र नदियोंकामालिक	उपरांतकौत्स ऋषिकोमट्टीकाथर्व
सरिल पानी	पात्रदियाथासवदेनेकेकारणसे
सरीसृप साप	सर्वसन्नहन चतुरगिणीसेनाकाजमात्र
सर्ग स्वभाव त्याग निश्चय अध्याय	सर्वानुभूति निशोध
काव्यादिभेविश्रामस्थान सृष्टिकी	सर्वान्नभोजिन् } जोसवकाअन्नखाय
उत्पत्ति मोह उत्साह	सर्वान्नीन }
सर्ज } असनावृत्त	सर्वाभिसार सेनाकाइकहाहोना
सर्जक }	सर्वार्थसिद्ध बौद्धभेद
सर्जरस धूप रार	सर्वाय सेनाकाजमात्र
सर्जिकाक्षार सज्जीखार	सर्पप सेरसौ
सर्प सांप	सलिल पानी जल
सर्पराज सापोंकेराजाजामुकी	सल्लकी शालयश्रीपथि
सर्पिस् घी	सव यज्ञ [ सोमाभिपत्र
सर्व महादेवजी संपूर्ण सव	सवन, मोमलताकएहन यज्ञकेअंतमेंस्तान
सर्वसहा पृथ्वी जोसवकोसहती है	सवयस् वरावरकासाथी
सर्वज्ञ उद्ध महादेवजी	सवित् सूर्य
सर्वतस् सत्रतरफ सवसे	सविध } समीप निरूट
सर्वतोभद्र घरकेऊपरघर दुमाहला	सवश }
आदि नीवकापेंब	सव्य धार्इतरफकीदेह [ वरना
सर्वतोभद्रा खभारी	सव्येष्ट सारथीकोसग्राममेवांतरपरथ
सर्वतोमुख पानी जोसत्रतरफरहताहै	समन यज्ञपशुकेमाग्नेमे
सर्वदा सवकानमे सवसे	सम्य वृत्तादिबोंवाफल नाज
सर्वधुरावह } जोपैलसवतनासेवोभूलै	सस्यमजरी नाजकीवाली
सर्वधुरीख } चलताहो	सम्यशुक नाजकाशोदुर
सर्वमगला पारिती जोमंगलगुपई	सस्यमन्त्र शाग्वकापेंइ शालचून्
सर्वरस धूप राल	सह साथ सग
सर्पिला गुर्दाहथियार तोमर	

सांद्रस्निग्ध चिकनाघना गंभीरवादरः  
 सान्नाय्य हविभेदस्वाहाको  
 साप्तपदीन मित्रता जोसातपदसेहो  
 सावर लोधवृत्त  
 साम सलूक समभक्ताना. [ भक्ताना  
 सामन् सामवेद वेदकेसाम सलूक सम-  
 सामाजिक समाजी सभाकेरक्तक  
 सामान्य जाति सामान्य  
 सामि आधा निर्दित  
 सामिधेनी अग्निकेप्रज्वलनकीश्रचा  
 सामुद्र समुद्रलवण  
 सांपरायिक संग्राम युद्ध  
 सांप्रतम् इसीकाल योग्य  
 सायक वाण तलवार  
 सायम् साम दिनकाअंत सामकीसंध्या  
 सार . वृत्तादिकागाभा बल न्यायमेमास  
 श्रेष्ठ जल धन हीर  
 सारंग चातक पपीहा हिरनभेद हाथी  
 कवरारंग कमल हंस दीपक मेघ  
 वीणा काजर कस्तूरी पिक चंद्रमा  
 स्त्री खंडरैचा  
 सारणी गंधपसारिणीऔपधि  
 सारथि रथकेहांकनेवाला  
 सारमेय कूरुर रुचा  
 सारव सरयूनदीकाहुआ  
 सारस कमल. सारसपत्नी  
 सारसन द्विषोंकीकमरकागहेना धीरों  
 का कमरपट्टा  
 सारिका पत्नीभेद सुईपत्नी  
 सारिचा औपधिभेद

सारोष्टिक स्थावरविष  
 सार्थ प्राणियोंकासमूह  
 सार्थवाह बनियां रोजिगारी  
 सार्द्र वोदोःगीला भीजा  
 सार्धम् साथ सहितआधा [ राजा  
 सार्धभौम, दिग्गजकानाम स्वपृथ्वीका  
 साल वृत्त पेंड चक्रांकितमछरी शह-  
 रपनाइत्यादि . शांखोकापेंड  
 सालपर्णी सरिवनऔपधि  
 सालूर मेहुक मेभुका  
 सास्ना बैलआदिकालटकागला  
 साहस दंड सजा  
 साहस्र जिसकेपासहजारोंसेनाहो ह-  
 जारोंकाभुंड  
 सिंह सिंह श्रेष्ठार्थमे जैसेपुरुषसिंह्राम  
 सिंहतल फैलायेदोनोहांथ  
 सिंहनाद धीरोंकीगर्जना  
 सिंहपुच्छी पिठवनिऔपधि  
 सिंहसंहनन सुंदरअंगोकापुरुष  
 सिहाण लोहेकाकोट मंडूर  
 सिहाण }  
 सिहान } नाककापैल  
 सिहाण }  
 सिहासन राजावोंकासुवर्णकाराज-  
 गद्दीकाआसन  
 सिहास्य रुसाइ रुम  
 सिही रुसाइ रुस भांटा वैगन  
 सिकता बालू भूइकादेश  
 सिकतामय बहुनथालहोना  
 सिकतायत् बालूका देश

सिक्किक मोम भीतकेसीथ  
 सिंघाखी लोहेकाकीटांमंहर  
 सित सफेद वंधासिमाप्लीचांदी  
 सितब्रजा सिंसौफ गी  
 सितशिव सेंधौनमक  
 सिता सपेदी शकर  
 सिताभ कपुर  
 सिताभ्र सिताभ्र  
 सितांभोज सफेदकमल  
 सिद्धात्रेवगण, सिद्धात्रेवगण  
 सिद्धांत सिद्धांत, सिद्धांतोना  
 सिद्धार्थ सफेदसिरसौ सिद्धप्रयोजन  
 सिद्धि औषधिभेद, सिद्धि  
 सिध्यु सेंहुवारोग, सफेदकण्ठ  
 सिध्यल सेंहुवाकारोगी  
 सिध्यला सूखीसंखरी-सेहुवारोग  
 सिध्यु पुप्यनत्रन  
 सिधका सिद्धभेद, सिद्धभेद  
 सिनीवाली सिद्धभेद, सिद्धभेद  
 सिंदुक सिद्धभेद, सिद्धभेद  
 सिंदवार सिद्धभेद, सिद्धभेद  
 सिंदूर सिद्धभेद, सिद्धभेद  
 सिंधु नदी सिंधदेश समुद्र नदी हांधी  
 सिंधुक सिंदूर  
 सिंधुज सेंधौनमक  
 सिंधुवार सिंदूर  
 सिंधुसगम, नदियोंका मिलाप संगम मेल  
 सिरा नारी नाटिका  
 सिल्ली शालयर्षापधि  
 सिद्ध लोपान म्लेच्छोंकी धूप  
 सीकर पानीकेकिनका छिटकी

सीता हलकीलकीरु आकाशगगा  
 श्रीरामकी स्त्री  
 सीत्य जोताखेत  
 सीधुंजी कंखआदिकी मदिरा  
 सीमन् मर्यादा डांडा  
 सीमंत बालोंकासिगार मांग  
 सीमतिनी सोहागिलस्त्री सौभाग्यवती  
 सीमा मर्यादा डांड  
 सीर हल  
 सीरपाखि, बलदेवजी जिनके हाथमे हल है  
 सीवन सूजीसे सीवना टरजीका कोम  
 सीसक सीसाधातु  
 सीहुरडा सेंहुकापेड  
 सु अतिशय पूजनमे सुंदरता  
 सुकंदक पियाज  
 सुकरा सूधीगौ  
 सुकल दाता भोगकरतेवाला  
 सुकुमार कोमल नर्म मुलायम  
 सुकृते धर्म पुण्य  
 सुकृतिन् भाग्यवान् पुण्यवान्  
 सुख खुसी आनन्द कल्याण  
 सुखवर्चक सज्जीखोर  
 सुखसदुहा सुखसे दूध देनेवाली गौ  
 सुखसदाहा सुखसे दूध देनेवाली गौ  
 सुगत बुद्ध जैनमत सुंदरप्राप्त  
 सुगधा रासनि औषधि [ एलरा  
 सुगधि सुंदरसुगंध गालु सुगंधद्रव्य  
 सुग्रीव कृष्ण काचोडा श्रीरामकी पित्र  
 जिसका सुंदरगला दोषी  
 सुचरित्रा पतिव्रता स्त्री

सुचेलक । सुंदरवस्त्र उत्तमकपडा ।	सुमलाप सुंदरबोली अच्छी र बातों
सुत पुत्र लड़का राजा ।	सुभगासुत सोहागिलकापुत्र जिसका
सुतश्रेणी मुसकनऔपधिया ।	पिताजीवताहोता ।
सुतात्मजा । लड़कावेलड़कीकीबेटी ।	सुभिक्षा अच्छीभिच्छान्धीकेफूल ।
नातिनी पोती ।	सुम फूल ।
सुत्रामन् । इंद्रस्वर्गकाराजा ।	सुमन गोहूँ ।
सुत्या सोमाभिपव यज्ञकेअंतमेस्नान ।	सुमनम् देवता ।
सुत्वन् यज्ञांतस्नानकरचुका ।	सुमनसः फूल मालती ।
सुदर्शन श्रीकृष्णकाचक्र ।	सुमना चमेली मालती ।
सुदाय, कन्याकेविवाहमेदेनेयोग्य, दायज	सुमनोरजम् फूलकीधूलि पराग ।
सुदूर अतिदूर; बहुतदूर ।	सुमेरु सनिकापहाड़ ।
सुधर्मा देवताकीसभा ।	सुर देवता ।
सुधा अमृत जोदेवतावोंनेपिया महलों	सुरंगा सुरंग जिसमेवैठेशुकोजीते ।
मेचूनाआदिकालेप विजुली अंभरा	सुरज्येष्ठ ब्रह्मा सबदेवतासेज्येष्ठ ।
भोजन ।	सुरत दयावान् मैथुन ।
सुधांशु चंद्रमा ।	सुरदीधिका आकाशगंगा ।
सुधी पण्डित बुद्धिमान् ।	सुरद्विप दैत्य दानवादि । [रनेवाली]
सुनासीर । इंद्र ।	सुरनिभ्रंगा गंगादेवतावाँकीपवित्रक
सुनिप राणक शागभेद विसखपरिया	सुरपति देवतावाँकीमालिकइंद्र ।
सुंदर अच्छा नीक उम्दा ।	सुरभि वसंतऋतु सुंदरसुगंधयुत काम-
सुंदरा } स्त्री जिसकेअंगसुंदरहों	धेनु गौ जायफल चंपा शालय
सुंदरी } औपधि ।	सुरभी } शालयऔपधि
सुपधिन् सुंदररास्ता जिसमेझायाकु-	सुरभीरसा } शालयऔपधि
वाँआदिहों	सुरारि नारदादिदेवतावाँमेष्टपि ।
सुपर्ण गरुड	सुरलोक स्वर्ग देवतावाँकालोक ।
सुपर्णक किरवारवृत्त	सुरवर्त्मन् आकाश
सुपर्वन् देवता	सुरसा रासनिऔपधि
सुपार्वक गजहंड गेठी	सुरा मदिरा सराव
सुप्रतीक दिग्गजकानाम	सुगचार्य देवताकेआचार्यबृहस्पतिजी
सुप्रयोगविशिख बाणफेकनेमेचतुर	सुरामंड मदिराकाफेना

सुरालय सुमेरुपर्वत  
 सुराप्त्र तुवरि अरहरि  
 सुवचन सुदरीवात उम्दाबोली  
 सुवर्ण सोनाघातु अस्सीरत्तीभरसोना  
 सुवर्णक किरवारवृत्त  
 सुवलि वकुची वचुकी  
 सुवहा म्याङ्गी रासनि हंसपदी शालय  
 एलापर्णा शोगभेद  
 सुवासिनी नईयुवास्त्रीविवाहकेपीछे  
 पिताकेघरमे  
 सुव्रता सूरीगौआदि उत्तमस्त्री  
 सुशवी करेला  
 सुपम मनोहर सुदर  
 सुपमा शोभा छवि सुंदरना  
 सुपवी करेला कालाजीरा  
 सुषि छेद बिल  
 सुषिम जाड़ा पाला  
 सुषिरा बशीशखआदिवाजा छेद बिल  
 गड़हा खधक  
 सुषिरा मालकागुनि नलीगधद्रव्य  
 सुपीम जाड़ा पाला  
 सुपेण करौदाकापेड [लातेद  
 सुपेणिका कालात्रिधारानिशोधका  
 सुष्ट अतिशय प्रशसा उम्दगी  
 सुसस्कृत यत्रसेयीआदिमेपकाईवस्तु  
 सुसवी करेला  
 सुहृद मित्र सखा साथी  
 सुहृदय चित्तकासाफ सुन्दरहृदय  
 सूकर सूअर [अध्यात्म  
 सूस्म थोड़ा बहुतछोटा अतरात्मा

सूचक कानमेंपराईनिंदाकरनेवाला  
 चुगुलखोर [जाहिरकरना  
 सूचन आशयकामकाश जनाचना  
 सूचि सुई सूजि नाचनेकाभेद  
 सूत रथकासारथी पारा ब्राह्मणीमे  
 त्तत्रीसेपैदाहो  
 सूतकागृह सोडर जहांपरलडकाआदि  
 सूतिकागृह पैदाहो  
 सूतिमास पैदाहोनेकामहीना  
 सूत्यान चतुर प्रवीण  
 सूत्र सूत व्याकरणादिमे  
 सूत्रवेष्टन कोरीआदिकासूतलपेटना  
 सूद रोटिकरा भोजनवनानेवाला  
 व्यजनपदार्थ  
 सूना जीभकेनीचे पुत्री मारनेकास्थान  
 सूनु पुत्र लडका  
 सूनुत प्यारीसच्चीबात  
 सून्माद उन्मादी वैलाया पागल  
 सूपकार भोजनपदार्थवनानेवाला  
 सूर सूर्य [आचारी  
 सूरण जिमीकन्द  
 सूत दयावान  
 सूरसूत अरुणसूर्यकासारथी  
 सूरि बुद्धिमान परिहट  
 सूर्प सूपनाजपद्धोरनेका  
 सूर्मि } लोहेकीमूर्ति सुमी  
 सूर्मो }  
 सूर्य जिनकेउदयसेदिनहोताहै  
 सूर्यतनया यमुना सूर्यकीलडकी  
 सूर्यमिया ज्ञाया संज्ञा

सूर्येदुसंगमं अमात्रस जिसेमेन्द्रमासूर्य  
 एकमेमिलजाताहै प्राणिक  
 सकि। }  
 सकिणी } ओठकेवायेत्रदहिनेकाअत  
 सकिन् }  
 सग गोफना जिससेदलइदफकाजाताहै  
 सगाल सियार  
 सण अरुश आगुश  
 सणिका } लार मुइकापानी  
 सणीका }  
 सति मार्ग रास्ता  
 सपाटी तौलकाभेद  
 समर हिरनकीजाति  
 सष्ट बौइना बनाना  
 सष्टि निश्चय बहुत सष्टि  
 संकेपान चमडीआदिकोवालटी डोल  
 सेचन मसक  
 सेनु पुल वरुणवृक्ष  
 सेना फौज सवारपैदलहाथीतोपश्चादि  
 सेनाग हाथी १ रथ २ घोडा ३ पैदल  
 ॥ १ ॥ येसेनाकेअंग है  
 सेनानी स्वामिकार्तिक सेनापति  
 सेनामुख सेनाकाप्रमाण जिसमेहाथी ३  
 रथ ३ घोडा ६ पैदल १५ हौं  
 सेनारत्न फाजकेपहरेदार  
 सेव सुईसेसीना  
 सेवक नाकर टहलुवा  
 सेवन सुईसेसीना सेवाकरना  
 सेवा कुचकीसीनीपिका टहल मजूरी  
 सेच्य मृणकीजर मालिक  
 संहिकेय राहु गिंहिकारात्तसीकापुत्र

संकत जहापरवहुतवाल्हो  
 सैतवाहिनी सहस्राजुनकीनदी  
 सैनिक जिसेनाकेपहरेदार सेनाकेसाथ  
 सैर्धव घोडा सैर्धानमक  
 सैन्य सेनाकेसाथ फौज  
 सैरथ्री परायेघरमेस्त्रियोंकेशुगारकरने  
 सैरिथ्री वालीनिशकखी  
 सैरिक हलकंबैल जोतजावेक  
 सैरिभ भैंसा  
 सैरेयक भिंटी करसैला  
 सोढ जमाकोप्राप्त सइसुका  
 सोत्मास हसीकीवातें  
 सोदर्य सगाभाई  
 सोन्माद जैलान पागल  
 सोपपुत्र ग्रहणकियेसूर्यचन्द्रमा  
 सोपान ओठा पत्थरआदिकेबनेमहलमे  
 सोभाजन सहिजनकापेह  
 सोम चन्द्रमा यज्ञभेद अमृतवल्लीरस  
 सोमप  
 सोमपा } सोमयज्ञकरनेवाला हमेशा  
 सोमपीतिन् } यज्ञकरनेवाला  
 सोमपीथिन् }  
 सोमपीविन् }  
 सोमराजी रजुची बजुची  
 सोमयल्क सपेटकृत्या दृषियावैर  
 सोमयष्टरि } मछेडी सोमलता  
 सोमवष्टरी }  
 सोमवष्टिका रजुची रजुची  
 सोमवष्टी शुच  
 सोमोन्नवा नर्मदा जा चन्द्रमामेहई  
 सोल्लुटन हमीकीयान

सौगत शून्यवादी  
 सौगधिको सामकाफलनेवालासफेद  
 सौचिक सीनेवाला दरजी  
 सौदामनी विनुलीकीचमक  
 सौदामिनी राजावोंकेपहल  
 सौध राजावोंकेपहल  
 सौभागिनेया सोहागिलकालइका  
 सौभाजन सहिजनकोपेइका  
 सौम्य बुधग्रह मनोहरसूधाजिसका  
 सौरशशुनैश्चरग्रह  
 सौरभेय शिविल  
 सौरभेयी शौ  
 सौराष्ट्रको स्थावरविषय  
 सौरि शनैश्चरग्रह  
 सौरीयक भिडीकरसेला  
 सौवर्चल सौचरुनमक संचलखार  
 सौविद राजावोंकीस्त्रियाकेपहरेदार  
 सौवीर वेरफल कांजी सिरका सुरमा  
 सुवीरदेशकाअंजन  
 सौवीर्य वेरफल  
 सौहिल्य वृत्तहोना भोजनादितेपूर्णहोना  
 स्कंद स्वामिकार्तिक [ राजा सेना  
 स्कंध वृत्तकीजडसेठारतक कंधा समूह  
 स्कंधशाखा मोटीर डार  
 स्कन्ध गिरना गलजाना  
 स्कलन गिरना धर्मादिदृष्टना  
 स्कलित धल नष्ट चोरीकीलडाई  
 स्तन कुंच जिनकोबालकपीताई

स्तनधयी  
 स्तनपा  
 स्तनयित्तु  
 स्तनित  
 स्तवक गुच्छाफलआदिका  
 स्तव्यरोमन् सुअर  
 स्तव्य वोकरा  
 स्तव्य बिनडारकेवृत्त बिनगांठिकेवृत्त  
 स्तव्य वृत्तजवआदिकागुच्छावभुट्टा  
 स्तवकरि धान्य जवआदि  
 स्तवघन सुरपी हंसिया चांसकीटोक  
 स्तवघ्न नीसी  
 स्तवेरम हाथी  
 स्तंभ जड़ता यज्ञस्तेभादि  
 स्तव स्तोत्र स्तुति बडाई  
 स्तिमित बोदा भीजा  
 स्तुत स्तुतिकिया बडाईकरना  
 स्तुति निर्गुणीभोगणकहेना बडाई  
 स्तुतिपाठक  
 स्तुम वोकरा  
 स्तूप बराआदिभोजनकीवस्तु  
 स्तेन चौर उडाईगीर  
 स्तेम बोदाहोना भीजजाना  
 स्तेय चोरी उडाईगीरी  
 स्तेन्य }  
 स्नोक छोटा थोडा  
 स्तोत्र स्तुति बडाई  
 स्नोम समूह स्तोत्र यज्ञ  
 स्त्री औरत  
 स्त्रीधामणी रजस्वलास्त्री  
 स्त्रीपुम्स जोहा दोनोपद औरत



स्वयंगार	स्त्रियोंकेधर राजावोंकेअंतःपुर	स्थूल	मोटा मूर्ख	
स्थंडिल	यज्ञकेलियेपृथ्वी. [वाला.	स्थूललक्ष्ण	दानशूर वडादानी जोअ-	
स्थंडिलशायिन्	पृथ्वीमेनियमसेसोने-	स्थूललक्ष्य	पनादेकरदूसरेसेनमांगनेदे	
स्थपति	जिसनेबृहस्पतियज्ञकी थवई	स्थूलशाटक	मोटाबह्ल गजीगाढाआदि	
	कारीगर पेंड पर्वत राजा	स्थूलोच्चय	हाथीकीमध्यचाल कुछकम-	
स्थल	ऊसर स्थान सूखीपृथ्वी	स्थेयस्	वहुतस्थिर. [पत्थरकेदुकडा.]	
स्थली		स्थौण्य	कुकरौधा	
स्थविर	बृद्ध वृद्धा	स्थौरिन्	भारतेनेवालाघोडा लडुवा	
स्थविष्ठ	वहुतमोटा	स्थौल्य	बल मोटाई	
स्थाण	महादेवं वृत्तकीकटीमोटीडार	स्तव	बहना वहिजाना	
	स्तंभादि बैठै	स्नातक	वेदस्नात विद्यास्नात वेदविद्या	
स्थांडिल	नियमसेपृथ्वीपरसोनेवाला		स्नात व्रतस्नात वेदविद्याव्रतस्नात	
स्थान,	नीतिभेद नित्य अवकाश वरा-		इत्यादि जोब्रह्मचारीवेदपढ़मों-	
	वरनिवासस्थान	स्नान	नहाना. [जीकोछोरै.	
स्थानीय	नगर शहर ग्रामादि	स्नायु	नसैं जिनसेदेहसबबंधी है	
स्थाने	योग्य जानतेहैं	स्निग्ध	वरावरकासाथी चिकना पुत्रादि	
स्थापत्य	रानियोंकेपहरेदार		मेंस्नेहकरनेवाला	
स्थापनी	पाठाऔंपधि.	स्तु	पहाडकीवरावरपृथ्वी	
स्थापन्	परारूप भीतरीबल	स्तुक्	सँहुड	
स्थायुक्	एकगांवकामालिक जिमीदार	स्तुत	बहना वहिगया	
स्थाल	भैंडवावर्तन	स्तुपा	पुत्रादिकीस्त्री पतोहयादि	
स्थाली, पांडरि	थाली तवालीया कसहड़ी	स्तुडा	}	
स्थावर	जोचलनसकै	स्तुहि		सँहुड
स्थाविर	बुढापा	स्तुही		
स्थासक	देंहमेचंदनादिकालेप उवटनैं	स्तैह	प्यार प्रेम	
स्थास्तु	वहुतस्थिर वहुतबँठनेवाला	स्पर्श, इंद्रियकाविषय	छूना दान रोगभेद	
स्थिति	आसन बैठना सुमार्गचलना	स्पर्शन	वायु टान [उपतापरोग	
स्थिरतर	वहुतबँठनेवाला वहुतस्थिर	स्पर्श	भेदिहाडिपनेवालादूत युद्ध	
स्थिरा	पृथ्वी सरिवनऔंपधि	स्पष्ट	प्रकट खुलासा	
स्थिरायु	स्पेंवरकापेंड	स्पष्ट	उपतापरोग	
स्थूणा	लोहेकीमूर्ति घरकेसंभा	स्पृका	शागभेद पिंडकाऔंपधि	

सृशी भटकटैया  
 सृष्टि छूना  
 सृहा बांझा इच्छा  
 स्पष्ट रोगभेद  
 स्फटा सांपकाफन  
 स्फरण फरकना जैसेआंखकाफरकना  
 स्फाति बढना वृद्धि  
 स्फार बहुत अधिक  
 स्फारण फरकना  
 स्फिच् कमरकेमांसपिड कूल  
 स्फिर बहुत अधिक  
 स्फुट फूलकाफूलना प्रकट फटना  
 स्फुटन फूटना  
 स्फुरण }  
 स्फुरणा } फरकना  
 स्फुलन }  
 स्फुलिंग अश्रिकेकिनकाचिनगी  
 स्फूर्जक तेंदुवाकापेंड  
 स्फूर्जथु बज्रकीआवाज  
 स्फेष्ठ अतिशयस्थिर  
 स्फोटन फूटना फोडना  
 स्फोरण फरकना  
 स्प पादपूरणमे धीतनेमे  
 स्पय गर्व अहंकार  
 स्मर प्रद्युम्न कामदेव. [ भस्मकिया.  
 स्मरहर महादेव जिन्होंनेकामको-  
 स्मित, मुसक्याना जिसहंसीमेदांतनदेखपेंड  
 स्मृति धर्मकीसंहिता मनुआदि  
 स्पद वेग जल्दी. [ स्मरण सुधि. ]  
 स्पंडन तिनिशृङ्ग रथलड़ाईका

स्पंदनारोह रथपरचढ़लडनेवाले  
 स्पंदिनी लार मुंहकापानी  
 स्यन्न वहिजाना  
 स्याल साला स्त्रीकाभाई  
 स्याद्वादिक मोक्षहैयानहीइसतरहवि-  
 चारनेवाला  
 स्यूत गोनि थैली बस्त्रविनना  
 स्यूति सीना सुईसे  
 स्योन गोनि थैली  
 स्योनाक स्योनापाढाऔपधि  
 संसिन् पिल्लुवाकापेंड  
 सज् मालां शिरमेफूलकीपांति  
 सव वहना  
 सवद्गर्भा, जिसगौआदिकागर्भवहियाय  
 सवंती नदी जोहमेशःबहाकरै  
 सवा जीवनीऔपधि  
 सष्ट ब्रह्मा जोसवकोवनाताहै  
 सस्त गिरपडना गिरा  
 स्राक शीघ्र जल्दी  
 सुक् यज्ञमेसुवा  
 सुत बहेना बहा  
 सुव } सुवाआदियज्ञमेपानहोतेंहै  
 सुवा } पुरहरीऔपधि  
 सुवावृत्त वृत्तभेद  
 स्रोतस् स्रोता जहांआपसेआपपानीहो  
 इन्द्रियोंकावेग नदीकाबहना  
 स्रोतस्वती } नदी  
 स्रोतस्विनी } [ अंजन  
 स्रोतोजन सुरमा यमुनाकेस्रोतावाँका  
 स्व स्वगोत्री अपनेकुटुंबी आत्मा अ-  
 पना क्षेत्रज्ञ धन

स्वच्छन्दः	अपनीइच्छाचारी अपनेवश	स्वच्छ	अश्विनीकुमारस्वर्गकेवैद्य
स्वजन	कुटुंबी; अपनेगोत्रके	स्वसृ	वहिनि
स्वतंत्र	अपनेवश स्वेच्छाचारी	स्वस्ति	आशीर्वाद कुशल पुण्य मंगल
स्वधा	पितृकार्यमें	स्वस्तिक	राजावैकेधरकेभेद
स्वधितिः	कुठार, कुल्हाड़ा	स्वसीय	भानुजा वाहिनिकालइका
स्वन	शब्द आवाज	स्वस्वैय	
स्वनित	शब्दहोना आवाजअनाना	स्वाति	नक्षत्र
स्वप्न	सोरहना सपना	स्वादु	सवाद मनोहर मीठा
स्वप्नञ्	बहुतसोरहनेवाला	स्वादुकंटक	वेरफल गुठुख
स्वभाजन	खातिरकरना आनंददेना	स्वदुरसा	काकोली
स्वभाव	प्रकृति सुभाव	स्वाद्मी	दाप मुनका
स्वभू	विष्णु [ करनेवाली	स्वाध्याय	वेदकामाठ गायत्रीजप
स्वयंवरा	अपनीइच्छासेस्वयंवरमेपति	स्वान	शब्द आवाज
स्वयम्	अपना आपही	स्वांत	चित्त मन
स्वयंभू	ब्रह्मा	स्वाप	स्वप्न सोरहना
स्वर	स्वर्गलोक परलोक	स्वापतेय	धन द्रव्य
स्वर	उदात्त अनुदात्त स्वरित गानके	स्वामिन्	राजा मालिक स्वामी
	स्वर अकारादि	स्वाराज्	इंद्र स्वर्गलोककाराजा
स्वराज्	इंद्र	स्वाहा	अग्निकीप्रिया देवताओंकेलिये
स्वरु	वज्र वज्रकाशब्द लिंग योनि	स्वित्	प्रणयनेतर्कमें
स्वरूप	स्वभाव अपनारूप परिच्छेद	स्वेद	पसीना
	मनोहर	स्वेदज	किरवा डांस मसायादि
स्वर्ग	इंद्रकीराज्य	स्वेदनी	पदिरावनानेकीभाटी कलछुला
स्वर्ण	सोना सुवर्ण	स्वैर	धीरा स्वधीन
स्वर्णकरि	सोनेकाकामकरनेवाला	स्वैरिणी	जोस्त्रीपरायेपुरुषसेरम
स्वर्णक्षीरी	चौप औपधिभेद	स्वैरिता	स्वेच्छा अपनीइच्छा
स्वर्णदी	आकाशगंगा	स्वैरिन्	स्वेच्छाचारी
स्वर्भानु	राहुग्रह नैऋत्यकाग्रह		(ह)
स्वर्षेया	स्वर्गलोककीपतुरिया उर्ध्वशी		पादप्रणमें कप्रार्थ इपार्थ
	रंभाआदि		

हंस सूर्यहंस परमहंस राजा विष्णु पर-  
 मात्मा ईर्षानकरना योगिभेद मंत्रभेद  
 हंसक तूपुर बिडिया  
 हंसवाहन ब्रह्मा जिनकीसवारीहंसहै  
 हजिका भारंगी ब्राह्मीऔपधि  
 हजे सेबकिनिकोबुलानेमे  
 हड़ बाजार दुकान  
 हड़बिलासिनी औपधि  
 हठ जवरदस्ती जोरावरी  
 हडे नीचलीकोबुलानेमे  
 हत भारना भनकोभारना  
 हनु औपधि दादी [ निश्चयइनमे  
 हंत दानकृपात्रिपादहर्षबाणीकाआरंभ  
 हन भौंडेहोना  
 हयो घोडा  
 ह्यपुच्छी मषवर्नऔपधि बनउर्द  
 ह्यमारक कनैरकापेड  
 हर महादेव जोसबसंहारकरते हैं  
 हरण दायज कन्याकेविवाहमेदेनेकी  
 वस्तु चोरी नाश  
 हरि सिंह यम वायुइन्द्र सूर्य विष्णु  
 किरण, घोडा, सुनापत्ती, सांप,  
 बानर मुँहुका हरारग वैकुण्ठ चंद्रमा  
 हरिचन्दन कल्पवृत्त कपिलवर्णचन्दन  
 हरिण सफेद पीला हिरना  
 हरिणी सोनेकीहरीमूर्ति हथी  
 हरित् दिशा सफेद पीला घोडा  
 हरितक बथुईआदिशागभेद  
 हरिताल } हरितार  
 हरितालक }


हरिदश्व सूर्य  
 हरिद्रा हरदी  
 हरिद्राम पीला गोरा  
 हरिद्रु दारुहरदी  
 हरिन्मणि नीलक हरीमणि  
 हरिमिय कदंबकावृत्त  
 हरिमिया विष्णुकीप्यारीलक्ष्मी  
 हरिमंथक चना लहिला  
 हरिमंथजो  
 हरिबालुक बालुकसुगन्धिद्रव्य  
 हरिहय इन्द्र जिनकेहरितघोडे हैं  
 हरितकी हरी  
 हरेण रेणुकवीजऔपधि मटर मोथी  
 हर्म्य भूनवानोंकेमकान महल  
 हर्यत्त सिंह  
 हर्ष आनंद खुसी  
 हर्षमाण मसनचित्त  
 हल हल जिससेखेतजातेजातेहैं  
 हला सखीकोबुलानेमे  
 हलायुध बलदेवजी  
 हलाहल स्थावरविप  
 हलिन बलदेवजी जिनकाहलआयुधहै  
 हलिमिय कदंबकावृत्त  
 हलिमिया मटिरा शरान  
 हल्य जोताखेत  
 हल्या बहुतसेहल हलौकादेर  
 हल्लक लाल कमल  
 हव बुनायना आशा यज्ञ  
 हविस् हवनकीपीर घी  
 हव्य जिसकोहोमसे देनाममंनहो  
 हव्यपाक हवनकीआग्नि चरु

हृष्यवाहन अग्नि  
 हस हंसना  
 हसनी } वेरोसी अंगीठी  
 हसती }  
 हस्त हांथ हांथ भर वाला केसमुहमे हस्त  
 हस्तधारण } मारनेवालेको रोकना  
 हस्तवारण }  
 हस्तिन् हांथी  
 हस्तिनख शहरवगविकेवाँहरचढाउता,  
 हस्तिपक } महाउत्त हांथी हांकेनेवाला  
 हस्त्यारोह }  
 हह गंधर्वोमिश्रेण्गंधर्व  
 हा विपाद शोक पीडा निदा  
 हाटक सुवर्ण सोना  
 हायन वर्ष साल किरण धान्यभेद  
 हार मोती आदिकेहार  
 हारित } हरिलपत्नी एक अण्डपिकानाम  
 हारीत }  
 हार्द प्रेम स्नेह प्यार  
 हाल हल  
 हाला मटिरा शराय  
 हालिक हलकेवल जोतनिहा  
 हाव स्त्रियोंकी शृंगारचेष्टा  
 हास हंसी  
 हासक धनदरी औपधि  
 हास्त्रिक हाथियोंका भुंड  
 हास्य रसभेद हंसी  
 हाहा गंधर्वोमिश्रेण्  
 हि कारण निश्चय पादपूरण  
 हिंसा चोरीआदिकर्म मारडालना कि-  
 सीकीजीविकानाशकरना  
 हिंसाकर्षन् जारना मरना

हिंस जीवसारनेत्राला इत्यारा  
 हिका हुक्की  
 हिगु हीगवहीगका वृत्त  
 हिगुनिर्यास निवकापेढ  
 हिगुल संगनेकोरगभेद  
 हिगुली भांडा बैंगन  
 हिज्जल पानीकेवैत  
 हिडीर } समुद्रफेन  
 हिडीर }  
 हिताल ताडभेदवृत्त  
 हिम जाडा पाला हेपंतअनुदंदा  
 हिमवत् हिमालयपर्वत  
 हिमवाल्का काकेपुरा  
 हिमसंहति बहुतपालावजाडा  
 हिमांशु चंद्रमा जिसकी किरण टंडी है  
 हिमानी - बहुतजाडावपाला  
 हिमावती औपधिभेद धन सुवर्ण  
 हिरण्य - धनीवनवनीचांद्रीवसोना  
 हिरण्यगर्म ब्रह्मा  
 हिरण्यराह शोणभद्रनद  
 हिरण्यरेतम् अग्नि  
 हिरफ विना समीप  
 हिलमोचिका हिलसायपुगी  
 ही विष्मय विपाद  
 हीन कम निदा त्याग  
 हीर महादेवजी  
 हुनभूमिया अग्निकी प्रिया म्याहा  
 हुनभुन् अग्नि  
 हुम मन्ममे तर्कमे  
 हुहु गंधर्व

हृति बुलाना गोहराना  
हृद् गंधर्व  
हृणिया } घृणा घिन  
हृणीया }  
हृद् } चित्त मन हृदय छातीमेगहिराई  
हृदय }  
हृदयंगम } बंधीवात वातकेलच्छे  
हृदयालु } दिलकासाफ सुन्दरहृदय  
हृय } प्यारा सुननेलायकप्यारीवात  
हृपीक } इंद्रिय आसकानआदि  
हृपिकेश } विष्णु  
हृष्ट = आनंदी खुसी  
हृष्टमानस } खुसी मन आनंदयुत  
हृ } संबोधनार्थ  
हेति, आकाश प्रकाश शस्त्र आगिकीलपट  
हेतु } कारण  
हेमकूट } एकपहाड  
हेमदुग्ध } गुलरकापेंड  
हेमन् } सुवर्ण सोना  
हेमंत } ऋतुभेद  
हेमपुष्पक } चंपा  
हेमपुष्पिका } पीलीजूही  
हेमाद्रि } सुमेरुपहाड

हेरंभ } गणेशजी  
हेला } स्त्रियोंकीइच्छादिचेष्टा  
हेपा } घोड़ोंकाहिनहिनाना  
हे } संबोधनार्थ  
हेम } सुवर्णकीवनीकाईवस्तु [ चीरी.  
हेमवती } श्रीपार्वती हर सपेदवच स्वर्ण  
हेयंगवीन } एकरातिकेदहीकाधी  
होतु } यज्ञमेंऋग्वेदी  
होम } वैश्वदेवादिमें  
होरा } लग्न आधीलग्न शास्त्रोत्सामेद  
होम् } वीतादिन  
हृद् } जिसजलमयाहनहो  
हृसिष्ठ } बहुतछोटा  
हृस्व } बजना छोटा हृस्व  
हृस्रगवधुका } बरियारीभेद ककही  
हृस्वांग } जीवकयौपधि [ औपधि.  
ह्रादिनी } वज्र विजुली नदी शालय  
ह्री } लाज शर्म  
ह्रीण } लजाया शरमाया  
ह्रीत }  
ह्रीवेर } सुगंधवाला हाहूवेर  
ह्रीपा } घोड़ोंकाहिनहिनाना  
ह्रादिनी } शालयऔपधि



# ग्रन्थसमाप्तौग्रन्थरचनाप्रकारमाह ॥

श्लोक ॥

श्रीकान्यकुब्जद्विजवृन्दमध्ये आसीद्भरद्वाजकुलप्रसूतः ॥ शु  
क्लादिमोनामगुरुप्रसादोविख्यातकीर्तिःश्रुतशीलकर्मा ॥ १ ॥ श्री  
मान्महादेवकृपावलोकादानीसदाचाररतोतिधीरः ॥ तस्यात्मजा  
सुदुगुणैरुपेतापुत्रोपितुःकीर्तिकरौप्रजज्ञे ॥ २ ॥ तयोःकनिष्ठस्त्वकु  
लावतंसोदुर्गाप्रसादाभिधवाजपेयी ॥ श्रियाप्रयुक्तस्तुविचारदत्तो  
वभूवमित्रैरतिपूज्यमानः ॥ ३ ॥ तस्याज्ञामवगम्यविप्रकुलजोज्जा  
तोतिसुरेशिवा धाराख्याच्छिवशक्तिपूजनरतात्श्रीविश्वनाथस्तु  
धीः ॥ गङ्गावामतटाजुकोशयुगकेग्रामेवडौराभिधेस्यायीदीक्षितवंश  
वर्द्धनकरश्रीमच्छिशूनामुदे ॥ ४ ॥ ग्रन्थार्थप्रकाशनामकममुंश  
ब्दादिमंशास्त्रतो मासेभाद्रपदेऽसितेगुहतिथौवारेशृगोचात्मभे ॥ अके  
न्दून्मितसंज्ञकेशततमेपंचाशदेकोनके श्रीमद्विक्रमवत्सरतुकृतवान्  
दुर्गाशिवांतोप्यवै ॥ ५ ॥

अलङ्करोभंगभयाद्विवचितत्वाद्वाकचित्रसंधिः ॥

समाप्तोयं शब्दार्थप्रकाशः शुभम्भवतु ॥

